



■ **सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला- अभिभावक नहीं बेंच सकते नाबालिग की संपत्ति**
- 12



■ **भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.7-6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी**
- 12



■ **नेतन्याहू के दांव पर भड़के अमेरिकी उपराष्ट्रपति कहा- ये अपमानजनक**
- 13



■ **भारत को दो विकेट से हराकर आस्ट्रेलिया ने सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त बनाई**
- 14

आज का मौसम

33.0°
अधिकतम तापमान

22.0°
न्यूनतम तापमान

सूर्योदय
06.13

सूर्यास्त
05.32

केदारनाथ धाम के कपाट बंद

देवों के देव महादेव के धाम और ग्यारहवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट भैयादूज पर गुरुवार की सुबह साढ़े आठ बजे बंद किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। इस दौरान 10 हजार से अधिक लोग मौजूद रहे।

वोट हटाने के लिए प्रति आवेदन 80 रुपये का हुआ भुगतान

बेंगलुरु, एजेंसी

एसआईटी जांच में खुलासा

● आलंद में हटाए गए थे वोट, छह सदियों पर कसा शिकंजा

कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनावों में वोट चोरी के आरोपों की जांच कर रही एसआईटी ने पाया कि वोट हटाने (डिलीट) के प्रयास किए गए थे। एसआईटी ने इसमें लिप्त कम से कम छह सदियों पर शिकंजा कसा है। अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक वोट को सफलतापूर्वक हटाने के लिए आरोपियों को 80 रुपये दिए जाते थे। कुल 6,994 वोट हटाने के अनुरोध किए गए थे, लेकिन कुछ वास्तविक मामलों को छोड़कर शेष सभी आवेदन फर्जी थे। कलबुर्गी में आने वाला आलंद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गृह जिला है और कांग्रेस विधायक बीआर पाटिल इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाटिल और खरगे के बेटे प्रियंक खरगे ने ही वोट हटाने की कोशिशों का पर्दाफाश किया था और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में अवगत कराया था। पाटिल के अनुसार, दलितों और अल्पसंख्यकों सहित कुल 6,994 'कांग्रेस वोट' हटाने के लिए आवेदन दिए गए थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बाद यह प्रक्रिया रोक दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में अपनी बात रखी थी कि वोट चोरी कैसे हो रही है और उन्होंने आलंद का उदाहरण दिया था। पाटिल ने कहा कि अगर ये वोट हटा दिए जाते, तो वह निश्चित रूप से चुनाव हार जाते। उन्होंने 2023 का विधानसभा चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सुभाष गुट्टेदार (भाजपा) से 10,000 मतों के अंतर से जीता था। मामलों को गंभीरता से लेते हुए कर्नाटक सरकार ने वोट चोरी की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

ब्रीफ न्यूज

स्पाइसजेट विमान में तकनीकी खराबी दिल्ली लौटा विमान
नई दिल्ली। तकनीकी खराबी के कारण पटना जाने वाला स्पाइसजेट का एक विमान गुरुवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी लौट आया। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि विमान ने सामान्य लैंडिंग की और यात्रियों को सामान्य रूप से उतार लिया गया। विमान में सवार यात्रियों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। विमानन कंपनी ने कहा, 23 अक्टूबर 2025 को दिल्ली से पटना जा रही स्पाइसजेट की उड़ान एसजी 497 तकनीकी खराबी के कारण उड़ान भरने के बाद दिल्ली लौट आई। यात्रियों को ले जाने के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई, जो अब पटना के लिए रवाना हो चुका है।

52 दवा नमूने 'मानक गुणवत्ता रहित' पाए
नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं ने सितंबर के लिए जारी अपने दवा संबंधी मासिक अलर्ट में विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित 52 नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया है। इसके अलावा, राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 60 दवा नमूनों की पहचान की है जो 'मानक गुणवत्ता के नहीं' थे। नकली दवाओं की सूची मासिक आधार पर सीडीएससीओ पोर्टल पर प्रदर्शित की जा रही है।

बायोलाॅजिकल और रेडियोलाॅजिकल हादसों से निपटेगा विशेष दस्ता : योगी

अग्निशमन विभाग की समीक्षा में 98 राजपत्रित व 922 अराजपत्रित नए पदों को दी मंजूरी

● मुख्यमंत्री ने कहा- प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड यूनिट व एक्सप्रेस-वे के हर 100 किमी पर होगी छोटी फायर चौकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केमिकल, बायोलाॅजिकल, रेडियोलाॅजिकल हादसों और सुपर हाईराइज बिल्डिंग से अग्निकांड से निपटने के लिए को प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड यूनिट बनेगी। साथ ही एक्सप्रेस-वे के हर 100 किमी पर छोटी फायर चौकी खुलेगी। मुख्यमंत्री ने अग्निशमन विभाग की संरचना को समय की जरूरत के अनुरूप पुनर्गठित करने के निर्देश देते हुए 98 राजपत्रित व 922 अराजपत्रित नए पदों की मंजूरी भी दी है। योगी ने अपने आवास पर अग्निशमन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या, तेज औद्योगिक विस्तार व तीव्र शहरीकरण को देखते हुए फायर सर्विस को केवल आग बुझाने वाली एजेंसी न मानकर इसे आपदा प्रबंधन,



अग्निशमन व आपात सेवा विभाग में पदों के सृजन व अभियोजन संवर्गीय अधिकारियों के कैडर रिव्यू के संबंध में बैठक करते मुख्यमंत्री योगी।

हर जिले में हो अकाउंट कैडर की स्थापना

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले में अकाउंट कैडर की स्थापना की जाए, ताकि वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में भी नए पद सृजित करने के निर्देश दिए, जिससे प्रशिक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार हो। उन्होंने कहा कि फायर सर्विस की नई इकाइयों को हाईटेक कन्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल रिपोर्टिंग तंत्र से जोड़ा जाए।

समयबद्ध पूरा करें विभाग का पुनर्गठन

बैठक में बताया गया कि नई ऑपरेशनल इकाइयों के रूप में कुशीनगर, आजमगढ़, श्रावस्ती, कानपुर नगर, अयोध्या, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट पर फायर सर्विस की जनशक्ति पहले से ही तैनात की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विभाग का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि जनता को इसका लाभ जल्द मिल सके।

रेस्क्यू ऑपरेशन व आपातकालीन सेवाओं के समेकित तंत्र के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने विभागीय कैडर रिव्यू की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि

प्रत्येक क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड यूनिट गठित की जाए, जो केमिकल, बायोलाॅजिकल, रेडियोलाॅजिकल दुर्घटनाओं और सुपर हाईराइज बिल्डिंग्स में होने वाली आपदाओं

से निपटने में सक्षम हो। कहा कि आधुनिक तकनीक, उन्नत फायर टेंडर और प्रशिक्षित जनशक्ति से लैस फायर सर्विस ही जनसुरक्षा की गारंटी दे सकती है।

ईवी नीति में जारी रहेगी रोड व पंजीकरण शुल्क माफी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीदने वालों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 में बड़ा संशोधन करते हुए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफी जारी रखने का फैसला किया है। इससे ई-वनों व ई-गुड्स कैरियर्स को भी लाभ मिलेगा। सरकार औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर एग्जीग्रेटर और लाइट ऑपरेटरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की अधिसूचना पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में हरित ऊर्जा आधारित परिवहन को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया है। शासनादेश संख्या 73/2025 के तहत जारी अधिसूचना को राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है। संशोधित नीति के अनुसार, राज्य में निर्मित और पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर तीन वर्ष तक रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में सौ प्रतिशत छूट दी जाएगी। यह लाभ नीति अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष तक लागू रहेगा। इसके अलावा, चौथे और पांचवें वर्ष में भी छूट का लाभ आंशिक रूप से जारी रहेगा। यह कदम प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। औद्योगिक विभाग

● इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ी राहत, ई-बसों व ई-गुड्स कैरियर्स को भी लाभ

● एग्जीग्रेटर और लाइट ऑपरेटरों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की अधिसूचना को राज्यपाल की मंजूरी

बैंक खाताधारक 1 नवंबर से बना सकेंगे चार नॉमिनी

नई दिल्ली। अब बैंकों के ग्राहक अपने खाते में चार व्यक्तियों तक को नामित (नॉमिनी) कर सकेंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में दावों के निपटान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समान और प्रभावी बनाना है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई व्यवस्था एक नवंबर, 2025 से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत खातों में व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान अगले माह से प्रभाव में आएंगे। यह अधिनियम 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत पांच कानूनों में कुल 19 संशोधन किए गए हैं। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन संशोधनों के अनुरूप बैंक ग्राहक अपने खातों में एक साथ चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकते हैं।

सबरीमला मामले में मंदिर का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार

पथनमथिट्टा (केरल)। सबरीमला मंदिर से सोना गायब होने की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मंदिर के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बी. मुरारी बाबू गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें बुधवार रात चिंगनास्सेरी स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बाद में उन्हें पूछताछ के लिए तिरुवनंतपुरम स्थित अपराध शाखा कार्यालय ले जाया गया। बाबू के रिश्तेदार गुरुवार सुबह अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे।

प्रदेश में कई शहरों की जहरीली हुई हवा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: उत्तर प्रदेश में दिवाली बाद वायु प्रदूषण चरम पर है। कई शहरों की हवा जहरीली हो गई है। राज्य के दस प्रमुख शहरों की एक्यूआई की स्थिति तो चिंताजनक है। इनमें लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड, बुलंदशहर, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज, आगरा व बरेली शामिल हैं। खासकर दिल्ली से सटे उप्र. के शहरों में वायु प्रदूषण का संकेत गहराया हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबोहवा ज्यादा बदतर है। दरअसल, प्रदेश के कई शहरों में दीपावली पर

दिवाली बाद बढ़ा वायु प्रदूषण

● लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर आगरा, बरेली, मेरठ, मुजफ्फरनगर प्रयागराज व अन्य शहरों में चिंताजनक

दो दिन तक हुई आतिशबाजी ने हवा में जहर घोल दिया है। इस कारण प्रदूषण इस कदर बढ़ा कि वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) दो दिन में

ही काफी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आंखों में जलन और गले में खराश की शिकायत की है। दिल्ली से सटे यूपी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर हो गई है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) की साइट पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को मेरठ में सुबह 10 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 332, हापुड का 244, बुलंदशहर का 214 व लखनऊ का 211, मुरादाबाद का 185, कानपुर का 183, प्रयागराज का 175, आगरा का 173 व बरेली का एक्यूआई 153 दर्ज किया गया है।

नए सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू, न्यायमूर्ति सूर्यकांत कतार में आगे

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया गुरुवार को शुरू कर दी। वर्तमान प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई 23 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया से वाकिफ लोगों ने बताया कि न्यायमूर्ति गवई को उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने के लिए कहने से संबंधित पत्र शुक्रवार तक मिल जाएगा। प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, केंद्रीय कानून मंत्री भारत के सीजेआई से उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति के लिए उचित समय पर सिफारिश मांगेंगे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत न्यायमूर्ति गवई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और न्यायपालिका के अगले प्रमुख बनने की कतार में पहले पायदान पर हैं।



न्यूज़ ब्रीफ

दो आईएसएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव

अमृत विचार, लखनऊ : शासन ने दो वरिष्ठ आईएसएस अधिकारियों को लेकर आदेश जारी किया है। गुरुवार को जारी आदेश में प्रतीक्षारत अर्चना अग्रवाल को अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग एवं अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अमित गुप्ता को प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग एवं अध्यक्ष, उग्र. राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रभार से अवमुक्त करते हुए प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के पद पर यथावत रखा गया है।

टीईटी का विरोध करने दिल्ली जाएंगे शिक्षक

अमृत विचार, लखनऊ : शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने का विरोध शिक्षक दिल्ली में करेंगे। इसके लिए शिक्षक संगठनों ने 24 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इस विरोध को प्रभावी बनाने और ज्यादा से ज्यादा शिक्षक दिल्ली पहुंचे, इसके लिए 25 अक्टूबर से देश भर में शिक्षकों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक अनिल यादव ने बताया कि शिक्षकों का धरना-प्रदर्शन दिल्ली के जंतर-मंतर पर होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के आदेश के खिलाफ शिक्षकों को आंदोलन करना पड़ रहा है।

आयुष डॉक्टरों की भर्ती के साक्षात्कार 30 से

अमृत विचार, लखनऊ : राजधानी के सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेद डॉक्टरों की तैनाती के लिए 30 अक्टूबर से साक्षात्कार शुरू होंगे, पांच दिन तक चलेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी लखनऊ डॉ. एनबी सिंह ने बताया कि डॉक्टरों की नियुक्ति इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर किया जाएगा, नवंबर में परिणाम घोषित कर डॉक्टरों की तैनाती होगी। उन्होंने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत 21 आयुर्वेद डॉक्टरों की भर्ती होनी है, इन पदों के लिए लगभग 2200 डॉक्टरों ने आवेदन किया था।

बिजली कर्मचारी फिर करेंगे प्रदर्शन

अमृत विचार, लखनऊ : विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को सभी जिलों में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी दी है। निजीकरण के साथ ही वर्टिकल सिस्टम का भी विरोध करने का निर्णय संघर्ष समिति ने लिया है। इसे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघर्ष समिति का आरोप है कि वर्टिकल सिस्टम के नाम पर शहरी क्षेत्रों में पुनर्गठन किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों और ईजीनियर्स को पदों को घटाया जा रहा है। पहले पदों को घटाया जाएगा। इसके बाद शहरी क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा।

पूर्वांचल में धान की खरीद 1 नवंबर से

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : पश्चिमी यूपी में 23 दिन में 35.63 हजार मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद हुई है। जबकि पहली सितंबर से शुरू हुए पंजीकरण अभियान में अब तक 1,37,166 किसानों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है। सरकार ने इस सत्र में 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है और खरीदों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। उधर, 1 नवंबर से पूर्वांचल के जिलों में धान खरीद की तैयारी तेज हो गई है।

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 4000 क्रय केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा था, जिनमें से 3790 केंद्र पहले ही सक्रिय हो

बढ़ते कदम

पहला अर्घ्य देकर छठ की शुरुआत करेंगे योगी

मुख्यमंत्री से मिले भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 27-28 को छठ महापर्व अवकाश घोषित करने की मांग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे सूर्य भगवान को पहला अर्घ्य देकर घाट पर छठ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभुनाथ राय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री से भेंट कर तैयारी पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि 27 और 28 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए, ताकि श्रद्धालु निर्बाध रूप से छठ मैया की पूजा-अर्चना कर सकें। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रदेश में छठ पर्व के सुचारु आयोजन के लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

प्रभुनाथ राय के नेतृत्व में इस वर्ष लखनऊ के गोमती तट स्थित लक्ष्मण मेला मैदान पर 41वां छठ



लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क स्थित छठ पूजा स्थल पर रंगोली बनाते हुए आर्ट कॉलेज के छात्र। अमृत विचार

दंपति डॉक्टरों को एक ही अस्पताल में नौकरी करने का मिलेगा मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : ग्रामीण क्षेत्र हो या अन्यत्र दूरस्थ क्षेत्र, इमरजेंसी में सीजेरियन करने के लिए एमबीबीएस डॉक्टरों को इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर (ईमॉक) और लाइफ सेविंग एनेस्थीसिया स्किल (एलएसएसएस) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनवरी 2026 में शुरू होने वाले बैच के लिए प्रशिक्षण ने विभाग में कार्यरत नियमित व सविदा चिकित्सकों से आवेदन मांगे हैं। छह माह के प्रशिक्षण उपरांत इन डॉक्टरों की

- सीजेरियन व एनेस्थीसिया स्किल प्रशिक्षण के लिए मांगे गए आवेदन
- स्वास्थ्य विभाग के एमबीबीएस डॉक्टरों को मिलेगी ट्रेनिंग

तैनाती फर्स्ट रेफरल यूनिट पर की जाएगी, ताकि जच्चा-बच्चा की जान बचाई जा सके। खास बात है कि इस प्रशिक्षण में दंपति चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें एक ही अस्पताल में तैनात भी किया जा सकता है। महानिदेशक प्रशिक्षण डॉ. पवन गंगवार अरूण ने बताया कि ईमॉक व एलएसएसएस में 24-24 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

इस प्रशिक्षण योजना की सफलता के लिए प्रांतीय चिकित्सा सेवा में कार्य करने वाले पति-पत्नी डॉक्टर को प्राथमिकता दी गयी है, इसमें दोनों जोड़ी बनाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के लिए सीएमओ के माध्यम से नाम भेजे जाएंगे। प्रशिक्षण के बाद असक्रिय एफआयू को क्रियाशील करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि प्रशिक्षण के बाद असक्रिय एफआरयू में जोड़ी कार्य नहीं करेगी तो उनसे प्रशिक्षण पर खर्च धनराशि आठ लाख रुपये की वेतन से वसूली की जाएगी।

सपा की प्रबल इंजन वाली होर्डिंग बनी चर्चा का विषय

अमृत विचार, लखनऊ : राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी (सपा) मुख्यालय के सामने सपा नेता द्वारा लगायी गयी विशेष चित्र वाली होर्डिंग चर्चा का केंद्र बनी हुई है। संतकबीर नगर के सपा नेता जयराम पाण्डेय द्वारा लगायी गयी इस होर्डिंग में ट्रेन का इंजन दिखाया गया है, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोटो है और लिखा है, फिर से चलेगी समृद्धि की बयार, जब 2027 में आपगी प्रबल इंजन सरकार...।

होर्डिंग को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि गुरुवार सुबह लगायी गयी यह



पोस्टरवार के क्रम में लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया होर्डिंग।

अमृत विचार

सपा की प्रबल इंजन वाली होर्डिंग बनी चर्चा का विषय

होर्डिंग प्रदेश में भाजपा की "डबल इंजन सरकार" के जवाब में है। सपा सरकार ही प्रदेश में विकास, रोजगार और सामाजिक-न्याय की असली कार्रवाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह अभियान आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा।

होर्डिंग प्रदेश में भाजपा की "डबल इंजन सरकार" के जवाब में है। सपा सरकार ही प्रदेश में विकास, रोजगार और सामाजिक-न्याय की असली कार्रवाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह अभियान आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा।

होर्डिंग प्रदेश में भाजपा की "डबल इंजन सरकार" के जवाब में है। सपा सरकार ही प्रदेश में विकास, रोजगार और सामाजिक-न्याय की असली कार्रवाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह अभियान आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा।

होर्डिंग प्रदेश में भाजपा की "डबल इंजन सरकार" के जवाब में है। सपा सरकार ही प्रदेश में विकास, रोजगार और सामाजिक-न्याय की असली कार्रवाई है। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह अभियान आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव तक जारी रहेगा।

गुरुवार दोपहर सांसद तनुज पुनिया,

200 लोक कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

छठ महापर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सुप्रसिद्ध लोक गायिका कल्याण पटवारी (असम), गोपाल राय (बलिया) और सुरेश शुक्ला (मुंबई) सहित लगभग 200 लोक कलाकार लगातार 18 घंटे तक प्रस्तुति देंगे। छठ घाट की व्यवस्था और सजावट में समाज के पदाधिकारी मनोज सिंह, वेद प्रकाश राय, सुनील सिंह, सुरेश कुशवाहा, अम्बरीश राय और अन्य सहयोगी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। भोजपुरी समाज ने आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस वर्ष का छठ महापर्व लखनऊ ही नहीं, पूरे प्रदेश में श्रद्धा, आस्था और लोकसंस्कृति का अद्भुत संगम बनेगा।

खर्कवाल और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।

मंत्रियों ने परखीं छठ पर्व की तैयारियां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हो रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने को गुरुवार को लक्ष्मण मेला घाट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाट पर स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व आस्था और स्वच्छता का प्रतीक है, इसलिए घाटों पर सफाई अभियान विशेष रूप से संचालित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि घाट तक जाने वाले सभी मार्गों पर समुचित सफाई, फॉर्गिंग एवं प्रकाश की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ नगर निगम एवं विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

अखिलेश-मायावती करेंगे बिहार में चुनाव प्रचार

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : बिहार चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा नेता मायावती भी प्रचार के घमासान में उतरने को तैयार हैं। ऐसे में उग्र. के दोनों नेताओं की रैलियों से बिहार का राजनीतिक पारा बढ़ सकता है। यूपी चुनाव से पहले भाजपा के मुकाबले मायावती-अखिलेश की बिहार चुनाव में अगिनपरीक्षा है।

दरअसल, यह पहले से तय था कि दिवाली बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती भी बिहार में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। सूत्रों की मानें तो 25 अक्टूबर से अखिलेश यादव मिशन बिहार पर होगा। इसके बाद मायावती 6 नवंबर से बिहार चुनाव में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही हैं। दोनों की एंट्री के बाद बिहार का सियासी पारा चढ़ सकता है। सपा मुखिया पीडीए नारे के साथ बिहार में उतरेंगे और तेजस्वी यादव के समर्थन में रैलियों को संबोधित करेंगे।

वहीं, मायावती वहां रामगढ़ और कैमूर सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगी। असल में, बीते दिनों राजधानी में आयोजित रैली में लाखों की भीड़ जुटने के बाद बिहार चुनाव में मायावती की रैलियों की डिमांड की जा रही है। सूत्रों का कहना है पार्टी द्वारा बिहार चुनाव के लिए मायावती की करीब दो दर्जन रैलियों को आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी



प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे केशव मोर्य

अमृत विचार : उग्र मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मोर्य को भाजपा ने बिहार में सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। केशव भी निरंतर वहां अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं। गुरुवार को भी उन्होंने बिहार पहुंचकर भोजपुर में जनसभा को संबोधित किया। केशव प्रसाद मोर्य ने वहां कहा कि तेजस्वी यादव बिहार की जनता से सिर्फ फर्जी वादे कर रहे हैं। अभी बिहार का बजट उतना नहीं है, लेकिन जितना वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उतना भारत सरकार का बजट भी छोटा पड़ जाएगा।

आदित्यनाथ की रैली से बिहार चुनाव का घमासान और सुर्खियों में है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जनसभाओं के जरिये जनता से वोट मांगने की धार और पैनी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी अपनी जनसभाओं में एनडीए उम्मीदवार को जिताने की अपील करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान योगी 15 से 20 रैली कर सकते हैं।

किसानों के घर तक पहुंचेगी खाद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : खरीफ सीजन में खाद वितरण को लेकर उपजे विवादों के बाद अब सहकारिता विभाग किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। विभाग रासायनिक खाद को होम डिलीवरी योजना पर काम कर रहा है। जिस तरह घरेलू गैस सिलिंडर की बुकिंग और आपूर्ति की प्रक्रिया होती है, उसी तर्ज पर किसान अब ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे और रैलियों की ओर से खाद सीधे उनके घर तक पहुंचाई जाएगी।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि विभाग खाद वितरण प्रणाली को सरल और सुविधाजनक बनाने की दिशा

गैस सिलिंडर की तरह होगी खाद की होम डिलीवरी व्यवस्था

- सभी सहकारी समितियों पर दो पीओएस मशीनें अनिवार्य रूप से लगाई जाएं।
- मंत्रा डिवाइस से कंप्यूटर जोड़कर वितरण प्रक्रिया तेज की जाए।
- समितियों पर क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा शुरू करें।
- बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला किसानों के लिए ही अलग लाइनें।

में काम कर रहा है। होम डिलीवरी व्यवस्था के साथ-साथ वितरण केंद्रों पर भीड़ कम करने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं। रबी सीजन में

दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रहीं : अखिलेश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में दलितों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस सरकार में सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों और सामंतवादियों को भाजपा सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। सत्ता समर्थक पीडीए को तरह-तरह से अपमानित कर रहे हैं।

सपा प्रमुख ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि रायबरेली में दलित समाज के नौजवान को पीट-

कहा- प्रदेश में सामंती ताकतों का बढ़ा हुआ है मनोबल

पीट कर हत्या हुई। लखनऊ में काकोरी में दलित समाज के बुजुर्ग के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, ये चंद घटनाएं हैं। प्रदेश में हर दिन ऐसी न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। पुलिस-प्रशासन ऐसी घटनाओं पर मूकदर्शक बना रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं उग्र. में सबसे ज्यादा हो रही हैं। उन्हें अपमानित किया जाता है। सत्ता के दबाव में पुलिस असांमानिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं करती है।

धन से खड़ा रहने का आश्वासन दिया। पार्टी ने कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी भी संभाली।

जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपी स्वामीकांत के बड़े भाई और परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों में आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल गांव में तैनात है और शांति बनाए रखने की अपील की गई।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

अमृत विचार : प्रदेश अब केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं, बल्कि भारत का सबसे तेजी से उभरता निवेश केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से नवाचारपूर्ण प्रयासों को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बना दिया है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में गठित फोकस सेक्टर डेस्क ने निवेश प्रक्रिया को न सिर्फ सरल बनाया, बल्कि औद्योगिक विकास को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्थापित फोकस सेक्टर डेस्क के जरिये प्रदेश में टेक्सटाइल,

- टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जीसीसी सेक्टर में खुली विकास की राह

ऑटोमोबाइल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में करोड़ों रुपये के निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में हैं। ये प्रोजेक्ट जल्द ही धरातल पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। योगी सरकार की पारदर्शी नीति, तेज मंजूरी प्रक्रिया और निवेशक-हितैषी वातावरण ने उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास का नया मॉडल बना दिया है। टेक्सटाइल सेक्टर में आईटीटीए, एईपीसी, सीआईआई, सीआईटीआई

और एनआईटीआरए जैसी संस्थाओं के सहयोग से ग्रासिम, ट्राइडेंट, रिलायंस, जीईएसएल और श्याम संस जैसी कंपनियां निवेश कर रही हैं। वहीं, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेक्टर में एसआईएएम, एसीएमए, एसएमईवी, और एआरएआई के साथ अशोक लेलैंड, मिंडा और टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के प्रोजेक्ट मंजूरी के दौर में हैं। केमिकल सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज और दीपक नाइट्राइड जैसे बड़े समूह निवेश की तैयारी में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में डिक्सन, एम्बर, एचसीएल-फॉक्सकॉन, हायर और एलजी जैसी कंपनियों की परियोजनाएं प्रदेश को भारत का अगला टेक्नोलॉजी

मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। नैसकॉम के सहयोग से एडोब, एएमडी और जेपी मॉर्गन जैसी ग्लोबल कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इससे प्रदेश को विश्वस्तरीय साझेदारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई पहचान मिल रही है। योगी सरकार के विजन और इन्वेस्ट यूपी की रणनीति ने प्रदेश में औद्योगिक विस्तार और लाखों रोजगार सृजन की संभावनाओं को नया बल दिया है। आने वाले समय में ये निवेश उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता और औद्योगिक नेतृत्व की दिशा में और आगे ले जाएंगे।

मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं।

नैसकॉम के सहयोग से एडोब,

एएमडी और जेपी मॉर्गन जैसी ग्लोबल

कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने ग्लोबल

कैपेबिलिटी सेंटर्स की स्थापना की

दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इससे

प्रदेश को विश्वस्तरीय साझेदारी और

डिजिटल अर्थव्यवस्था में नई पहचान

मिल रही है। योगी सरकार के विजन

और इन्वेस्ट यूपी की रणनीति ने प्रदेश

में औद्योगिक विस्तार और लाखों

रोजगार सृजन की संभावनाओं को नया

बल दिया है। आने वाले समय में ये

निवेश उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भरता

और औद्योगिक नेतृत्व की दिशा में और

आगे ले जाएंगे।

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■

अनुराग हेल्थ केयर प्रा.लि.

•ICU •NICU DIALYSIS • MODULAR OT

दूरबीन विधि से आपरेशन अब कम खर्च में

सीजीएचएस, मेडोक्सम व आधुनिक आई मान्य

117/क्यू/702, शारदा नगर, कानपुर 9889538233, 7880306999

न्यूज ब्रीफ

दलित महिला को छुरी मार कर किया घायल
कन्नौज। मामूली बात को लेकर दरवाजे पर लोगों ने गालीगलौज की। मना करने पर महिला को छुरी मार कर घायल कर दिया। मामले में चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कूलापुर निवासी दिव्यांग मंजु पत्नी जागेश्वर ने गांव के ही निवासी अभिषेक पुत्र श्रापाल, नरोत्तम पुत्र राम सिंह, वीरपाल झगडी, रासखी पत्नी देवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि वह अपने दरवाजे पर बेंटी के साथ बैठी थी। उसी समय उक्त लोग आये और गालीगलौज करने लगे। जब मना किया तो छुरी, लाठी से हमला बोल दिया। इससे वह घायल हो गई। मारपीट के दौरान पुत्री ने वीडियो बनाने का प्रयास किया तो उक्त लोगों ने उसी भी पीटा और मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। यही नहीं उसे जाति सूचक गालियां दी। धमकी दी कि यदि कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। 21 अक्टूबर को उसने थाने में शिकायत पत्रादिया। इस पर पुलिस ने मेडिकल परीक्षण कराया।

पोल से बांधकर प्लंबर की बेरहमी से पिटाई
छिबरामऊ, कन्नौज। ग्राम नगला सबसुख निवासी विकास कुमार पुत्र राजबीर ने कोतवाली पुलिस में शिकायत देकर बताया है कि वह पाइप फिटिंग का कार्य करता है। आरोप है कि गुरुवार दोपहर 12 :30 बजे गांव का एक युवक उसके घर आया और पाइप फिटिंग के लिए अपने घर चलने को कहा। उसने वहां जाकर पाइप नापा और बता दिया। थोड़ी देर बाद उक्त युवक चार-पांच लोगों के साथ उसके घर आया और मोबाइल चोरी का झूठा आरोप लगाया। उसके इन्कार करने पर आरोपियों ने उसे खेत में ले जाकर पोल से बांध दिया और लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा साथ ही गालियां दीं। गांव के लोग, पिता राजबीर, चाचा अतुल और रिक्तिक ने किसी प्रकार भूमिश्कल उसे छुड़ाया। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

ईशान नदी पुल की उखड़ी गिट्टी
कन्नौज। तिवां में ईशान नदी पुल की गिट्टी उखड़ गई है। इससे करीब एक मीटर स्थान पर सरिया दिखने लगी है। यहां से रोज गुजर रहे वाहनों से गिट्टी और उखड़ी जाती रही है। पूरे दिन इसी पुल से अधिकारी व कर्मचारी निकलने के बाद भी इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इससे किसी समय बड़ा हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर सरिया काफी समय से दिख रही है पर किसी जिम्मेदार ने सुध नहीं ली है। खास बात तो यह है कि जब से इस मार्ग का निर्माण कराया गया तबसे मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे सड़क का हाल भी खराब हो रहा है।

जिले भर में मना भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज

इस बार दीपावली के चौथे दिन मनाया गया त्योहार , भाइयों के माथे पर किया तिलक

कार्यालय संवाददाता कन्नौज/ तिवां

अमृत विचार। जिले भर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व भैया दूज पूरे हर्षोल्लास व परंपरागत तरीके से मनाया गया। बहनों ने भाई के मस्तक पर तिलक कर दीर्घायु की कामना की तो भाइयों ने रक्षा का वचन दोहराया।

इस बार दीपावली के चौथे दिन यम द्वितीया यानी भाई दूज का का पर्व धूमधाम से मनाया गया। क्योंकि दीपावली 20 अक्टूबर से लेकर 21 तक रही इसलिए गोवर्धन पूजा का त्योहार 22 अक्टूबर बुधवार को मनाया गया था। भैया दूज का पर्व गुरुवार को मनाया गया। इसको लेकर बहनों ने सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी थी। घरों में परंपरागत तरीके से फर्श पर पूजा लेखन के बाद विधिविधान से पूजा की गई। इसके बाद बहनों ने अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना ईश्वर से की वहीं भाइयों ने हमेशा की तरह ही रक्षा का वचन दोहराया। त्योहार के चलते मिठाई की दुकानों में सुबह से ही बहनों की भीड़ उमड़ने लगी थी और यह स्थिति देर शाम तक बनी रही। तमाम बहनों और भाइयों ने दूसरे शहरों से आकर त्योहार मनाया। त्योहार को लेकर खासा उत्साह लोगों में नजर आया। खास बात यह कि देर रात तक शहर की सड़कों पर खासी चहलपहल रही।



भैया दूज पर नन्हे भाई के मस्तक पर तिलक करती बहन।



तिलक के बाद बहन को दक्षिणा देता नन्हा भाई। अमृत विचार

छिबरामऊ में बहनों ने तिलक कर भाइयों के लिए मांगी लंबी उम्र

छिबरामऊ, कन्नौज। भैया दूज का पर्व शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। राम कथा वाचक आचार्य प्रशांतानंद चंदन ने बताया कि पौराणिक कथा के अनुसार यमुना जी ने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत रखा और अन्नकूट का भोजन कराया। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि इस दिन भाई-बहन यमुना स्नान करेंगे तो लंबी आयु के बाद मुक्ति मिलेगी। त्योहार पर परिवहन व्यवस्था फिसट्टी साबित हुई। रोडवेज ने अतिरिक्त बसें चलाने का दावा किया, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ से यह नाकाफी रहा। भटकती बहनों ने भाई के घर पहुंचने की होड़ में डगगामार वाहनों पर भरोसा किया, जहां मनमाना किराया वसूला गया।



छिबरामऊ में भाई का तिलक करती बहन।

भाई दूज मनाने कारागार पहुंचीं बहनें

खिलाई मिठाई

संवाददाता जलालाबाद, कन्नौज

अमृत विचार। भाईदूज का पावन पर्व कारागार में हर्षोल्लास से मनाया गया। गुरुवार को जिला कारागार अनौगी में पर्व मनाने के लिए 373 महिलाएं पहुंचीं। इनकी मुलाकात 200 पुरुष बंदियों से कराई गई। 05 भाई भी जेल में निरुद्ध बहनों से मिलने पहुंचे। कारागार में निरुद्ध 03 भाई व 02 बहनों की मुलाकात कराकर दूज कराई गई। कारागार में कैम्प लगाकर बैठने, जलपान, मिष्ठान की व्यवस्था की गयी। कारागार के अन्दर भी बंदी



कारागार में निरुद्ध भाइयों का दूज पर तिलक करती बहनें।

अमृत विचार

कल्याणकारी कैटिन के माध्यम से बाजार मूल्य पर जेल में निर्मित मिष्ठान की बिक्री की गयी। कारागार के बाहर स्वास्थ्य कैम्प लगाया

12 दिन बाद भी नहीं मिला काली नदी में कूदा किशोर

कार्यालय संवाददाता कन्नौज

अमृत विचार। काली नदी में कूदे किशोर का 12 दिन बाद सुराग नहीं लगा है। गहरे पानी में खोज कर रही एसडीआरएफ की टीमें व स्थानीय गोताखोर थक हारकर लौट गये हैं। 12 अक्टूबर को गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस को पता चला कि देवीपुर्वा निवासी आरोपी किशनपाल पुत्र कमलेश कुमार गांव आया है। इस पर पुलिस ने गांव पहुंच कर आरोपी के घर दविश दी और आरोपी के छोटे भाई से पूछताछ की। पुलिस छोटे भाई के साथ खेत पर पहुंची। पुलिस को देख आरोपी का भाई धर्मवीर डर गया और वह भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया

तो किशोर ने काली नदी में छलांग लगा दी। मामले में देर शाम एसपी लगा दी। मामले में देर शाम एसपी बिनोद कुमार ने कोतवाल समेत तीन पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया था। कपिल दुबे को गुरसहायगंज कोतवाली का प्रभारी निरीक्षक बना दिया था। उधर नदी में किशोर की तलाश के लिये पहले 08 व बाद में 10 टीमों को लगाया गया। लगातार खोज के बाद भी जब किशोर का पता नहीं चला तो सभी टीमें दीपावली से पहले लौट गईं। सूत्रों की मानें तो पुलिस अब किशोर की तलाश नये सिरे से करेगी।

गुरसहायगंज में भी भाइयों को तिलक कर बहनों ने मनाया भैयादूज का पर्व

गुरसहायगंज में भी भाइयों को तिलक कर बहनों ने मनाया भैयादूज का पर्व

संवाददाता गुरसहायगंज, कन्नौज

अमृत विचार। भाई दूज के पर्व पर बहनों ने भाइयों को तिलक कर उनकी दीर्घ आयु व कुशलता के लिए कामना की। तो वही भाइयों ने बहनों की रक्षा के लिए वचनबद्ध होते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर उपहार भेंट किए।

गुरुवार को भाई बहनों ने दूज पर्व को हर्षोल्लास से मनाया। बहनों ने भाइयों के लिए बाजार से मिष्ठान आदि खरीदें, तो वही भाइयों ने उपहार खरीदे। बहनों ने भाइयों के मस्तक पर तिलक कर उनके दीर्घ आयु की कामना की। भाइयों ने बहनों की रक्षा का वचन देते हुए उन्हें उपहार दिए। उधर बाजारों में भीड़ के कारण अफरातफरी का माहौल रहा। सड़कों तक सजी मिठाई व उपहार की दुकानों पर भीड़ के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। इससे यातायात घण्टों प्रभावित रहा। रोडवेज बसों के अभाव के कारण नगर व क्षेत्र में दौड़ रहे डगगामार वाहनों की चांदी लग गई। किराये के नाम पर मनमानी वसूली कर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। उधर रोडवेज बसों की कमी और वाहनों के अभाव का फायदा ट्रकों व भार वाहनों ने भी उठाया।



गुरसहायगंज में भाई के तिलक कर दीर्घायु की कामना करती बहन।

अमृत विचार



गुरसहायगंज में मिठाई की दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं।

अमृत विचार

ऑटो की ट्रक से टक्कर एक की मौत, पांच गंभीर

संवाददाता,छिबरामऊ, कन्नौज

● नवीगंज के पास हाईवे पर हुआ सड़क हादसा

अमृत विचार। नवीगंज के पास हाईवे पर एक हादसा हो गया, जिसमें बेवर से छिबरामऊ की ओर जा रहे एक ऑटो ने खड़े ट्रक से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला ज्योति की मौत हो गई और पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में दिलीप कुमार (24) पुत्र महेश चंद्र, ब्राहिमपुर गड्डिया, छिबरामऊ, अंकुर (30) पुत्र सरनाम निवासी भानपुर कुंवरपुर, लोधपुर, मोनू (19) पुत्र पप्पू पाल निवासी

मन्छना, मैनपुरी, सुशील (50), पुत्र सेवालाल निवासी बहौरिकपुर, फर्रुखाबाद, दिगंबर (30) पुत्र गंगा प्रसाद निवासी मोहन नगला। हादसे में ज्योति (20) पत्नी गगन निवासी गनी नगला, मैनपुरी की मौत हो गई। ज्योति का मायका मोहन नगला में है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए तिवां मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



प्रदर्शन करते दलित परिवार।

अमृत विचार

● विशुनगढ़ में खटीक समाज के लोगों ने मकानों पर लिखा 'बिकाऊ'

मारपीट की और झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें चुनावी सजिशा में फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह मामला क्षेत्र में तनाव का कारण बन गया है, और दलित परिवार न्याय व सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके और पलायन रुक सके।

ओर, प्रधान प्रतिनिधि ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खटीक समाज के लोगों ने उनके साथ

यह मकान बिकाऊ है

मकान के बाहर घरों में लिखा मकान बिकाऊ का बोर्ड।

ओर, प्रधान प्रतिनिधि ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खटीक समाज के लोगों ने उनके साथ

New

DASTAK
Classes

दस्तक, आपके सफलता की

The classes are known for preparing students for various exams like

SSC, BANK, UPSI, UPP

Address: Sharada Nagar Crossing No 9, Infront of Anurag Hospital, Kakadeo Kanpur Uttar Pradesh.

CONTACT: 7607780084, 7080270066

Vikash Pathak

कार्यालय संवाददाता, कन्नौज

अमृत विचार। श्रीबद्रीनाथ धाम से आ रही रामरथ गौरव यात्रा का जिले में आमगम होने पर स्वागत किया गया। नमामि गंगे सेवा समिति के संयोजन में महादेवीघाट पर दिव्य गंगा महाआरती हुई। बताया गया है कि गोकर्ण पर्वगाली जीवोत्तम मठ के गौरव पूर्ण 550 वर्ष पूर्ण होने पर रामरथ गौरव यात्रा 19 अक्टूबर से श्रीबद्रीनाथ धाम से शुरू हुई है। यह यात्रा श्रीनगर, हस्तिनापुर, दिल्ली होते हुए महादेवी घाट पहुंची, जहां रामरथ गौरव यात्रा का स्वागत किया गया। दीवान कर गुरुवार को नित्य कार्यों से निवृत्त व पूजा पाठ कर श्रीआयोध्या धाम के लिए



महादेवी गंगाघाट पर महाआरती करते भक्त।


अमृत विचार

प्रस्थान कर गई। यह यात्रा बनारस आदि प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में होते हुए 26 नवंबर को गोकर्ण जीवोत्तम मठ गोवा में समापन होगा। इस दौरान साथ चल रहे यात्रा प्रभारी

गिरिधर नायक, निवास कामथ, शरण आचार्य, आनंद भट्ट आदि पुजारियों ने आशीर्वाचन दिए और राम दरबार की आरती करवा कर प्रसाद वितरण किया। साथ ही राष्ट्र

मंगल की कामना की। इस अवसर पर भानु मिश्र, संजय मिश्र, सौरभ मिश्र, विवेक मिश्र, विकास मिश्र, संजय शुक्ल, त्रिषि कपूर, विक्रम त्रिपाठी, रत्न कश्यप, नमामि गंगे

सेवा समिति के संयोजक अनिल द्विवेदी, कोषाध्यक्ष विकास कुशवाहा एडवोकेट, सर्वेश दुबे, राम अवतार पुजारी, राकेश कटिया व पंडित कौशलजी महाराज मौजूद रहे।



श्रीबद्रीनाथ धाम से आया रामरथ।

अमृत विचार

न्यूज ब्रीफ

पुरानी रंजिश में ग्रामीण को पीटा

अमृतपुर। चुनावी रंजिश को लेकर गांव के ही लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचम नगला निवासी संदीप पुत्र सुरेश ने थाना पुलिस को तहरीर देकर अदमात कराया कि वह अपने साथी गड्डू के साथ ग्राम खुशहाली नगला निजी कार्य से जा रहा था। रास्ते में दिनेश, प्रदीप, सुभाष, करु निवासी पंचम नगला ने घात लगाकर लाठी डंडों व धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चौकी के निकट जानलेवा हमला

फर्रुखाबाद। जसमई पुलिस चौकी के निकट धारदार हथियार से हमला करके ई-रिक्षा चालक को घायल कर दिया गया। घटना के संबंध में कोतवाली मोहम्मदाबाद के ग्राम मदनापुर निवासी मोटी पुत्र रमाकांत ने हमलावरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है। मोटी का भाई भाई ऋषिओम 22 अक्टूबर को जसमई दरवाजे पर ई-रिक्षा की सवारी के इन्तजार में ढाई बजे खड़ा था। ग्राम टिकुरियन नगला निवासी कश्मीर ने गांव तक छोड़ने को कहा। ऋषिओम ने मना कर दिया तभी कश्मीर गन्दी गन्दी गालियां देता हुआ चला गया। कुछ देर बाद कश्मीर ने गांव के ही विक्रम, शिवम, राहुल के साथ आकर ऋषिओम को गाली गलौज करते हुए लाठी डन्डे तथा धारदार हथियार से मारने पीटने लगे। मार पीट से ऋषि ओम को चोट आई, जिसका मेडिकल थाने से कराया जा चुका है। मामले की जांच की जा रही है।

समारोह में मुदित और आशीष सम्मानित

छिबरामऊ, कन्नौज। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, बस प्रतिभाओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है। यह विचार संस्था प्रमुख गोवर्ध त्रिपाठी अमर ने बनवारी नगर स्थित एसबीवीएस सभागार में आयोजित प्रतिभा प्रोत्साहन समारोह के दौरान व्यक्त किए। इस मौके पर कन्नौज जनपद के मूल निवासी रॉक सिंगर मुदित त्रिवेदी को गायन क्षेत्र में तथा ग्राम जसुआमई निवासी आशीष चौहान को अभिनय क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संजीव चौहान, अखिलेश भदौरिया, सुशांत, संजीव दुबे, विकास, शैलेन्द्र गौर, सलीम, दीपक मिश्रा, मोहित चौहान, रफाकत, विकास वर्मा, शानु आदि मौजूद रहे।

लंबित मामलों के निस्तारण के निर्देश

फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में पुलिस लाइन सभागार में गुरुवार को आई.टी. एक्ट से संबंधित विवेचनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह ने विवेक अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।डॉ. सिंह ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण करने तथा विवेचना कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने पर जोर दिया।बैठक में जेएमआईएस पोर्टल पर अभियुक्तों की फ्रीडिंग की प्रक्रिया के संबंध में भी जानकारी दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय सिंह के साथ क्षेत्राधिकारी, विवेक और साइबर क्राइम प्रभारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

परेशानी

रोडवेज बसों के लिए महिलाओं ने किया घंटों इंतजार

संवाददाता फर्रुखाबाद

अमृत विचार। भाई दूज के अवसर पर गुरुवार को यात्रियों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। रोडवेज के तमाम दावों के बावजूद, सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ के कारण बसों का संकट गहरा गया।

रोडवेज बस स्टैंड पर सुबह से ही यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बसों की संख्या यात्रियों की अपेक्षा कम होने के कारण हरदोई, बरेली, बदायूं और इटावा की ओर जाने वाली बहनों को काफी देर तक बसों का इंतजार करना पड़ा। हरदोई और बरेली के लिए बसों की कमी स्पष्ट रूप से देखी गई। जैसे ही कोई बस स्टैंड पर आती, उसमें

शिक्षकों को मिला 3.50 करोड़ बोनस

बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए शासन ने दिवाली बोनस दिया

कार्यालय संवाददाता, कन्नौज

अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों के लिए शासन ने दिवाली बोनस दिया है। 6908 रुपए के हिसाब से जनपद में कुल 5073 अध्यापक को 03 करोड़ 50 लाख 44 हजार 284 रुपए बोनस प्रकाश पर्व से पहले भेजा गया। बोनस मिलने से शिक्षकों में खुशी है लेकिन परिषदीय स्कूल के कई शिक्षक का बकाया भुगतान न होने से उनमें खासी नाराजगी है।

वित्त एवं लेखाधिकारी शिवम गुप्ता का कहना है कि कन्नौज जनपद में ऐसा पहली बार हुआ जब दिवाली का बोनस त्योहार से पहले ही शिक्षकों के खाते में पहुंच गया। उन्होंने बताया कि कोषवाणी एप में जिले की प्रगति भी बेहतर रही और सूबे में बोनस भेजने के मामले में अपना कन्नौज अग्रणी बना। वित्त

● वित्त एवं लेखाधिकारी ने प्रकाश पर्व से पहले ट्रेजरी में लगाया बिल

लेकिन एरियर के लिए भटक रहे अध्यापक

■ प्रकाश पर्व मनाया जा चुका है लेकिन परिषदीय स्कूलों के कई शिक्षक-शिक्षिकाओं का बकाया भुगतान नहीं हुआ है। अध्यापकों का तर्क है कि दिवाली की वजह से खर्च अधिक हुआ लेकिन उनको बकाया एरियर नहीं दिया गया। इस मामले में जिम्मेदार लापरवाही बरत रहे हैं। वह कई बार बीआरसी, बीएसए व वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय गए और समस्या बताई लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ है। कई शिक्षकों का तो यहां तक कहना है कि वह चार-चार महीने से दौड़ रहे हैं लेकिन एरियर नहीं दिया जा रहा है।

एवं लेखाधिकारी का तर्क है कि बेसिक शिक्षकों को शासन की ओर से दीपावली गिफ्ट समय से मिल गया है। कार्यालय के कर्मचारियों ने रात-दिन काम कर समय से अध्यापकों को बोनस भेजा है जो दिवाली के काम भी आया। उन्होंने

www.amritvichar.com

पर भी खबरें पढ़ें


भूमि विवाद में फायरिंग व मारपीट ,चार पर रिपोर्ट

संवाददाता गुरसहायगंज, कन्नौज

अमृत विचार। भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इसमें एक पक्ष के द्वारा जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट की गई और हवाई फायरिंग कर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना में दो लोग घायल हो गए। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है।

ग्राम फतेहपुर जसोदा निवासी रत्नध्र सिंह पुत्र बलराम सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि वह 12 अक्टूबर की दोहवार लगभग 03 बजे अपने प्लाट पर बैठा था। उसके साथ सदर कोतवाली के ग्राम शरीफापुर निवासी विनीत दोहरे प्लाट खरीदने आये थे। भूमि के संबंध में दोनों लोग बातचीत कर रहे थे।

तभी तिवां कस्बे के गांधी नगर शुक्ला कॉलोनी मोहल्ला निवासी विवेक सिंह उर्फ रानू, तिवां के रानी आवंतीबाई नगर मोहल्ला निवासी शिवम गुप्ता, ग्राम अनौंगी भवानीपुर निवासी रूपेंद्र सिंह और ग्राम मूसरि निवासी उपेंद्र सिंह लाठी, डंडा, धारदार हथियार और अवैध असलाह लेकर आए और भूमि विवाद को लेकर उसके साथ गाली गलौज करने लगे। मना करने पर जानलेवा हमला करते हुए उसे घायल कर दिया। बीच बचाव में आए विनीत दोहरे के साथ जाति सूचक गाली गलौज की और उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए। कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



जिला कारागार में भाई से मुलाकात के लिए पवितबद्ध महिलाएं। अमृत विचार

- **जिला व केंद्रीय कारागार में भाई से मुलाकात के लिए पहुंची बहनें**
- **भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज पारंपरिक ढंग से मनाया**

अपनी बहन के बुलावे पर नहीं पहुंच पाए, जिससे यमुना को बहुत दुख हुआ। यह जानकर यमराज कार्तिक जन्म हुआ था। बहन यमुना ने अपने भाई दूज के दिन बहनें भाइयों को टीका करने से पहले भोजन ग्रहण की कोख से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था। बहन यमुना ने अपने भाई यमदेव को अपने घर आकर आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया था। किसी कारणवश यमराज

भैया दूज पर हरदोई व बरेली के लिए बसों की दिखी कमी

चालकों ने मनमाना किराया वसूला। त्योहार के दिन यात्रियों को निजी बसों में भी काफी मशक्कत के बाद ही यात्रा करने का मौका मिला। निगम के कर्मचारियों ने बताया कि डिपो के अलावा अन्य डिपो से सुबह से अब तक लगभग 200 बसें विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हो चुकी हैं। हालांकि, यात्रियों की भारी संख्या के कारण कई प्रमुख मार्गों पर बसों की कमी बनी रही। कर्मचारियों का कहना था कि जाम में बसें फंसी हुई हैं। बसों की कोई कमी नहीं है। रोडवेज बस स्टैंड पर सुरक्षा की दृष्टि से गुरुवार को पुलिस बल भी मौजूद रहा बड़ी संख्या में महिला

दिवे। रोडवेज द्वारा भाई दूज के लिए गए विशेष व्यवस्था के दावे धरातल पर खरे नहीं उतर पाए। इस स्थिति का फायदा डगमामार वाहनों ने उठाया। इन अवैध वाहनों में सवारियां लटकती नजर आई और दिखे। रोडवेज द्वारा भाई दूज के लिए गए विशेष व्यवस्था के दावे धरातल पर खरे नहीं उतर पाए। इस स्थिति का फायदा डगमामार वाहनों ने उठाया। इन अवैध वाहनों में सवारियां लटकती नजर आई और

पटाखे चलाने पर बच्चों से मारपीट

फर्रुखाबाद। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के नगला गुलाब गांव में पटाखे चलाने को लेकर बच्चों से मारपीट का मामला सामने आया है। इस संबंध में अनिल प्रताप नामक व्यक्ति ने गांव के ही कुलदीप, बंगाली, शिवके और संदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनिल प्रताप ने अपनी शिकायत में बताया कि 21 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे उनके बच्चे घर के बाहर पटाखे चला रहे थे। इसी दौरान आरोपी कुलदीप, बंगाली, शिवके और संदीप ने बच्चों के साथ गाली-गलौज की और उन्हें पीटा। जब अनिल प्रताप आरोपियों के घर उलाहना देने गए, तो उनके साथ भी मारपीट की गई। अपनी जान बचाकर अनिल घर में घुसे, तो आरोपियों ने घर के अंदर घुसकर फिर से मारपीट की। बीच-बचाव करने आए सौरभ, गौरव, विवेक, मीरा देवी और निशा को भी पीटा गया। मारपीट के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

अमृत विचार। दीपावली पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत ग्राम लक्ष्मीराम नगला स्थित अपने कैंप कार्यालय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे स्थानीय उभरते सितारों का सम्मान किया। इस मौकेल पर कई लोग मौजूद रहे। सम्मानित होने वालों में ग्राम असालत नगर निवासी सिम्मी दीक्षित, जो कई फिल्मों, ओटीटी सीरीज फिल्मों व टीवी सीरियल्स में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुकी हैं खास रहीं। इसके



नगर में फौंगिंग करती मोटरसाइकिल माउंटेड फौंगिंग मशीन। अमृत विचार

अब पालिका के द्वारा नगर की सकरी गलियों में मोटरसाइकिल माउंटेड फांगिंग मशीन से एंटी लावां का छिड़काव कराया जा रहा है। जिससे नगर की जनता को मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया बीमारियों से बचाया जा सकेगा। जबकि नालियों, जलभराव वाले स्थान एवं खुले स्थानों पर निरंतर छिड़काव कराया जा रहा है।

यहां पहुंचने का सिलसिला सुबह से शुरू होकर देर शाम तक जारी रहा। फतेहगढ़ जिला कारागार में भाईदूज के अवसर पर गुरुवार सुबह से ही बहनों की लंबी कतारें देखी गईं। ये बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को तिलक करने और उनकी लंबी उम्र की कामना करने पहुंची थीं। भाईदूज के इस पर्व पर बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनके सुख-समृद्धि और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। जिला प्रशासन ने बुजुर्ग बहनों की सुविधा के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया था, ताकि उन्हें आने-जाने में कोई परेशानी न हो। कारागार प्रशासन ने बहनों को केवल मिठाई लाने की अनुमति दी थी। किसी भी अन्य वस्तु को जेल के अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। महिला पुलिसकर्मी सभी बहनों की गहन जांच के बाद ही उन्हें कारागार में प्रवेश दे रही थीं।

रास्ते के कॅम्पल थाना क्षेत्र के गांव दूंदेमई के पास सामने से आ रहीं तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी टक्कर लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौका पाकर दूसरा बाइक वाला अपनी बाइक छोड़ कर भाग गया। महिला के पुत्र अरविन्द ने मार्ग दुर्घटना की सूचना घर पर दी। सूचना मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और गंभीर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कायमगंज लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी

एक किलोमीटर लम्बा जाम खुलवाने में पुलिस ने की कड़ी मशक्कत

संवाददाता फर्रुखाबाद

अमृत विचार। भाई दूज के अवसर पर जसमई तिराहा से कायमगंज मार्ग पर लगभग एक किमी लंबा जाम लग गया। राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार को भाई दूज का पर्व होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने भाई-बहनों से मिलने के लिए घरों से निकले। जिससे सड़कों पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ गई। जिसके परिणामस्वरूप शहर के विभिन्न मार्गों पर जाम की स्थिति बन गई। लोग जाम में घंटों फंसे रहे। जसमई तिराहा पर करीब 45 मिनट तक जाम लगा रहा। जिससे



बॉलीवुड स्टारों को सम्मानित करती जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया ओंकार शाक्य।

उभरते सितारों को प्रिया शाक्य ने किया सम्मानित

संवाददाता छिबरामऊ, कन्नौज

अमृत विचार। दीपावली पर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत ग्राम लक्ष्मीराम नगला स्थित अपने कैंप कार्यालय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बना रहे स्थानीय उभरते सितारों का सम्मान किया। इस मौकेल पर कई लोग मौजूद रहे। सम्मानित होने वालों में ग्राम असालत नगर निवासी सिम्मी दीक्षित, जो कई फिल्मों, ओटीटी सीरीज फिल्मों व टीवी सीरियल्स में अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा चुकी हैं खास रहीं। इसके

अलावा ग्राम जासमई के आशीष सिंह चौहान उर्फ बउआ और मुख्यमंत्री कार्यालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर तैनात शिखा दीक्षित को भी सम्मानित किया। आशीष ने शाहरुख खान के साथ आई फिल्म ‘जिरो’ सहित अन्य प्रोजेक्ट्स में अपनी छाप छोड़ी है। सम्मान समारोह के दौरान प्रिया ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 की सराहना की।

इस अवसर पर रीता दीक्षित, उषा उपाध्याय, सुनीता, अस्मिता सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

खेत के विवाद में मारपीट पांच लोगों पर मुकदमा दर्ज

संवाददाता फर्रुखाबाद

अमृत विचार। मोहम्मदाबाद के धीरपुर गांव में खेत के कब्जे को लेकर हुए विवाद में पांच लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान मारपीट और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। धीरपुर निवासी उदयवीर सिंह

की पत्नी राधा देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति ने गांव के एक व्यक्ति से खेत का बैनामा कराया था। इसी खेत पर गांव के अनिल यादव, महेश यादव, धर्मवीर यादव, जयवीर यादव और बादाम यादव जबरन कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। राधा देवी के अनुसार, 10 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे उनके पति



जशोदा की फाइल फोटो।

कार और ई-रिक्षा की भिड़ंत में युवक घायल ■ अमृतपुर। भैयादूज के पर्व पर गुरुवार को अमृतपुर कस्बे में मुख्य मार्ग पर बंधन बैंक के पास एक कार और ई-रिक्षा की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ई-रिक्षा सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र के दोषपुर नागर निवासी विनीत पुत्र श्याम सिंह के रूप में की गई। हादसे की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मनु शाक्या ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से राजेपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया।

मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक महिला के 4 बेटे व 2 पुत्रियां हैं जिसमें से एक पुत्र व एक पुत्री की शादी पहले

छेड़खानी के विरोध पर युवती के परिजनों को पीटा

फर्रुखाबाद। छेड़खानी करने वाले दबंगों ने विरोध किए जाने पर हमला करके युवती के परिजनों को घायल कर दिया। थाना कादरी गेट के ग्राम नारायनपुर बगीचा एचपी गैस गोदाम के निकट रहने वाले शानु प्रताप की पुत्री नीतू ने हमलावरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

घटना के मुताबिक नीतू के साथ पड़ोसी रोहित पुत्र विपिन आये दिन छेड़छाड़ करता है।21 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे हम लोगों ने विरोध किया, तो रोहित, विरजू दिलीप संजीव पुत्राण विपिन व विकास पुत्र संजीव ने मेरे पापा भानुप्रताप, मां गीता देवी, भाई रत्नध्र चाचा अशोक ने गाली गलौज किया। विरोध करने पर डंडा व टकोरा से हमला किया।

न्यूज़ ब्रीफ

पिता-पुत्र ने युवक को जमकर पीटा

बकेवर । थाना क्षेत्र के ग्राम निवाड़ी कला में दर्जी की दुकान से कपड़ा डाल कर लौट रहे साइकिल सवार को पिता पुत्रों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी डंडो से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त गांव निवासी भुवनेश कुमार ने थाने में दिये प्रार्थना पत्र में बताया है कि वह गुरुवार को निवाड़ी कला स्थित चौराहे पर साइकिल से दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलने के लिए डालने गया हुआ था, जब वह वापस साइकिल से घर लौट रहा था कि तभी गांव के ही नामजद पिता पुत्रों ने देखकर रोक लिया और गाली-गलौज करने लगे जब साइकिल सवार युवक ने गाली-गलौज करने से मना किया तो पिता पुत्रों ने उसे लाठी डंडो से मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए 50 शैया अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष बकेवर विपिन मलिक ने बताया प्रार्थना पत्र पर कार्यवाई की जा रही है। जांच पड़ताल करने के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाई की जायेगी।

कुलपति ने किया

वाई का निरीक्षण

सैफई । उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई के कुलपति प्रोफेसर अजय सिंह ने इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हाल-चाल जाना और दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने इयूटी पर तैनात डॉक्टरों, रेजिडेंट्स व मेडिकल ऑफिसर्स से संवाद किया तथा उपचार की गुणावता और सेवा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने हेतु अपने सुझाव दिए। कुलपति ने प्राइवेट वार्ड में भर्ती मरीज से भी मुलाकात कर स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। कुलपति ने ट्रॉमा बिल्डिंग के प्रथम तल का निरीक्षण करते हुए इमरजेंसी सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की साथ ही स्टाफ को निर्देशित किया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थान प्रबंधन और सेवा विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाए ट्रॉमा सेंटर सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के पीड़ितों को चौबीसों घंटे आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा सड़क सुरक्षा एवं शीघ्र चिकित्सकीय सहायता के महत्व पर जनजागरूकता कार्यक्रम भी निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं को

किया जागरूक

इटावा। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विश्व मानक दिवस पर थियोसोफिकल इंटर कॉलेज इटावा में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय मानक ब्यूरो के रिसोर्स पर्सन एमके सिंह ने कहा कि सोनी यादव के खेत में कच्चे केवल हॉलमार्क युक्त आभूषण ही ले और उनके साथ मानक हॉलमार्क रसीद अवश्य प्राप्त करें। एमके सिंह ने कहा कि बाजार में 22 कैंटरेट के नाम पर 20 या 18 कैंटरेट का सोना बेचा जा रहा है वहीं 16, 14 कैंटरेट (66 प्रतिशत, 58 प्रतिशत) शुद्धता के आभूषण भी कड़ी मात्रा में बेच रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता को धोखाधड़ी से बचने के लिए हॉलमार्क और बिल लेना आवश्यक है। भारतीय मानक ब्यूरो की सोनी यादव व बताया कि जिस तरह हॉल मार्क होता है इस तरह इक्वेट्रीनिक की चीजों पर आर. मार्क होता है यदि महिला कुकर या इलेक्ट्रॉनिक की कड़ी मात्रा में चीज खरीद रही है तो उसमें आर. मार्क है या नहीं यह देखना बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि इन सभी माफ़ी की जांच आप बीआईएस केंटर एप पर कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह सारे मार्क आपकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं।

बकेवर व लखना में

बंदरों का आतंक

बकेवर । बकेवर व लखना में इस समय बंदरों का जबरदस्त आतंक है। पिछले दो तीन दिनों में बंदर आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाकर काट चुके हैं। लोगों ने सामाजिक वानिकी लखना से इन बन्दरों को पकड़वाने की मांग की है। लखना, बकेवर नगर में इस समय बन्दर लोगों को बेखौफ होकर काटते देखे जा रहे हैं। नगर के पटेल नगर निवासी विनीत तिवारी को अपना निशाना बनाया। वहीं मुहाल हाफिजनगर में शरीक खां व शारजी नगर मुहाल में अल्ताफ खां को अपना निशाना बनाकर काट चुके हैं। इसके अलावा कस्बा लखना में मातन मुहाल में अनिल कुमार व मवेशी मुहाल में सुरजीत सिंह व ठाकुरान मुहाल में हेमिष मांजी के बांकर काट चुके हैं। लोगों में इस समय बंदरों के कारण दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने सामाजिक वानिकी लखना से कार्यवाही की मांग की है। वहीं बंदरों की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कती का सामना करना पड़ रहा है।

बहनों ने भाइयों को तिलक कर मांगी उनकी दीर्घायु

माई बहन के अटूट प्रेम व स्नेह का पर्व मैया दूज धूमधाम के साथ मनाया गया, प्राइवेट बस, ई-रिक्शा ऑटो वालों की रही चांदी



जेल में भाइयों से मिलने के लिये लाइन में लगी महिलाएं ।



भाई शिवपाल सिंह का तिलक करती बहन कमला देवी ।



अपने भाई को तिलक करती बहन ।

कार्यालय संवाददाता इटावा

अमृत विचार । भाई दूज का पर्व उत्साह व परम्परागत तरीके से मनाया गया। भाई अपनी बहनों से और बहनें अपने भाइयों से मिलने उनके घर पहुंचीं और बहनों ने भाइयों का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। भाई दूज पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर यात्रियों की जहां भारी भीड़ रही वहीं हजारों लोगों ने ऑटो से सफर तय किया। रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों का आना जाना सुबह से

ही शुरू हो गया था। भाई दूज पर रोडवेज बस स्टैंड पर बसे यात्रियों से खचाखच भरकर अपने गंतत्व को रवाना हुईं। यात्रियों की भीड़ के चलते अधिकांश बसे बस स्टैंड के बाहर सड़क से रोडवेज तिराहे तक खड़ी होने से वहां जाम की स्थिति बन गई, कोतवाली पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुला। रोडवेज बसों के अलावा लोगों ने प्राइवेट बसों, ऑटो से भी सफर किया। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। मध्यम वर्ग

के लोगों ने पसेंजर ट्रेनों से यात्रा की जिससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई।

शिवपाल सिंह ने अपनी बहन से तिलक कराकर लिया आशीर्वाद: भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के पर्व भाई दूज के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में अपनी बहन कमला देवी से तिलक करवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

भाई दूज के दिन शिवपाल सिंह यादव शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी

बेटी के घर रह रहे मजदूर का

शव पेड़ से लटका मिला

संवाददाता महेवा इटावा

अमृत विचार । थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत महेवा कस्बा में एक मंदिर के पास खड़े पीपल के पेड़ पर एक मजदूर का शव फंदे पर लटका मिला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अपनी बेटी के घर रहकर मजूदरी करता था। औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र के गांव फकीरे का पुर्वा निवासी ओमकार अपनी बेटी उपासना पत्नी रवि दोहरे के यहां महेवा में रह रहा था, दामाद रवि ने बताया कि सप्तर बुधवार की शाम को खाना खा कर आराम से निकले थे घर न आने पर रात में खोजबीन भी की पर पता नहीं लगा। गुरुवार की सुबह करीब 9 बजे लोगों ने बताया कि राम जानकी मंदिर के खेत में स्थित सैयद चबूतरे पर खड़े पीपल के पेड़ पर अपनी शर्ट से फांसी का

फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर चौकी प्रभारी महेवा के.पी. सिंह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

ओमकार के पांच बेटे हैं जिनमें सबसे बड़ा दलवीर ,इन्दवीर ,अनुरुद्ध ,प्रदीप एवं आकाश तथा बेटी उपासना की महेवा में ही समुराल है।वहीं मृतक की पत्नी की करीब 06 वर्ष पूर्व बीमारी के चलते मौत हो गई थी। बच्चे बाहर रहकर प्राइवेट नौकरी करते हैं वह करीब पांच वर्ष से छोटे दोनों बेटे एवं खुद बेटी के यहां आकर किएए के मकान में रह रहा था और मेहनत मजदूरी करता था ।

सरदार पटेल की जयंती पर तीन

दिन तक निकलेंगी पद यात्राएं

संवाददाता संवाददाता इटावा

अमृत विचार । सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती से मेरा युवा भारत की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें जिला स्तर पर पदयात्रा निकाली जाएगी तथा तमाम इवेंट का आयोजन भी किया जाएगा। प्रतियोगिताएं भी होंगी। यह पदयात्राएं 3 दिन तक निकाली जाएंगी। यहां पदयात्राएं 8 से 10 किलोमीटर तक लंबी होंगी।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला युवा अधिकारी सोनिका चंद्रा ने बताया कि प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के सभी जिलों में तीन दिन तक 8

●विकसित भारत पदयात्रा

निकाली जायेगी ,अन्य कई इवेंट भी कराए जाएंगे

से 10 किलोमीटर लंबी पद यात्रा आयोजित की जाएगी। पदयात्रा से पहले इसका माहौल बनाने के लिए स्कूल, कॉलेज में अलग-अलग इवेंट कराए जाएंगे। इनमें प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिनमें निबंध प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता शामिल है। इसके साथ ही सरदार पटेल के जीवन पर संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक भी कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इस बीच नशा मुक्त भारत की शपथ दिलाई

जाएगी और संस्थानों में स्वदेशी मेलों का आयोजन गर्व से स्वदेशी संकल्प के साथ कराया जाएगा। जिला युवा अधिकारी ने बताया कि इस दौरान योग और हेल्थ कैंप भी लगाए जाएंगे और स्वच्छता अभियान चलेगा।

सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और विजेताओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए पोर्टल पर पंजीकरण लगाता किए जा रहे हैं। इस अभियान में शुरूआत 6 अक्टूबर से ही कर दी गई है। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत का आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

पुलिस ने गुमशुदा

बच्ची को किया बरामद

इटावा। एसएसपी के निर्देशन में मिशन शक्ति फेज-5.0 एवं ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना भरेह पुलिस ने नाबालिका बच्ची को सकुशल बरामद किया।

यूपी 112 के माध्यम से थानाध्यक्ष जगदीश भाटी को सूचना प्राप्त हुई कि खुशबू 3 वर्ष निवासी ग्राम गढाकास्दा भरेह जंगल में गुम हो गई है। थाना भरेह पुलिस टीम द्वारा तत्काल सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीम की सतर्कता एवं तत्परता से गुमशुदा बालिका खुशबू को उसके पैतृक गांव से लगभग 4 किलोमीटर दूर जंगल में सकुशल बरामद किया गया और उसके पिता मनोज कुमार के सुपुर्द किया गया।बालिका की सकुशल बरामदगी पर परिजनों द्वारा पुलिस की प्रशंसा की गई।

भाइयों का तिलक करने के लिए जेल पहुंचीं बहनें

■ इटावा । भाई दूज पर सैकड़ों बहनें भाई को तिलक करने बड़ी संख्या में जेल पहुंचीं। जेल में बंद भाइयों का तिलक करने के लिए सुबह से ही बहनों की जेल परिसर में भारी भीड़ लगना शुरू हो गई। जेल प्रशासन ने मुलाकात करने वाली महिलाओं के लिए ठंडे पानी और मिठाई का इंतजाम किया। जेल में भाइयों से मुलाकात करने के लिए सुबह से ही बहनों का जेल में आगमन शुरू हो गया। महिलाओं ने मुलाकात की प्रक्रिया के तहत पहले अपनी पर्वी कटाई फिर जेल गेट पर लंबी लाइनों में लगकर अपने भाइयों से मुलाकात कर उनका तिलक किया। भाइयों ने तिलक करवाकर अपनी बहनों से आशीर्वाद लिया। भाई दूज पर जेल प्रशासन की ओर से भाइयों से मुलाकात करने के लिए आने वाली महिलाओं को कैम्य में बैठाकर पहले मिठाई वितरित की फिर उन्हें ठंडा पानी पिलाया। इसके बाद महिलाओं ने लाइन में लगकर जेल के अंदर जाकर अपने भाइयों से मुलाकात कर उनका तिलक किया। महिलाओं ने मुलाकात के लिए जेल प्रशासन द्वारा की गई बेहतरीन व्यवस्था की जमकर सराहना की। जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि भैया दूज पर 342 बहनों व उनके साथ आए 114 बच्चों द्वारा 203 बर्दियों से मुलाकात की। इसके अलावा जिले के बकेवर भरथना महेवा जसवंतनगर तारखा में भाई दूज का ल्यूहार धूमधाम व श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। सुबह से ही बहनों ने भाइयों के घर जाकर तिलक करने व मिठाई खिलाने का कार्य शुरू कर दिया था वहीं भाई दूज के चलते सड़को पर हर प्रकार के वाहनों की भारी भीड़ रही ।

स्थित अपनी इकलौती बहन कमला देवी के घर पहुंचे। वहां बहन ने उनका तिलक गला कर और लड्डू खिलाकर लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना की। शिवपाल सिंह यादव ने भी इस अवसर पर कहा कि भाई दूज

का पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और मजबूत करता है। उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को भाई दूज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला है। लोगों का मिलजुल कर मनाया चाहिये।

धरवार गांव में फिर खंडित हुई आंबेडकर प्रतिमा



घटनास्थल पर मौजूद एसपी सिटी अभयनाथ त्रिपाठी व पुलिस के अन्य अधिकारी ।

●पुलिस ने दो लोगों को

गिरफ्तार कर भेजा जेल, लोगों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त

भाटी व दिवाकर सरोज पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। इस दौरान बसपा जिला अध्यक्ष सुनील जाटव प्रधान मनीष जाटव, रिकू जाटव व बाबा साहेब आंबेडकर समिति के अध्यक्ष अश्वनी प्रताप के साथ अनेक अनुयायी भी मौके

●एसपी सिटी अभय नाथ त्रिपाठी,

एसडीएम कुमार सत्यम जीत, सीओ आयुषी सिंह ने किया निरीक्षण

पर पहुंच गए और विरोध कर मूर्ति तोड़ने वालों की शीघ्र पहचान कर कठोर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। उनका कहना था कि कठोर कार्रवाई कमी जाये ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, नई मूर्ति स्थापित करने और पार्क

खेतों से लौट रहे वृद्ध किसान

को ट्रक ने रौंदा, मौके पर मौत

संवाददाता जसवंतनगर इटावा

अमृत विचार । थाना क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार सुबह इटावा से आगरा जाने वाली सड़क पर मधुवन होटल के सामने कुरसेना गांव के 75 वर्षीय किसान कोमल सिंह को पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने रौंदा डाला जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

कोमल सिंह हाईवे स्थित अपने खेतों पर घूम कर अपने घर वापस पैदल सर्विस रोड पर जा रहे थे तभी यह घटना हुई। सूचना पर पहुंचे सिटी इंचार्ज मनीष कुमार ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने घटना कारित

करने वाले ट्रक को मीठेपुर टोल प्लाजा से चालक सहित पकड़ लिया।

सड़क दुर्घटनाओं में दो लोग घायल : जनपद के अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में दो लोग से घायल हो गए, घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत नगला बनी से भाई दूज पर भाई के तिलक करके वापस पति के साथ बाइक से घर जा रही महिला बाइक से गिरकर हर्राजपुर के पास गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए 50 शैया अस्पताल बकेवर भिजवाया ।

ऊसराराह थाना क्षेत्र गांव

करंट की चपेट में आने से दो लोगों

की गई जान

इटावा। थाना बसरेहर एवं थाना भरथना क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर दो लोगों की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई।

बसरेहर क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चंपानेर निवासी सुखदेव सिंह 53 अपने खेतों पर फसल को देखने के लिए गया था तभी पास में खड़े बिजली के पोल की तार में करंट आ जाने से किसान सुखदेव सिंह का हाथ बिजली के पोल सहारे लगे तार में छू गया जिससे वह शुलस गया। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर घायल सुखदेव को बसरेहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया। वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। थाना भरथना क्षेत्र के अंतर्गत गांव कुशना निवासी राजपाल 40 वर्ष पुत्र ज्ञान सिंह विद्युत पोल में आ रहे करंट की चपेट में आ जाने से घायल हो गया। जिसे परिजनों द्वारा सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया। उपनिरीक्षक बृजनंदन सिंह ने बताया कि राजपाल को परिजनों द्वारा सैफई पीजीआई में भर्ती कराया गया था। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की पुरजोर मांग करने लगे। बताया गया कि इसी स्थान पर स्थापित यह प्रतिमा 13 अप्रैल वर्ष 2024 में भी अराजकतव्यों द्वारा खंडित की जा चुकी है। वर्तमान में पार्क में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया था, लेकिन कुछ दिन पहले वह कैमरा भी गायब हो गया। लोगों ने मांग की है कि कैमरा चोरी के साथ-साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे।

हालांकि प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने सभी की समझा बुझाकर मामला शांत कराया व धरवार प्रधान को नई प्रतिमा लगवाने के लिए कहा गया है। राहुल पुत्र लाखन सिंह की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस द्वारा दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

इटऊआहार निवासी धीरज कुमार ने बताया दीपावली के त्योहार पर भाई दूज पर भाई के तिलक करने के लिये बकेवर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला बनी पत्नी रोशनी और बच्चो को लेकर आये थे जब वापस बाइक से घर जा रहे थे। वापस जाते समय बकेवर भरथना मार्ग स्थित ग्राम हर्राजपुर के पास पहुंचे तभी पत्नी बाइक से अचानक सड़क पर गिर गयी और गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं थाना इकदिल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पर्वतपुर के पास बाइक में ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी जिससे बाइक सवार छोटे लाल निवासी पर्वतपुरा घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

अंडों से भरा लोडर कार

से टकराकर पलटा

जिससे लोडर पलट गया और लोडर में लदे अंडे फूट गये। इससे उसे भारी नुकसान हो गया। इस घटना की जानकारी पर बिजौली चौकी इंचार्ज विनय द्विवेदी व उपनिरीक्षक दयाशंकर मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोडर को सही कराकर किनारे लगवाया और यातायात को राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहाल कराया। इस घटना से बिजौली हाईवे पर जाम की जाम की स्थित बन गयी थी। लेकिन थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आनन फानन में यातायात बहाल कराया। यातायात बहाल होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। आज भाई दूज होने के कारण सड़क पर भीड़ भाड़ भी कुछ ज्यादा ही थी।

www.amritvichar.com
पर भी खबरें पढ़ें



दंगल में पप्पू, यशवीर सिंह ने मारी बाजी

अछल्दा (औरैया)। विकास खंड क्षेत्र के मुहम्मदाबाद गांव स्थित प्राचीन पाड़री बाबा मंदिर पर दिवाली के चौथे दिन पारंपरिक मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आसपास के गांवों से भारी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण जुटे। मेले में झूले, दुकानों और भंडारे के साथ-साथ पारंपरिक दंगल का आयोजन मुख्य आकर्षण रहा। दंगल में कई पहलवानों ने अपनी ताकत आजमाई। वकनगर के पहलवान पप्पू यादव ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी कुश्ती में 501 रुपए की बाजी पर विक्रमपुर गांव के यशवीर सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़कर जीत दर्ज की। दंगल देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग मैदान में उमड़ें और पहलवानों का उत्साहवर्धन करते रहे। मेले में शांति व्यवस्था के लिए स्थानीय पुलिस व ग्राम प्रहरी मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन बाबा के जयकारों और भंडारे के साथ हुआ।

दीपों की रोशनी से जगमगा उठा तालाब फफूंद, औरैया। भाई दूज के दिन गुरुवार को फफूंद कस्बे का पक्का तालाब दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ दीपदान किया। मोमबत्तियों और रंग-बिरंगी बिजली की झालरों से तालाब और प्राचीन शिव मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। दीपों की झिलमिलाहट से तालाब का नजारा मनमोहक हो उठा। जल में प्रतिबिंबित दीपों की रोशनी से पूरा तालाब स्वर्णिम आभा से दमक उठा। लोगों ने इस अवसर पर एक-दूसरे को त्योहार की बधाई दी।

घर में लगी आग से हजारों का नुकसान फरुखाबाद। अमृतपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर गांव में एक घर में सदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे गांव में हड़कौम मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पंपसेट लगाकर आग पर काबू पाया। इस घटना में हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही अमृतपुर थानाध्यक्ष मौजू शायब मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार, सुनीता पत्नी रमणीय सुरेश को राहत सामग्री वितरित की।

युवक से मारपीट, पुत्री और पत्नी को भी पीटा

संवाददाता, फफूंद, औरैया

अमृत विचार। थाना फफूंद के गांव खानपुर में बुधवार देर शाम कहासुनी को लेकर एक युवक पर दबंगों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। बीच-बचाव में आई युवक की पत्नी और दो पुत्रियों को भी पीटकर घायल कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर परिजन आगरा ले गए।

बुधवार की दोपहर को गांव खानपुर फफूंद निवासी सलीम का उसी गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। शाम को वह गांव के बाहर चौराहा पर सामान लेने गया था। तभी खानपुर फफूंद के निवासी रिंकू उर्फ चेताराम, जितेंद्र, चिंटू दिवाकर और अजीत एवं बिलाईई निवासी विजय राजपूत अपने दो-तीन अज्ञात साथियों के

अमृत विचार

संदिग्ध हालात में युवक की मौत, हत्या की आशंका

युवक का शव गुरुवार सुबह रामाधीन राजपूत के ट्यूबवेल के पास पानी के गड्ढे में पड़ा मिला

संवाददाता, बिधूना, औरैया

अमृत विचार। सहार थाना क्षेत्र के ग्राम भण्डारिया में 34 वर्षीय रामवीर पुत्र राम सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। रामवीर का शव गुरुवार सुबह करीब 7:40 बजे रामाधीन राजपूत के ट्यूबवेल के पास पानी के गड्ढे में पड़ा मिला। दीपावली मनाने सोनीपत, हरियाणा से घर आए युवक की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा किया। थाना पुलिस ने स्वजनों को समझा बुझाकर शांत किया और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

भण्डारिया निवासी रामवीर जो

सोनीपत में प्राइवेट नौकरी करता

अछल्दा फाटक पर 5 घंटे जाम

संवाददाता, अछल्दा (औरैया)

अमृत विचार। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग की व्यस्ततम क्रॉसिंग 13-एस पर भैया दूज के मौके पर गुरुवार सुबह से ही लंबा जाम लग गया। बहने भाई का तिलक करने के लिए परिजनों संग बाइक व अन्य वाहनों से निकलीं लेकिन फाटक पर बाइक सवारों और त्योहार मनाने आए आमजन की भीड़ के कारण फाटक पर पांच घंटे तक जाम रहा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि फाटक पर जाम की स्थिति इतनी गंभीर थी कि कोई पुलिस अधिकारी या आरपीएफ के लोग मौजूद नहीं थे। आउटर पर ट्रेन खड़ी होने के बाद स्टेशन मास्टर आस्तिक कुमार ने खुद मोर्चा संभालते हुए फाटक को 12:20 बजे बंद किया। ट्रेन 12:24 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हुई।

● आठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज

साथ वहां पहुंचा और लाठी-डंडों से हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। सिर में गंभीर चोटें लगने से सलीम बेहोश होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर बचाने पहुंचीं सलीम की पत्नी और दो बेटियों को भी हमलावरों ने बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया। ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने पर हमलावर फरार हो गए। घायल सलीम को आनन-फानन में दिबियापुर सीएचसी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे सौ शैय्या भेजा। हालत गंभीर देख परिजन उसे आगरा ले गए। घायल युवक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और दो-तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है।



रोते बिलखते परिजन।

था, दीपावली के लिए घर आया हुआ था। मृतक के पिता राम सिंह ने बताया कि रामवीर बीती रात करीब 10 बजे घर से निकला था। रात में उसने फोन पर रास्ता भटकने की बात भी बताई। इसके बाद, करीब 12:30 बजे उतमापुर निवासी दो लोग उसे घर छोड़ गए। राम सिंह के अनुसार, रामवीर नशे की हालत में था। रात लगभग 3 बजे वह फिर से

सोनीपत जाने की बात कहकर घर से निकला था। सुबह उसका फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद यह दुखद जानकारी मिली।

सुबह ग्रामीणों ने ट्यूबवेल के पास पानी के गड्ढे में एक शव देखा, जिसकी पहचान रामवीर के रूप में हुई। मौके पर परिजनों के पहुंचने पर कोहराम मच गया। ट्यूबवेल की छत पर रामवीर का बैग मिला,



भाईदूज के अवसर पर लगा जाम।

● पुलिस ने जाम खुलवाने में कड़ी मशवकत की

इस दौरान नई दिल्ली-हसनपुर अप लाइन और डाउन लाइन पर वंदे भारत, कामाख्या-आनंद बिहार, साबरमती-पटना और दरभंगा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी प्रभावित रहीं।

बाद में फाटक को 12:30 बजे

ट्रेन से कटकर युवक की मौत

फफूंद, औरैया। क्षेत्र के दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बुधवार को एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।

पाता गांव निवासी अभिषेक कुमार (22) पुत्र विष्णु कुमार बुधवार को किसी काम से घर से निकला था। इसी दौरान कानपुर-इटवा रेलवे ट्रैक के पाता रेलवे स्टेशन और कान्हो फाटक के बीच पोल संख्या 1107/03 अप लाइन पर से गुजर रही नीलांचल एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर चौकी पाता पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने घर में अकेला ही रहता था। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

झोपड़ी में आग लगा कर 10 लोगों को पीटा

संवाददाता अछल्दा (औरैया)

अमृत विचार। अछल्दा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखीपूर मौजा चिमकुनी में गुरुवार की शाम भूमि विवाद को लेकर बड़ा बवाल हो गया। गांव निवासी छोटेलाल पुत्र रघुनाथ सिंह के नाम वर्ष 2019 में ग्राम प्रधान द्वारा आवासीय प्लाट आवंटित किया गया था। छोटेलाल बीते 20 वर्षों से उसी स्थान पर झोपड़ी बनाकर जानवर बांधते और निवास करते थे।

गांव के ही रामनरेश पुत्र रामसेवक ने इस जमीन को लेकर लगभग पांच माह पूर्व जिलाधिकारी के समक्ष मुकदमा दायर किया था। सुनवाई के बाद 24 सितंबर को जिलाधिकारी ने छोटेलाल के पक्ष में निर्णय देते हुए प्लाट पर निर्माण की अनुमति दी थी। इसी बात से नाराज विपक्षियों ने गुरुवार शाम लगभग 4 बजे प्लाट पर रखी

जिसमें कपड़े, मोबाइल और चार्जर रखे हुए थे। सूचना पर सहार थाना प्रभारी रमेश सिंह मौके पर पहुंचे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए शव उठाने से मना कर दिया और हंगामा किया। इसके बाद, सहार थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ-साथ थाना बेला प्रभारी गंगा दास गौतम, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बिधूना मुकेश बाबू चौहान, थाना दिवियापुर रुद्र प्रताप नारायण त्रिपाठी, महिला थाना प्रभारी पूजा राठीर और क्षेत्राधिकारी बिधूना पट्टुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया।

थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रामवीर की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अपने माता-पिता के तीन बेटों और तीन बेटियों में सबसे छोटा था।

मनोहारी झांकियों संग निकली कलश यात्रा

कार्यालय संवाददाता, औरैया

अमृत विचार। श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह के परीक्षित दामिनी गुप्ता एवं समाजसेवी कपिल गुप्ता निवासी द्वारा श्री गोपाल वाटिका महावीर गंज में श्री वृंदावन धाम के भागवताचार्य राम गोपाल शास्त्री के कुशल निर्देशन में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को बैंड बाजों के साथ श्रद्धालुओं द्वारा

उत्साह पूर्वक नृत्य करते हुए कलश यात्रा नगर भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कलश यात्रा फूलमती मंदिर से प्रारंभ होकर सुभाष चौक, संजय गेट, संकट मोचन मार्ग, लेडीज मार्केट, सदर बाजार, तहसील होते हुए महावीर गंज गोपाल वाटिका पहुंची, शहर के विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा, माल्यार्पण

रामलीला में पहले दिन ताड़का वध का हुआ मंचन

फफूंद, औरैया। बुधवार को महतेपुर ग्राम में चल रही दो दिवसीय रामलीला महोत्सव में पहले दिन कलाकारों ने ताड़का वध की लीला का मंचन किया। पहले मुख्य अतिथि शहादत अली ने फीता काट कर रामलीला का उद्घाटन किया। इसके बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद रामलीला शुरू हुई जिसमें मंचन के माध्यम से बताया कि ताड़का, राजा सुकेतु की पुत्री थी। अगस्त्य ऋषि के श्राप के कारण राक्षसी बन गई थी। वह अपने पुत्रों के साथ ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालकर भंग कर देती थी। मनुष्यों पर अत्याचार करती थी। गुरु विश्वामित्र ने श्रीराम को ताड़का के बारे में बताया जिसके बाद श्रीराम ने ताड़का का अपने धनुष से वध कर दिया। मंचन के दौरान दीपू त्रिवेदी, राजे त्रिवेदी, अशोक पाण्डेय, अनिल पाण्डेय, अखिलेश पाण्डेय, विशाल पाण्डेय, राजुल, मोहन पाण्डेय, ललित पाण्डेय, भरतू कुशवाहा, सहित रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।

कलश यात्रा के दौरान शामिल श्रद्धालु।



● फूलमती मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों का किया नगर भ्रमण

व जलपान द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्रीमद भागवत कथा के यज्ञपति राजकीय शिक्षक अनुराग गुप्ता ने बताया कि विशाल धार्मिक आयोजन गुरुवार कलश यात्रा के

डंपर में ट्रक ने मारी टक्कर से परिचालक घायल

बिधूना, औरैया। थाना कुदरकोट क्षेत्र में नगला बिद्धी और गढ़भाना के बीच बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर किलोमीटर 278.4 के पास एक्सप्रेसवे पर खड़े एक डंपर में पीछे से बिहार जा रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के परिचालक सोनू पुत्र उदयवीर निवासी चरयाना, अलीगढ़ का पैर कट गया, जबकि ट्रक चालक जोगेंद्र सिंह पुत्र राजवीर सिंह निवासी कुरावली, कासगंज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल परिचालक सोनू को एंबुलेंस के माध्यम से उपचार हेतु आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्मार्टमीटर उपभोक्ताओं के लिए बना मुसीबत

संवाददाता, अछल्दा (औरैया)

अमृत विचार। सरकार द्वारा पारदर्शिता और सटीक बिलिंग के लिए लगाए गए स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ताजा मामला अछल्दा कस्बे के हरीगंज मोहल्ले का है, जहां दीपावली पर घर लौटे एक युवक के सामने बिजली बिल देखकर जैसे आसमान टूट पड़ा।

हरीगंज निवासी नीरज पुत्र रामचंद्र का मार्च से अक्टूबर तक का बिजली बिल 51,896 रुपए आया है। हैरानी की बात यह है कि नीरज मार्च महीने से ही अपने परिवार के साथ घर पर नहीं थे और उस अवधि में उनके घर में बिजली का कोई उपयोग नहीं हुआ। दीपावली के अवसर पर जब वह घर लौटे तो बिजली का बिल देखकर उनके होश उड़ गए।

नीरज ने बताया कि उन्होंने बिल देखने के बाद तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा

● 51 हजार का बिजली बिल देखकर युवक के उड़ें होश

कि हम मार्च से घर से बाहर गए थे, लेकिन अब जब लौटे तो बिना उपयोग के 51 हजार का बिल थमा दिया गया। यह समझ से परे है कि आखिर ये मीटर कैसे चल रहा था। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि हरीगंज, रुरुखुर्द, छछुंद सहित कई इलाकों में स्मार्ट मीटर से जुड़े बिलों में गड़बड़ियां लगातार सामने आ रही हैं। कई उपभोक्ताओं के घर बंद होने या कम बिजली उपयोग के बावजूद हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। इसके बावजूद विद्युत विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। इस संबंध में जब एसडीओ संजीव निरंजन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं फिलहाल छुट्टी पर हूँ। ऐसा बिल एक दिन में भी बन सकता है और एक महीने में भी। फिर भी मामले की जांच कराई जाएगी। स्थानीय लोगों ने विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बिना जांच के झूठे बिल थमाना अत्यंत अनुचित है

न्यूज़ ब्रीफ

युवकों के विरुद्ध चोरी की रिपोर्ट दर्ज

मौदहा(हमीरपुर)। कस्बे के दो युवकों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस ने चोरी का मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कस्बे के हुसैनगंज निवासी जावेद अहमद ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि जुनैद पुत्र पप्पू हजारा व सफीर अहमद पुत्र बशीर अहमद ने घर में रखे सामान शब्बल, फावड़ा सहित अन्य सामान व बिना लॉक किये खड़ी चार पहिया गाड़ी में रखे 20 हजार रुपये निकालने चोरी कर ले गए हैं। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मारपीट के मामले में दो पर मुकदमा दर्ज

बिंवारं(हमीरपुर)। थानाक्षेत्र के लदार गांव निवासी विधा पत्नी मानसिंह बिना जानकारी दिए हुए 20 दिन पहले घर से भाग गई थी। वापस घर आकर अपने पति से हिस्सा बंटवारा की मांग कर रही है। पति ने उसकी हिस्सा के देने से इनकार करते हुए अभद्रता कर मारपीट कर दी। महिला के यूपी 112 नंबर पर फोन किया तो मौके पर आई पुलिस उसके पति मानसिंह को गिरफ्तार कर थाना ले आई। इसी तरह टीहर गांव के युवक भोले शंकर शिव पुानी बात को लेकर गांव के युवक राहुल पुत्र राम जीवन ने अभद्रता कर मारपीट कर दी। भोले शंकर की यूपी 112 नंबर पर फोन किया तो मौके पर आई पुलिस उसके पति मानसिंह को गिरफ्तार कर थाना ले आई है।

फायरिंग करके की गाली गलौज

सुमेरपुर(हमीरपुर)। बुधवार की रात सिमनौड़ी के तीन युवकों ने अवैध असलहों से लैस होकर पड़ोसी के घर आ धमके और हवाई फायर करते हुए गाली गलौज कर जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। सिमनौड़ी गांव निवासी कर्नल सिंह ने बताया कि गांव निवासी सुनील कुमार, ओमप्रकाश, जितेंद्र कुमार अवैध असलहों से लैस होकर उसके घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए हवाई फायरिंग करके जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस चौकी पत्थौरा में की है।

युवती को फुसलाकर ले जाने का मुकदमा सुमेरपुर(हमीरपुर)।

कस्बे के एक मुहाल निवासी पिता ने रिश्तेदार पर पुत्री को बहला फुसलाकर साथ ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। कस्बे इमिलिया थोक निवासी साहेब आलम ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 11 अक्टूबर को स्कूल जाते समय लापता हो गई थी। उसे आशंका है कि पुत्री को पारा कंडीर कुरारा थानाक्षेत्र के निवासी शाहरुख हाल मुकाम मोहम्मदपुर सेक्टर 36 गुरुग्राम हरियाणा बहला फुसलाकर साथ ले गया है। उलाहना देने पर परिजन गाली गलौज कर रहे हैं। पुलिस ने युवक के खिलाफ किशोरी को बहला फुसलाकर भाग ले जाने का मुकदमा दर्ज किया है।

शराबी पति ने बच्चों और पत्नी को पीटा

राठ (हमीरपुर)। शराबी पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को जमकर मारापीटा। पीड़ित पत्नी ने बच्चों के साथ कोतवाली पहुंच तहरीर दी। कस्बे के दीवानपुरा काशीराम कालोनी निवासी रामदेवी, पत्नी परशुराम, ने बताया कि उसका पति परशुराम आए दिन शराब पीकर मारपीट करता है। बताया कि दो दिन पहले वह रात में शराब पीकर घर आया और गाली गलौज करने लगा। जब उसने रोका तो पति ने ,उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक कर मारापीटा। आवाज सुन जब उसके बच्चे उसे बचाने के लिए आए तो उन्हें भी पीटा। बताया कि पति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। कोतवाल अमित कुमार ने बताया जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

क्रांतिकारी नलिनी सेन की मनाई पुण्यतिथि

सुमेरपुर(हमीरपुर)। वर्णिता संस्था के तत्वावधान में क्रांतिकारी नलिनी सेन गुप्ता की पुण्यतिथि मनाई गई। संस्था के अध्यक्ष डॉ. भवानीदीन ने श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि नलिनी सेन गुप्ता ने अपने जीवन के लगभग छह दशकों तक भारत की सेवा की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में प्रभावी भूमिका निभाई। नलिनी सेन गुप्ता के साथ अर्थों में एक राष्ट्र परायणा वीर महिला थीं। आजादी के बाद भी यह अत्यंतसंयुक्त गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करती रहीं। इनका सैनन भले ही ब्रिटेन में हुआ हो, किन्तु वह भारत के लिए काम करती रहीं। 19०3 में कांग्रेस की अध्यक्षा भी रहीं। दो बार बंगाल विधानसभा की सदस्य रहीं। इन्हें 1973 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। कालांतर में इनका 23 अक्टूबर 1973 को निधन हो गया।

अलग-अलग सड़क हादसों में एक की मौत, चार घायल

मौदहा में राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर हुए हादसे, सभी घायलों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है

संवाददाता, मौदहा (हमीरपुर)

अमृत विचार। राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर अलग अलग चार सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को कस्बे के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। एक घटना में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महोबा जनपद के खन्ना निवासी निवासी ध्रुवराज उर्फ बच्चा यादव (26) पुत्र संतोष यादव व महेंद्र यादव उर्फ पप्पू (38) पुत्र श्रीपाल कस्बे से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 से खन्ना जा रहे थे। तभी नरायच के निकट अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर गए। टक्कर मारने वाले वाहन ने बच्चा यादव को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना में बच्चा यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि पप्पू यादव घायल हो गया, जिसे कस्बे की सीएचसी में भर्ती कराया



बच्चा यादव की फाइल फोटो।

गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी घटना में निरंकारी पेट्रोल पंप के निकट नरायच निवासी अनिल (32) पुत्र टायी गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे कस्बे की सीएचसी में भर्ती कराया गया। उधर इंगोहटा अरतरा मार्ग पर एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। उसे भी कस्बे की सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं बड़े चौराहे पर हुए सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

● पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है

युवक सड़क हादसे में घायल, गंभीर

■ **सुमेरपुर(हमीरपुर)।** पत्नी को मायके में छोड़कर वापस घर लौट रहा बाइक सवार युवक हाईवे में बुधवार को देर शाम मवेशी से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। कस्बे के इमिलिया थोक निवासी अजय कुमार (25) अपनी पत्नी को महोबा जनपद के चिवारा गांव में छोड़कर बुधवार को शाम करीब 6:00 बजे वापस बाइक से लौट रहा था। इंगोहटा गांव के समीप अरतरा मार्ग के सामने यह भैस से टकराकर हाईवे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए एंबुलेंस की मदद से सीएचसी मौदहा पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को सदर अस्पताल रेफर किया गया। युवक के सिर में गंभीर चोट लगी है। सरर अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है।

ठेकेदार ने मजदूर को घर में घुसकर पीटा

संवाददाता, राठ (हमीरपुर)

अमृत विचार। कस्बे के अतरौलिया मोहल्ले में ईंट भट्टों में मजदूरी करने वाले एक मजदूर युवक को ईंट भट्टों में मजदूर भेजने वाले ठेकेदार ने अपने दो साथियों के साथ पेशगी के रुपये को लेकर जमकर मारा पीटा। पीड़ित युवक ने कोतवाली में तहरीर दी है।

परशुराम अनुरागी पुत्र बसंत ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के सरसई गांव निवासी एक युवक ईंट भट्टों में लेबर भेजने का काम करता है। बताया कि गुरुवार को आरोपी लेबर भेजने वाला ठेकेदार दो अज्ञात

साथियों के साथ उसके घर पर आया और ईंट भट्टों में पेशगी के रुपए को लेकर उसके साथ विवाद करते हुए गाली गलौज करने लगा। बताया कि जब उसने गाली गलौज करने का विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जमकर पीटा।

यहां तक कि उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे पक्ष ठेकेदार का कहना है कि आरोपी युवक शराबी है और ईंट भट्टे में मजदूरी करने के लिए पेशगी के रुपए पहले ही ले चुका है। अब काम करने से इंकार कर रहा है। कोतवाल अमित कुमार ने बताया जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

जेआरएफ में देश में दूसरा स्थान पाने वाली बेटी हुई सम्मानित

संवाददाता सुमेरपुर(हमीरपुर)

अमृत विचार। वर्णिता संस्था ने कस्बे के तीन होनहार युवाओं को सम्मानित किया। संस्था भूले बिसरे क्रांतिकारियों की जयंती एवं पुण्यतिथि मना कर उन्हें याद करके श्रद्धांजलि देने का काम करती है। इसके साथ संस्था मेधावियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करने का काम करती है।

गुरुवार को संस्था के अध्यक्ष डॉ. भवानीदीन ने पीसीएस परीक्षा में सफलता पाकर पूर्ति निरीक्षक के पद पर नियुक्ति पाने वाले राजीव लोचन, वीर भानु सिंह को स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर



लक्ष्मी तिवारी को किया गया सम्मानित ।

अमृत विचार

सम्मानित किया। वहीं जेआरएफ में देश में दूसरा स्थान पाने वाली प्रगतिशील किसान राधेश्याम तिवारी की पुत्री लक्ष्मी तिवारी

को कस्बे का नाम रोशन करने पर वर्णिता संस्था के अध्यक्ष ने स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

आयोजन युवा कलाकारों ने हाथों में लाटियां लेकर युद्ध कला का शानदार प्रदर्शन किया

भाईदूज पर बेरी गांव में हुआ लह्ममार दीवारी नृत्य

संवाददाता कुरारा(हमीरपुर)

अमृत विचार। क्षेत्र के बेरी गांव में भाईदूज के अवसर पर लह्ममार दीवारी नृत्य का आयोजन किया गया जिसमें युवा कलाकार हाथों में लाटियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते नजर आए।

क्षेत्र के बेरी गांव में भाईदूज के अवसर पर लह्ममार दीवारी नृत्य का आयोजन किया गया। जिसमें युवा कलाकारों ने अपने अपने हाथों में लाटियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जिसे देखकर लोग खुश नजर आए। गांव के छोटी रहुनियां से शुरू होकर, यह दीवारी नृत्य देवी माता मंदिर और विभिन्न स्थानों से होते हुए किले तक पहुंचता है। ढोलक की थाप पर नर्तक लाटियों के साथ विभिन्न पैतरे दिखाते हैं। जिससे माहौल जीवंत हो उठता है। यह नृत्य बरसाने की लह्ममार होली से भिन्न है और इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी भाग लेते हैं। लड़ु कला के



बेरी गांव में लह्ममार दीवारी नृत्य करते ग्रामीण।

अमृत विचार

करतब दर्शकों को आकर्षित करते हैं, जो बुंदेलखंड की पारंपरिक कोशल का जीवंत उदाहरण है। समाजसेवी आकाश पालीवाल ने बताया कि भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने के समय से ही बुंदेलखंड में दीवारी नृत्य की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बेरी स्टेट गांव में सबसे शानदार दीवारी नृत्य देखने

को मिलता है। यह नृत्य न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपनी पहचान बना चुका है। **दिवारी नृत्य महोत्सव का हुआ आयोजन: गोहांड(हमीरपुर)।** गुरुवार को नगर पंचायत की ओर से दिवारी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष अनीता राजपूत ने किया। दिवारी नृत्य में कस्बा सहित क्षेत्र की

रोडवेज बस की टक्कर से कार क्षतिग्रस्त उलाहना देने पर दोनों पक्ष भिड़े

कार्यालय संवाददाता, हमीरपुर

अमृत विचार। रोडवेज डिपो से बस निकालते समय एक कार में बांदा डिपो के बस चालक ने टक्कर मार दी। जिससे कार सवार युवकों व बस चालकों में झगड़ा हो गई। जिस कारण सड़क पर जाम लग गया। यातायात कर्मियों ने झगड़ा कर रहे युवकों से कार हटाने को कहा तो कर्मी से उनसे भी उलझ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले गई। जहां कार सवार युवक ने रोडवेज बस चालक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है।

राठ क्षेत्र के टोला रावत गांव निवासी रविंद्र कुमार ने बताया कि वह दिल्ली में आयकर विभाग में कार्यरत है। गुरुवार को वह अपनी कार से मित्र लक्ष्मण के साथ कानपुर जा रहा था। बस स्टैंड से जैसे ही गुजर रहे थे तभी पीछे से बांदा डिपो के बस चालक ने उनकी कार में टक्कर मार दी। जिस पर



बस स्टैंड में बहस करते कार मालिक व बस के चालक परिचालक तथा एकत्र भीड़।

● कार मालिक ने चालक व परिचालक के खिलाफ कोतवाली में दी तहरीर

चालक से सही से बस चलाने को कहा। जिस पर चालक ने उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगे और अन्य कर्मी भी एकत्र हो गए। इस बीच सड़क पर जाम लगा गया। वहां तैनात यातायात सिपाही राज बहादुर ने

युवकों को कार हटाने को कहा तो युवक व यातायात कर्मी के बीच झड़प होने लगी। इस घटना की सूचना लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर पहुंची। जहां रविंद्र कुमार ने बस चालक व परिचालक के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चुनाव प्रक्रिया शुरू

कार्यालय संवाददाता, हमीरपुर

अमृत विचार। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी वर्ष 2025-26 के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन जयकरण सिंह की अध्यक्षता में अध्यक्ष पद पर तीन, महामंत्री पद पर दो सहित विभिन्न पदों पर नामांकन पत्र दाखिल किए गए।

गुरुवार को नामांकन पत्र खरीदने व दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई। जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी अलताफ हुसैन एडवोकेट के समक्ष अध्यक्ष सहित विभिन्न पदों पर 28 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसमें सबसे ज्यादा कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। अध्यक्ष पद पर महेंद्र प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार शुक्ल व महेश



बार चुनाव में नामांकन करते अधिवक्ता ।

प्रसाद साहू ने नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर सिर्फ इंद्रपाल यादव ने नामांकन दाखिल किया है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विनोद कुमार,

बाइकों पर सवार दर्जनभर युवकों ने गांव पहुंचकर काटा हंगामा

संवाददाता, राठ (हमीरपुर)

अमृत विचार। कोतवाली क्षेत्र के चिरवा गांव में बाइक सवार एक दर्जन से अधिक युवकों ने गांव के एक घर के दरवाजे पर पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। पास पड़ोस में रहने वाले ग्रामीणों के साथ भी गाली गलौज की। यहीं नहीं सड़क से गुजर रहे एक युवक को भी पकड़ कर पीटा। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने एकत्र होकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भाग रहे युवकों में से तीन लोगों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने कोतवाली में तहरीर दी है।

चिरवा गांव निवासी रामपाल, प्रमोद, जयपाल, गुलाब सिंह, महाराजसिंह, गजराज, जयप्रकाश और रविंद्र ने बताया कि करीब एक दर्जन युवक पांच बाइकों से उनके गांव

जानलेवा हमले में में पांच युवक हुए नामजद

सुमेरपुर(हमीरपुर)। दीपावली की रात हुए विवाद में पुलिस ने घायल की मां की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज की है।

दीपावली की रात करीब 9:00 बजे सौरभ तिवारी और उसके साथी अमित को घर जाते समय चाकू एवं हंसिया से हमला करके मरणासन्न कर दिया था। सौर का उपचार कानपुर तथा अमित का हमीरपुर में चल रहा है। सौरभ की मां सीता तिवारी ने कस्बे के चांद थोक निवासी बउआ पंडित, जसवंत सिंह, टिंकू, प्रिंस एवं राज तिवारी के खिलाफ पुत्र पर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

घटना के बाद से सभी आरोपी भूमिगत हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 118 (1),115 (2), 352 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उनकी तलाश शुरू कर दी है। यह घटना मोहल्ले में दबदबा कायम करने की उद्देश्य की गई थी। थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए दबिशा दी जा रही है। वहीं बताते हैं कि कानपुर में भर्ती सौरभ तिवारी की हालत बेहद गंभीर है। जांच की जा रही है।

देव प्रकाश त्रिपाठी, अनिल कुमार यादव, पवन कुमार, पीयूष कुमार ने नामांकन दाखिल किया है।

वहीं महामंत्री पद पर अश्विनी कुमार व जगत प्रसाद मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। संयुक्त सचिव पद पर सत्येंद्र गोयल, विमल कुमार व अनुराग निगम ने नामांकन दाखिल किया है। कोषाध्यक्ष पद पर जगपाल सिंह एवं युगांक मिश्रा ने नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के पद पर विजयेंद्र कुमार सिंह, रामकिशन यादव, चंद्रमौली द्विवेदी, मथुरा प्रसाद द्विवेदी व देवराज सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य पद पर देवी प्रसाद यादव, पीयूष परमार, राम शंकर, साहिल कुमार साहू, अमित द्विवेदी, महेश कुमार सैनी व आशीष सचान ने नामांकन दाखिल किया है।

● सड़क से गुजर रहे एक युवक को पीटा, मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन बाइक सवार युवकों को पकड़ा

चिरवा पहुंचे। बताया कि आरोपी युवकों ने गांव के आलोक नाम के युवक के घर के दरवाजे पर गाली गलौज करने लगे। इसके बाद आरोपी युवक आस पड़ोस में रहने वाले ग्रामीणों को भी आलियां देने लगे। इस दौरान वहां से निकल रहे गांव के एक युवक के साथ आरोपी बाइक सवार युवकों ने पकड़ कर जमकर पीटा। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन युवकों को पकड़ लिया। कोतवाल अमित कुमार ने बताया घटना की जांच कर कार्रवाई की जायेगी

ट्रांसफार्मर व मोटर पंप जलने से पेयजल संकट

संवाददाता कुरारा(हमीरपुर)

अमृत विचार। विकासखंड क्षेत्र के जखेला गांव में संचालित एकल पेयजल योजना का बीते 4 दिनों से ट्रांसफार्मर व मोटर पंप जल जाने से पेयजल समस्या का संकट गहराने से प्रधान पद के उम्मीदवार गली गली में पानी के टैंकर पहुंचा कर ग्रामीणों की प्यास बुझा रहे हैं।

क्षेत्र के जखेला गांव में संचालित जल संस्थान की एकल पेयजल योजना का ट्रांसफार्मर व मोटर पंप बीते 4 दिन दिन पूर्व जल जाने से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था ठप होने से 1500 आबादी वाले गांव में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। प्रधान पद के इच्छुक उम्मीदवार किराये का पानी का टैंकर लेकर गली गली जाकर ग्रामीणों को पानी मुहैया करा रहे हैं।

गांव के सौरभ द्विवेदी, राम शरण प्रजापति आदि ने बताया की एकल पेयजल योजना का दीपावली



गांव में टैंकर से पानी भरते ग्रामीण।

पर्व के एक दिन पूर्व मोटर पंप व ट्रांसफार्मर जल जाने से गांव के ग्रामीणों को निजी नलकूपों से पानी भरकर घर की साफ सफाई लिपाईं पुताई के लिए विवश होना पड़ा है। वहीं जल संस्थान के वरिष्ठ लिपिक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि ट्रांसफार्मर जल जाने से मोटर पंप जल गया है। ट्रांसफार्मर दूसरा आ गया है। शीघ्र ही पानी की आपूर्ति शुरू करा दी जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

पुलिस ने चोरों को किया गिरफ्तार

महोबा। थाना कबरई पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 2 लाख 27 हजार रुपये के अलावा एक अवैध तम्बा व कारतूस भी बरामद किया है। थानाध्यक्ष कबरई सत्यवेन्द्र सिंह भदोरीया के दिशा निदेशन में गठित पुलिस टीम ने पकड़े गये अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। पुलिस ने अजय परिहार , निवासी झलकारीबाई नगर कबरई व अशोक केवट निवासी झलकारीबाई नगर कबरई को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में एक दिन पूर्व की गई चोरी का खुलासा करते हुए 2.27 लाख रुपये के अलावा एक 315 बोर का तम्बा व कारतूस भी बरामद किया है। घटना का खुलासा करने वाली टीम में उपनिरीक्षक गौरव चौधे, उपनिरीक्षक अभिनव सिंह, हेड कांस्टेबिल संदीप कुमार शामिल है।

मजदूरी के रुपये मांगने पर महिला को पीटा

हमीरपुर। थानाक्षेत्र के बंडा गांव निवासी सीमा देवी मजदूरी कर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है। गांव के युवक छुट्टन वर्मा के कहने पर सुमेरपुर में महिला रेखा देवी के घर में मजदूरी का कार्य किया था। छुट्टन सुमेरपुर को युवक छुट्टन वर्मा के कहने पर सुमेरपुर में महिला रेखा देवी के रुपये ले आया और अब महिला की मजदूरी की दस हजार पांच सौ रुपये नहीं दे रहा है। उसने मजदूरी मांगी तो उसे पीट दिया।



बारिश के चलते खेत में भरा पानी।

अमृत विचार

खरीफ के बाद अब रबी की फसल चढ़ी बारिश की भेंट

कार्यालय संवाददाता, महोबा

अमृत विचार। माह अक्टूबर में बुआई के समय हुई जोरदार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। बेमौसम हुई बारिश से भारी नुकसान हुआ है। अधिकांश किसानों द्वारा बोई गई मटर चने की फसल के चंद दिन बाद ही बारिश हो जाने से बीज मर गया। वहीं तमाम किसानों ने खेतों को बनाकर बुआई के लिए तैयार कर दिया था, लेकिन अब बारिश से खेतों में पानी भर जाने से मटर और चने फसल की बुआई नहीं हो सकेगी। अब किसानों को मजबूरन गेहूं और जबे की फसल बोनी पड़ेगी।

जिले में दो घंटे तक हुई जोरदार बारिश के चलते किसानों की जहां एक तरफ बोई गई फसल बर्बाद हो गई, वहीं अब चना और मटर फसल का समय निकलता जा रहा है। खेतों में पानी भर जाने से अब किसान मटर और चने फसल की बुआई नहीं कर सकेगा। खेतों में पानी भरने के

धूमधाम से मनाया गया भाई-बहन के प्यार का पर्व

माइयों ने बहनों के तिलक लगाने के बाद उपहार देकर रक्षा का दिया वचन, सड़कों पर रही जबरदस्त भीड़, लोगों में दिखा उत्साह



भाईदूज पर भाइयों को तिलक करती बहनें।

अमृत विचार

संवाददाता कार्यालय, महोबा

अमृत विचार। भाईदूज पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि यानी 23 अक्टूबर गुरुवार को मनाया गया। बहनों ने भाइयों को तिलक लगा कर और मिठाई खिलाकर उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि की भगवान से कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया।

दीपावली पर्व के अंतिम दिन भाईदूज पर बहनों ने आटे तथा रंगों से सजाए गए चौक पर पाटा बिछा कर भाइयों को बैठाया, फिर रोली चावल से उनके माथे पर मंगल

तिलक कर मिठाई खिलाकर उनके यशस्वी और सुखमय दीर्घ जीवन की कामना भगवान से की। भाइयों ने भी अपनी बहनों को यथा शक्ति दान दक्षिणा भेंट कर उनके सुखी जीवन की प्रार्थना की। भाईदूज पर्व के चलते दिन भर शहर में चहल पहल बनी रही। तमाम भाई अपनी बहनों की ससुराल पहुंचे और भाईदूज त्योहार को मनाया। वहीं तमाम बहनें सुबह तैयार होकर भाइयों के घर पहुंचीं और भाईदूज की रस्म को पूर्ण किया। वहीं लोगों के ज्यादातर आने जाने की वजह से सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली। बसों और ऑटो में भी खूब भीड़ रही वहीं ई-रिक्शा वालों ने खूब चांदी काटी।

अवैध शराब सहित एक युवक गिरफ्तार

महोबा। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत थाना अजनर पुलिस ने अवैध शराब सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर सत्यपाल सिंह द्वारा उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस टीम के कांस्टेबल भरत सिंह ने मुखबिर की सूचना पर बबलेश साहू उर्फ बड्डे (22) पुत्र गुलाबचंद निवासी ग्राम बुधवारा थाना अजनर को गांव से ही अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के कब्जे से एक बोरी में 40 अरद क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद करते हुये मुकदमा पंजीकृत किया गया।

हार जीत की बाजी लगाते दस जुआरी गिरफ्तार

संवाददाता, बेलाताल महोबा

अमृत विचार। एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जिले में अपराध पर अंकुश लगाये जाने के लिए संचालित अवैध जुआ, सट्टा पर प्रभावी कार्रवाई एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के तहत कोतवाली कुलपहाड़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है, साथ ही 13360 रुपये भी बरामद किए हैं।

अमृत विचार

संवाददाता कार्यालय, महोबा

अमृत विचार। दीपावली पर्व के बाद गुरुवार को गोवर्धन पूजा को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। गोवर्धन पूजा के लिए महिलाओं और किशोरियों ने घर के आंगन में गोबर से श्रीकृष्ण की गोवर्धन पर्वत उठाने की आकृति बनाकर परम्परागत तरीके के साथ पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की साथ ही शहर के कई मंदिरों में सामूहिक तरीके के साथ भी इस पूजा को संपन्न किया गया। पूजा के दौरान भक्तों ने श्रीकृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया।

सुबह से ही गोवर्धन पूजा को लेकर घरों ओर मंदिरों में धार्मिक माहौल बना रहा। महिलाओं ने स्नान करने के बाद गाय के गोबर से घरों के बाहर गोवर्धन भगवान को बनाकर उसमें सुंदर सुंदर कला कृतियां के साथ रंगोली के माध्यम से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाने के अलावा दीप, फूलों की खूबसूरत सजावट भी की गई। भक्तों ने विधि-विधान के साथ गोवर्धन पर मिठाई,



गोवर्धन भगवान की पूजा करती महिला।

अमृत विचार

बताशा, तिल सहित तमाम सामग्री रखी गई, इसके बाद दीपक जलाए गए। गोवर्धन पूजा के चलते घरों के बाहर महिलाओं, पुरुषों, बालिकाओं के अलावा बच्चों की खासी भीड़ नजर आई। पूजा समाप्ति के बाद लाई, बताशा, लड्डू आदि का लोगों में वितरण किया गया।

उसी प्रकार गोवर्द्धन्नाथ मंदिर चरखारी परिसर में महिलाओं ने एकजुट होकर भगवान गोवर्द्धन्नाथ की पूजा अर्चना की। गोवर्धन की पूजा के लिए महिलाओं में विशेष उत्साह दिखाई दिया। महिलाएं

सुबह से गाय का गोबर एकत्र करने में जुट गई, इसके लिए गोबर के उपले व तरह तरह की आकृतियां बनाई इसके बाद सभी महिलाओं ने सामूहिक रूप से एक साथ बैठकर भगवान गोवर्धन की पूजा की साथ ही भजन की रसधारा भी बहाई। गोवर्धन पूजा के इस दिन को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस भोग में दाल, चावल, सब्जी, मिठाई, खीर, चूरमा आदि सभी तरह के पकवान शामिल होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता असीमित है।

बहन से टीका कराकर बाइक से लौटते समय हादसे में गई जान

कार्यालय संवाददाता, महोबा

अमृत विचार। भाईदूज में बहन से टीका कराने के लिए बाइक से कस्बा मुस्करा गया था और वापस लौटते समय सड़क हादसे में घायल हो गया। घायल को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शिवकुमार।



घटना के बाद मौजूद पुलिस व परिजन।

अमृत विचार

● पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की शुरु की तलाश

के लिए निकला और टीका कराने के बाद लौटते समय जैसे ही वह सुदामापुरी के समीप पहुंचा ही था कि विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक मय बाइक के सड़क किनारे पड़े से टकराकर गिर गया और खून से लथपथ काफी देर तक पड़ा रहा। रात होने के

कारण अन्य वाहन सवार लोग उसे देख नहीं सके, तभी किसी वाहन चालक ने बाइक और युवक को घायल देख एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी।

घटना स्थल पर एम्बुलेंस के आते ही लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने घायल की जांच करते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के आने पर शव की शिनाख्त करते हुए मृतक के परिजनों को सूचना

दो बाइकों की भिड़ंत में एक की मौत व दो घायल

■ अजनर नौगांव मार्ग पर दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो जाने से तीन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक घायल की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कालेज झांसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन झांसी ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इंदरहा गांव निवासी रामनारायण (36) पुत्र रघुनाथ मुख्य सड़क की दुकान से सामान लेकर बाइक से वापस आ रहा था और जैसे ही बाइक विद्यालय के समीप पहुंची तभी अजनर की ओर से टिकरिया निवासी सुमित अपने एक साथी के साथ नौगांव की ओर जा रहा था। इसी बीच दोनों बाइकों की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइकों में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना देख आसपास खड़े ग्रामीणों ने आनन-फानन में घायलों को नौगांव के एक अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सभी घायलों का डॉक्टरों परीक्षण करते हुए रामनारायण की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कालेज झांसी के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का इस घटना से रो रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

दो गई। परिजनों के आते ही रोना पीटना शुरू हो गया। मृतक के भाई देवकरन पाल ने बताया कि उसका भाई भैयादूज का टीका कराने के लिए मुस्करा बहन के घर गया था और रात में ही वापस लौटते समय



गांव में लगा कूड़े का ढेर।

अमृत विचार

साफ-सफाई न होने से गांवों में लगे कूड़े के ढेर

संवाददाता, कुलपहाड़ महोबा

● गांव में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर दे रहे संक्रामक बीमारियों को दावत

जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आते हैं, इससे ग्रामीणों में खासा गुस्सा दिखाई दे रहा है।

स्वच्छता को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार ग्राम पंचायतों में भारी भरकम बजट जारी करते हैं। गांव में सफाई कर्मियों के अलावा डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए ईरिक्शा की व्यवस्था की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मी अधिकारियों के बंगलों में ड्यूटी कर रहे हैं। जैतपुर ब्लॉक के ग्राम सुगिरा में गांव की मुख्य सड़क एवं आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिस कारण लोगों को बीमारियां और बदबू का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत सचिव रमेश गुप्ता महीनों गांव नहीं आते हैं। दो दो सफाई कर्मियों की नियुक्ति गांव में है, लेकिन वह एक प्राइवेट सफाई कर्मी लगाए हुए हैं। जो आठ हजार की आबादी में 15 वाहनों के लिए नाकाफी साबित हो रहा है।

मालूम हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की गरज से सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है, लेकिन अधिकांश गांव में सफाई कर्मचारी स्वयं न जा करके चारोंरों से काम कराते हैं। नौकर के चाकर से काम कराने की यह प्रथा ग्रामीण अंचलों में तेजी से बढ़ रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरना गई है। कभी नालियों का पानी सड़कों पर बहता दिखाई देते है तो कभी

परंपरा 142 साल से अनवतर दीपावली के दूसरे दिन से लगता आ रहा ऐतिहासिक चरखारी मेला

पूजन के साथ शुरू हुआ ऐतिहासिक गोवर्द्धन्नाथ जू मेला

कार्यालय संवाददाता, महोबा

अमृत विचार। वैदिक मन्त्रों और पूजन के साथ चरखारी का 142वां एतिहासिक एवं धार्मिक मेला श्री गोवर्द्धन्नाथ जी महाराज का शुभारम्भ विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर, भाजपा जिलाध्यक्ष मोहनलाल कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष चरखारी मंजू कुशवाहा ने किया। ऐतिहासिक मेला शुभारम्भ के मौके पर राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बहबहद कर हिस्सा लिया, लेकिन जिले के अधिकारियों के शामिल न होने पर क्षेत्र वासियों में असंतोष दिखाई दिया।

रियासत काल के समय वर्ष 1883 में प्रारम्भ हुए चरखारी के एतिहासिक एवं धार्मिक मेला 142वें वर्ष में प्रवेश कर गया, जिसका शुभारम्भ परम्परागत रूप से वैदिक मन्त्रोंपचार, पूजन, आरती के बाद



मेले के शुभारंभ के दौरान पूजा में बैठे एमएलसी और सजा गोवर्द्धन्नाथ जू मंदिर।

हुआ। इस वर्ष भी मेले के शुभारम्भ पर जिले के आला अधिकारी मौजूद नहीं रहे और भारत की इस पुरातन ऐतिहासिक परम्परा को गति देने के लिए एक मात्र स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ही आए।

मेला के शुभारम्भ के पूर्व भगवान श्री गोवर्द्धन्नाथ जू महाराज के विशाल प्रतिमाएं विशेष सुरक्षा के साथ सदर मंदिर से मेला मंदिर के

लिए रवाना हुई। भगवान के मेला मंदिर में पहुंचने के बाद प्रतिमाओं की मेला मंदिर में विधिवत पूजन के साथ स्थापना की गयी साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष, एमएलसी, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि रामपाल कुशवाहा ने वैदिक मन्त्रोच्चार और पूजन करते हुए मेला का शुभारम्भ किया, जहां आरती के दौरान एसडीएम चरखारी



अमृत विचार

धीरेन्द्र कुमार नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अरविन्द सिंह चौहान, अधिषाणी अधिकारी अमरजीत, डॉ. उमाशंकर तिवारी रमनकिशोर गोस्वामी, रविन्द्र पाठक, मनोज पाठक, मनोज द्विवेदी, अंशुल यादव, रविन्द्र सिंह चौहान, दीपक गुरुदेव, योगेश मिश्रा, अनिल सोनी, व्यापार मण्डल अध्यक्ष आनन्द स्वरूप दमेले, नीरज सोनी, सतीष

श्रीवास्तव, प्रदीप पंसारी, वरिष्ठ लिपिक अययूब खां, सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

मेला के उद्घाटन में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीओ चरखारी संभाले रहे, जहां प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार, पुलिस चौकी प्रभारी चन्द्रशेखर सहित भारी संख्या में पुलिस व पीएसी बल मौजूद रहा।

श्रीवास्तव, प्रदीप पंसारी, वरिष्ठ लिपिक अययूब खां, सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

न्यूज ब्रीफ

सर्पदंश से महिला की गई जान

मऊ (चित्रकूट)। गुरुवार को सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, दोपहर बारह बजे के आसपास थाना मऊ अंतर्गत ग्राम पंचायत वियावल मेंडिया का डेरा निवासी गुजरिया निषाद (35) पत्नी राममिलन को खेत में काम करते वक़्त सर्प ने डस लिया। परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस टीम ने महिलाओं को किया जागरूक

चित्रकूट। मिशन शक्ति के तहत गुरुवार को जिले में पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर महिलाओं को जागरूक किया। इस मौके पर पंफ्लेट बांटे गए। आश्वस्त किया गया कि अपने साथ हुई किसी भी घटना की जानकारी पुलिस को दें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। थाना बरगढ़ की पुलिस टीम ने अग्रोह चौराहा, थाना भरतकूप टीम ने गौतम बुद्धनगर, पहाड़ी टीम व रेगुरा टीम ने कस्बे में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम ने कर्वी रेलवे स्टेशन में लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा थानों की एंटी रोमियो टीमों ने क्षेत्र में छात्राओं, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। हेल्पलाइन नंबरो व कानूनी प्रावधान के बारे में बताया। महिलाओं को बताया गया कि सभी थानों में महिलाओ के लिए महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहां महिला पुलिसकर्मी शिकायत सुनती हैं। महिलाओं- किशोरियों को हेल्पलाइन नंबरो के संबंध में पंफ्लेट दिए और सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखने को बताया।

जुआ खेल रहे चार लोगों को किया गिरफ्तार

हमीरपुर। कस्बे के वार्ड नंबर 11 में गैस एजेंसी के पास हार जीत की बाजी लगा रहे चार लोगों को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4020 रुपये बरामद हुए। वहीं दो लोग मौके से भागने में सफल रहे। कस्बे के वार्ड नंबर 11 में गैस एजेंसी के पास बुधवार की शाम करीब 6 बजे हार जीत की बाजी लगा रहे लोगों के बारे में मुखबिर ने थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक किशन सिंह अपने हमराहियों के साथ पहुंच कर घेराबंदी कर चार लोगों को गिरफ्तार किया।

सीआईसी में आज से होंगे जनपदीय व मंडलीय खेलकूद

कार्यालय संवाददाता चित्रकूट

अमृत विचार। जिले के माध्यमिक विद्यालयों की जनपदीय एवं मंडलीय खेलकूद समारोह चित्रकूट इंटर कॉलेज में आज से शुरू होंगे। रैली के सह संयोजक डॉ. रणवीर सिंह चौहान ने बताया कि दो दिवसीय जिलास्तरीय रैली के बाद मंडलीय प्रतियोगिता होगी। आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में है।

बताया कि जिलास्तरीय रैली कॉलेज परिसर में 24 और 25 अक्टूबर को कराई जाएगी। इसके लिए तैयारी की जा रही है। जनपदीय प्रतियोगिताओं के बाद इसी प्रांगण में 26 अक्तूबर से तीन दिन तक मंडलीय खेलकूद समारोह का आयोजन किया जाएगा। जनपदीय रैली का उद्घाटन जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जीएन एवं समापन पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह करेंगे। मंडलीय रैली का उद्घाटन प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रामकेश

एसडीम ने की गोवंशों और गोवर्धन की पूजा

संवाददाता, कालपी जालौन

अमृत विचार। एसडीएम कालपी मनोज कुमार सिंह ने कान्हा गौशाला में गोवंशों को गुड़ चना खिला कर गोवर्धन पूजा कर नागरिकों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मौनिया वृत्तियों से स्नेहिल भेंट की।

उप जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह बुधवार को कान्हा गौशाला कदौरा में पहुंचे। गौशाला परिसर में उन्होंने गोवंश की गुड़ चना खिला कर गौसेवा की। इसके बाद उपजिलाधिकारी ने गोवर्धन पूजा करके गोवंशों तथा सभी नागरिकों की भलाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इसी दौरान एसडीएम ने मौनिया वृत्तियों से भेंट की। उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने त्योहारों की महत्ता पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि त्योहार हमें साथ में मिलजुल

बीमारी से ऊबकर अधेड़ ने तमंचे से गोली मारकर दी जान, कोहराम

तीर्थक्षेत्र में आश्रम के पास मिला शव, सुसाइड नोट भी बरामद

संवाददाता, सीतापुर चित्रकूट

अमृत विचार। तीर्थक्षेत्र में मप्र अंतर्गत चित्रकूट थाना क्षेत्र में अधेड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव एक आश्रम के पास मिला। पुलिस ने मौके पर शिनाख्त की। बताया कि शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने बीमारी की वजह से आत्महत्या करने की बात लिखी है।

बुधवार देर रात पालदेव गांव स्थित प्रसिद्ध मोरध्वज आश्रम की जानकारी पुलिस को दें, तुरंत कार्रवाई की जाएगी। थाना बरगढ़ की पुलिस टीम ने अग्रोह चौराहा, थाना भरतकूप टीम ने गौतम बुद्धनगर, पहाड़ी टीम व रेगुरा टीम ने कस्बे में, महिला थाना मिशन शक्ति टीम ने कर्वी रेलवे स्टेशन में लोगों को जागरूक किया। इसके अलावा थानों की एंटी रोमियो टीमों ने क्षेत्र में छात्राओं, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। हेल्पलाइन नंबरो व कानूनी प्रावधान के बारे में बताया। महिलाओं को बताया गया कि सभी थानों में महिलाओ के लिए महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहां महिला पुलिसकर्मी शिकायत सुनती हैं। महिलाओं- किशोरियों को हेल्पलाइन नंबरो के संबंध में पंफ्लेट दिए और सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवैसी रखने को बताया।

सच्चे मन से कथा सुनने से तीनों संताप होते हैं

नष्ट: योगेश्वरानंद

राजापुर। एकलव्यनगर में गुरुवार को श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञानयज्ञ के अंतिम दिन वृंदावन निवासी कथावाचक योगेश्वरानंद ने कहा कि भागवत महापुराण समाज को मोक्ष का मार्ग दिखाता है। सच्चे मन से कथा सुनने से तीनों प्रकार के संताप नष्ट हो जाते हैं। कथावाचक ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सत्संग रूपी सुरसरि के समान है। इसने बड़े-बड़े पापियों के पापों को नष्ट कर दिया। यह महापुराण समाज को सत्य के मार्ग पर चलने की सीख देता है। उन्होंने इस मौके पर मां रुक्मणी विवाह ,सुदामा चरित्र के प्रसंगों को सुनाया। कथा के मुख्य जजमान सुशील केसरवानी हैं। शिवपूजन गुप्ता, आदित्य रहे।



मौके पर जांच पड़ताल करती पुलिस।

अमृत विचार

थाना प्रभारी ने बताया कि उसके पास से मिले सुसाइड नोट ने बताया है कि उसने बीमारी की वजह से आत्महत्या की है। युवक की कनपटी में गोली लगने का निशान है। पास से तमंचा और तीन कारतूस भी बरामद हुए

हैं। बताया जा रहा है कि वह अक्सर मोरध्वज आश्रम के आसपास देखा जाता था और वहीं समय बिताता था। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। उसके परिजनों को सूचना भेजी जा रही है।

शहर कोतवाल उपेंद्र बने भरतकूप प्रभारी

कार्यालय संवाददाता चित्रकूट

●एसपी ने किया 11 अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल

प्रताप ने कोतवाली में लगभग 21 महीने का लंबा कार्यकाल बिताया। संभवतः उनसे ज्यादा कार्यकाल अनिल राय का रहा, जो लगभग 25 महीने कोतवाली प्रभारी रहे। अपराध निरीक्षक थाना कोतवाली लाखन सिंह को राजापुर थाना प्रभारी बनाया गया है। इस्पेक्टर राजकुमार वर्मा को कोतवाली से जौनल रिजर्व पुलिस लाइन भेजा गया है। प्रभारी मीडिया सेल निशिकांत राय मारकुंडी एसओ, विनोद कुमार राय अपराध शाखा प्रभारी मीडिया सेल बनाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी शिवमूरत यादव को प्रभारी अराटीसी पुलिस लाइन बनाया गया है। निरीक्षक योगेंद्र प्रताप सिंह को

अमृत विचार। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने 11 पुलिस अधिकारियों की तैनाती में फेरबदल किया है। इसमें नौ इस्पेक्टर और दो सब इस्पेक्टर शामिल हैं। प्रभारी निरीक्षक मारकुंडी रहे श्यामप्रताप पटेल को कोतवाली कर्वी की जिम्मेदारी दी गई है। अब तक शहर कोतवाल रहे उपेंद्र प्रताप सिंह भरतकूप थाने के प्रभारी होंगे।

बीते दिन एक मीडिया समूह के डिजीटल ऐप के पत्रकार के स्टिंग आपरेशन के बाद एसपी ने तीन थानाध्यक्षों, एक सब इस्पेक्टर और तीन पुलिसकर्मीयों को सस्पेंड कर दिया था। इन थानों में जहां एसपी ने नई तैनाती की हैं, वहीं अन्य जगहों पर भी तबादले कर दिए। उपेंद्र तोमर, रामबचन सिंह, जयशंकर प्रसाद ओझा, डा. प्रदीप कुमार सिंह, लालमन, विनय साहू, आलोक शुक्ला, तीर्थ कुशवाहा, शंकर प्रसाद यादव, सतीश रैकवार, वीरेंद्र शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, सुनील शुक्ला, विवेक तिवारी, अजय कुमार शर्मा आदि का सहयोग है।

कोतमर, रामबचन सिंह, जयशंकर प्रसाद ओझा, डा. प्रदीप कुमार सिंह, लालमन, विनय साहू, आलोक शुक्ला, तीर्थ कुशवाहा, शंकर प्रसाद यादव, सतीश रैकवार, वीरेंद्र शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, सुनील शुक्ला, विवेक तिवारी, अजय कुमार शर्मा आदि का सहयोग है।

श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में लगाई

आस्था की डुबकी

कालपी जालौन। गुरुवार को दीपावली के अंतिम दिन भाई दूज का पर्व कालपी तथा आसपास के क्षेत्र में परंपरागत ढंग से धूमधाम पूर्वक मनाया गया। तथा यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की।

दीपावली के अंतिम दिन गुरुवार की सुबह से ही यमुना नदी के प्राचीन घाट पीला घाट, बिहारी जी घाट, धोदेश्वर मंदिर घाटों में भी दूर-दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। दीपावली के अंतिम दिन मनाए जाने वाला भैया दूज पर्व भाई बहन के प्रेम त्याग के तथा समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वहीं पूरे जिले में भाई दूज का पर्व उत्साह व परम्परागत तरीके से मनाया गया। भाई अपनी बहनों से और बहनें अपने भाइयों से मिलने उनके घर पहुंची और बहनों ने भाइयों का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।

खेल के मैदान से

दंगल में पहलवानों ने दांवपेच दिखा किया रोमांचित

संवाददाता, पहाड़ी चित्रकूट

अमृत विचार। प्राचीन नांदी के हनुमान मंदिर के परिसर में दंगल के दूसरे और अंतिम दिन गुरुवार को लगभग तीन दर्जन से अधिक कुशितयों हुई। समापन अवसर पर पहलवानों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

दंगल के दूसरे दिन पूर्व ब्लाक प्रमुख देशराज यादव, पूर्व ब्लाक प्रमुख मनोज सिंह, उच्च न्यायालय के बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्र कुमार चतुर्वेदी ने मेरठ के तथ्य समर्पण का प्रतीक माना जाता है। वहीं पूरे जिले में भाई दूज का पर्व उत्साह व परम्परागत तरीके से मनाया गया। भाई अपनी बहनों से और बहनें अपने भाइयों से मिलने उनके घर पहुंची और बहनों ने भाइयों का तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।

पीआरवी पुलिसकर्मी ने बचाई महिला की जान

चित्रकूट। पीआरवी के पुलिसकर्मीयों की तत्परता से आत्महत्या करने जा रही महिला की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे पीआरवी को बहिलपुरवा थानांतर्गत ऐंववारा निवासी सीमा ने बताया कि वह पति से विवाद के बाद आत्महत्या करने जा रही है। इस पर पुलिसकर्मी तुरंत वहां के लिए रवाना हो गए। महिला के घर जाकर देखा तो पाया कि उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। पीआरवी कमांडर आरक्षी सत्यम सिंह तोमर ने महिला को समझाने की कोशिश की पर उसने कमरा नहीं खोला। इस पर सत्यम ने दरवाजा को धक्का मारकर तोड़ दिया। महिला साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। पीआरवी टीम ने महिला को सुरक्षित बचा लिया।

पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटी बनाया गया है। पुलिस लाइन में कार्यरत रहीं इस्पेक्टर सविता श्रीवास्तव को अपराध निरीक्षक थाना कोतवाली बनाया गया है। पीआरओ रहे एसआई प्रवीण सिंह को पहाड़ी एसओ की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पुलिस लाइन से उप निरीक्षक शांतनु चतुर्वेदी को वरिष्ठ उप निरीक्षक कोतवाली के पद पर भेजा गया है। गौरतलब है कि स्टिंग आपरेशन के बाद सीओ सिटी अरविंद कुमार वर्मा और सीओ राजापुर राजकमल की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने बीते दिन राजापुर थाना प्रभारी पंकज तिवारी, भरतकूप थाना प्रभारी मनोज चौधरी, पहाड़ी थाना प्रभारी अनुपमा तिवारी को निर्लंबित कर दिया था।

रात में ही सही कराई फुंकी मोटर

कालपी जालौन। त्योहार के अवसरों पर जल संस्थान का द्यूबबेल नंबर -7 रामबाग के दो बार खराब हो जाने से रामचबूतरा सहित 3 मोहल्लों की जलापूर्ति व्यवस्था लड़खड़ा गई। विभागीय इंजीनियर बासित अली की मौजूदगी में सबमर्सिबल मोटर को रातों रात बदल कर पानी की सप्लाई सही की गई। नगरीय क्षेत्र कालपी के अलग-अलग स्थानों में 15 नलकूप लगे हुए हैं। यहां पर अकसर नलकूपों में खराबी होती रहती है। पहली बार दीपावली में बिजली की समस्या के कारण रामचबूतरा रामबाग में स्थित नलकूप नंबर -7 की मोटर खराब हो गई फलस्वरूप रामचबूतरा, मिर्जा मंडी आंशिक सब्जी मंडी आदि मोहल्लों के आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गयी। सूचना पाकर अवर अभियंता बासित अली ने नलकूप का निरीक्षण किया और रात में ही मोटर सही कराई।

धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर जागरूक होने

की आवश्यकता

चित्रकूट। विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और क्षेत्रीय संगठन मंत्री गजेंद्र गुरुवार को चित्रकूट पहुंचे। यहां उन्होंने संतों-महंतों से भेंट की और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर जागरूक होने की अपील की।

विहिप के दोनों पदाधिकारियों ने चित्रकूट प्रवास के दौरान संत मदन गोपाल दास प्रमुख द्वार कामतानाथ, रामजी दास संतोषी अखाड़ा, रामहृदय दास रामायणी कुटी, अनूप दास निर्मोही अखाड़ा, दिव्यजीवन दास भरतमंदिर आदि संतों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने संतों से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार, लगातार हो रहे धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर चर्चा की। बताया कि इन परिस्थितियों में हिंदू समाज को कैसे प्रतिक्रिया करनी है और संत कमांडर आरक्षी सत्यम सिंह तोमर ने महिला को समझाने की कोशिश की पर उसने कमरा नहीं खोला। इस पर सत्यम ने दरवाजा को धक्का मारकर तोड़ दिया। महिला साड़ी का फंदा बनाकर फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। पीआरवी टीम ने महिला को सुरक्षित बचा लिया।

भइया दूज



जिले में भाई बहन के स्नेह-प्यार का प्रतीक भइया दूज का त्योहार गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। मुख्यालय सहित कस्बों और गांवों में सुबह से ही बच्चे नए कपड़े पहनकर त्योहार की तैयारी में जुट गए। बहनों ने भाइयों के तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। भाइयों ने उपहार देकर उनकी रक्षा का वचन लिया। नरहे-मुन्नों में त्योहार को लेकर भारी उत्साह रहा।

सेवानिवृत्त शिक्षकों से वसूली का आदेश नियम विरुद्ध : पांडेय

कार्यालय संवाददाता चित्रकूट

अमृत विचार। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश पांडेय ने वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा पेंशनरों को अनियमित भुगतान की राशि जल्द से जल्द जमा करने के आदेश को नियमविरुद्ध और मनमाना बताया है। उनका कहना है कि जांच के बीच ही पैसा जमा करने की बात कहना असली गुनहगारों, दलालों को बचाने का प्रयास है।

शिक्षक नेता ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों ने पैसा लेने के लिए कोषाधिकारी को कोई आवेदन या मांगपत्र नहीं दिया था बल्कि कोषाधिकारी के अधीनस्थ लोगों ने इनके खाते में लाखों भेजकर

वाराणसी से चलकर मप्र के खजुराहो पहुंचेगी वंदेभारत

कार्यालय संवाददाता चित्रकूट

अमृत विचार। जिले से होकर एक वंदेभारत ट्रेन गुजरेगी। रेल मंत्रालय ने एमपी के पर्यटन स्थल खजुराहो से यूपी के वाराणसी तक इसके संचालन की स्वीकृति दे दी है।

जानकारी के मुताबिक, नई वंदेभारत ट्रेन दोनों राज्यों के आधा दर्जन बड़े शहरों को जोड़ेगी। रेलवे ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीजेपी एमपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा को यह जानकारी दी। सांसद को नई वंदेभारत एक्सप्रेस का स्वीकृति पत्र भी भेजा। सांसद वीडी शर्मा ने इसे दीपावली का उपहार बताया। उन्होंने वंदेभारत एक्सप्रेस के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आभार जताते हुए ट्वीट किया। गौरतलब है कि शर्मा खजुराहो के लिए वंदे भारत ट्रेन चलाने की लंबे अर्से से मांग कर रहे थे। अब केंद्रीय रेलमंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने सांसद शर्मा को खजुराहो से वाराणसी वंदेभारत एक्सप्रेस का

● जिले के लोगों को भी मिलेगा इसका फायदा

शेड्यूल भी भेज दिया है। रेलवे के शेड्यूल के अनुसार, प्रस्तावित वंदेभारत एमपी के खजुराहो को अन्य प्रमुख शहरों मधोबा, बांदा, चित्रकूट धाम, प्रयागराज छिवकी और वाराणसी से सीधा जोड़ेगी। यह प्रदेश की पांचवीं वंदेभारत एक्सप्रेस होगी। रेलवे से मिल जानकारी के अनुसार, खजुराहो से वंदेभारत ट्रेन अपराह्न 3:20 बजे वाराणसी के लिए रवाना होगी। ट्रेन रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। वाराणसी से दूसरे दिन सुबह 5:25 बजे ट्रेन खजुराहो के लिए रवाना होगी और मध्याह्न 1:10 बजे खजुराहो पहुंचेगी।

चित्रकूटधाम रेलवे स्टेशन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, ट्रेन कब से चलेगी, अभी इसकी जानकारी नहीं मिली है। शेड्यूल के मुताबिक, वाराणसी से चलकर खजुराहो जाने वाली ट्रेन सुबह 10 बजकर पांच मिनट पर कर्वी आएगी और दो मिनट रुकेगी। इसी तरह लौटते समय यह शाम छह बजकर 13 मिनट पर कर्वी आएगी।

●प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष ने जताई नाराजगी

●कहा, यह असली गुनहगारों, दलालों को बचाने का प्रयास

उनसे यह कहकर नकद पैसा वापस लिया था कि यह दूसरे का पैसा गलती से आपके खाते में आ गया। पुराने लोगों ने बैंकिंग नियम से अनभिज्ञ होने पर कोषागार के लोगों की बात पर भरोसा करके नकद पैसा निकालकर उनको वापस भी कर दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को कोषागार के संपर्क में रहने वाले बेरोजगार दलालों ने अपनी बातों में फंसाकर पैसा निकालकर बंदरबांट किया। ये सभी बातें जांच अधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्त शिक्षकों और

कर्मचारियों ने अपने बयान में बताई हैं। उन्होंने दावा किया पेंशनरों ने इस दौरान दलालों के नाम भी बताए पर उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया।

पांडेय का कहना है कि पूरा मामला जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के बीच ही कोषाधिकारी ने सेवानिवृत्त शिक्षकों - कर्मचारियों से वसूली का आदेश दिया है, जो जांच को प्रभावित करने का और सेवानिवृत्तों को डराकर असली गुनहगारों को बचाने का प्रयास है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से मांग की कि लूट का मोहरा बन चुके सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को न्याय दिलाने और करोड़ों के घोटाले के असली गुनहगारों को पकड़वाने के लिए अपने स्तर पर भी प्रयास कराएं।



एक दूसरे को वित करने की कोशिश करते पहलवान।

अमृत विचार

पर कुश्ती के क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकते हैं। दंगल के दूसरे दिन लगभग तीन दर्जन कुशितयों हुईं। इनमें राजू मऊ टिटिहारा व राजेश मर्का तथा गोपाल महुआ गांव व

गोलू मर्का के मध्य रोमांचक कुश्ती हुई, जो अनिर्णीत रही। शंकर धाता ने राजा कानपुर को, सुदामा मऊ ने लुटन मर्का को, लवकुश सरधुआ ने जितेंद्र चायल को,

रामबाबू सरधुआ ने मनोज चायल को, सहादेव मुंगुस ने अमित महोबा को, गोपाल महुवागांव ने धनंजय दिल्ली को, कपिल वाराणसी ने उमेश उत्तिमपुर को, उत्तम रसिन ने

वैश्विक उपलब्धि

देश वैश्विक वन क्षेत्र रैंकिंग में दसवें से नौवें स्थान पर पहुंच गया है। यह नई पायदान मात्र संख्यात्मक उपलब्धि नहीं, बल्कि पर्यावरणीय, नीतिगत और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। वनों की अंधाधुंध कटाई से दुनिया में गहरीत पारिस्थितिकी संकट के समय में भारत की कामयाबी वैश्विक पर्यावरणीय क्षेत्र में प्रेरणास्पद है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत के कुल करीबन 24 फीसद क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान लगभग 1,500 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। खास बात यह कि यह बढ़ोतरी जल, जंगल और जमीन बचाने वाले जन आंदोलनों की गति और प्रभाव के कम होने के बाद हुई है। जन आंदोलनों के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता, परंतु सरकारी नीतियों, तकनीकी साधनों और सामुदायिक भागीदारी ने इस मामले में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, कपेसटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी और मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कार्य, एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों ने हरियाली को इस पायदान पर ऊपर चढ़ने में मदद की है। इन अभियानों में आम लोगों की भी महत्वपूर्ण सहभागिता रही है।

पिछले कुछ वर्षों में राज्यों को करोड़ों रुपये दिए गए, ताकि राज्य कटे वनों के बदले में नए पौधे लगा सकें। इन्हीं प्रयासों की वजह से बीते सालों में वन क्षेत्र के आंकड़ों में आशातीत वृद्धि दर्ज की गई है। ब्राजील, इंडोनेशिया और अफ्रीका के देशों में बड़े पैमाने पर वन विनाश जारी है, इस उपलब्धि में इस वैश्विक गिरावट का बड़ा हाथ है, ऐसे में यह सफलता भले स्थायी न हो पर यह उस संघर्ष की शुरुआत है, जो ‘संख्याओं की हरियाली’ से आगे जाकर ‘प्रकृति की वास्तविक हरियाली’ की ओर ले जाती है।

यह नंगा सच है कि विकास, औद्योगिकीकरण, खनन और शहरी विस्तार के नाम पर वनों की जबरदस्त कटाई से भारत में पिछले दशक में लगभग 14 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक वन क्षेत्र नष्ट हुआ है। सवाल है कि कितरे जंगलों के दौर में वन क्षेत्र बढ़ कैसे रहा है? असल में कटे पुराने, जैव विविधता संपन्न प्राकृतिक वनों की जगह नए कृत्रिम वनों या वृक्षारोपण क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। ये हरियाली ला सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक वनों जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, वन्यजीव आवास या जल संरक्षण का विकल्प कभी नहीं बन सकते। इस तरह जंगल काटकर उनकी जगह नए पौधे लगाना पर्यावरणीय दृष्टि से केवल एक ‘संकेतात्मक उपाय’ भर है, न कि वास्तविक विकल्प। प्राकृतिक वनों की मिट्टी, जैव विविधता और सूक्ष्म जलवायु दशकों में बनती है। नये पौधों को उस स्तर तक पहुंचने में 40–50 वर्ष लग सकते हैं, इसलिए यह वृद्धि आंकड़ों में तो है, धरातल पर नहीं। भविष्य के लिए जरूरी है कि सरकार वृक्षारोपण के साथ-साथ प्राकृतिक वन संरक्षण, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और वन्यजीव आवास सुरक्षा पर समान रूप से बल दे। पर्यावरणीय शिक्षा, जलवायु-अनुकूल शहरी नियोजन और टिकाऊ विकास की नीति को जीवनशैली का हिस्सा बना कर ही हम इस क्षेत्र में देश को कुछ वर्षों में और ऊपर ला सकेंगे।

प्रसंगवश

80 बरस का हुआ यूएनओ कितना रह गया प्रासंगिक

वर्ष 1945 में दुनिया के 50 देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया था, जिसके बाद से प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। दरअसल द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण और न्यायोचित बनाने के लिए एक नए संगठन की स्थापना का विचार उभरा था, जो पांच राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा आठ यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ था।

अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ को इतनी शक्तियां प्रदान की गईं कि वह अपने सदस्य

देशों की सेनाओं को विश्व शांति के लिए कहीं भी तैनात कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से ही दुनिया के अनेक देश इसके साथ जुड़ते गए और 50 सदस्यों के साथ शुरू हुए इस वैश्विक संघ के सदस्य देशों की संख्या अब 193 हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद वाले सबसे शक्तिशाली देश थे अमेरिका, फ्रांस, रूस तथा यूनाइटेड किंगडम, जिनकी द्वितीय विश्वयुद्ध में अहम भूमिका थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों में युद्ध रोकना, मानवाधिकारों

की रक्षा करना, सभी देशों के बीच मित्रवत संबंध कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को निभाने की प्रक्रिया जुटाना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, निर्धन तथा भूखे लोगों की सहायता करना, उनका जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों से लड़ना इत्यादि शामिल हैं।

इन उद्देश्यों को निभाने के लिए 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा प्रमाणित की गई, हालांकि विडंबना है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के इन 80 वर्षों में यह वैश्विक संस्था अब धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खोने लगी है। दरअसल बीते 80 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थव्यवस्था, हथियार, मीडिया, समाज, मुद्रा तथा समाज से संबंधित तमाम नीतियां इसके पांच स्थायी सदस्य देशों ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, रूस तथा फ्रांस के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ही निर्धारित की जाती रही हैं, जिस कारण ऐसी नीतियों का खामियाजा भारत के अलावा जापान, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई अन्य देशों को भुगताना पड़ा है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थायी सदस्यता के लिए तमाम मापदंडों को पूरा करने के बाद भी दशकों से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रयासरत हैं।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के आठ दशकों में विश्व के सामरिक और आर्थिक समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने और तमाम वैश्विक समीकरण पूर्ण रूप से बदल जाने के बावजूद वीटो अधिकार वाले पांचों स्थायी सदस्यों में से कोई भी अपने वीटो अधिकार और स्थायी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है, हालांकि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर संयुक्त राष्ट्र में आम सहमति है, लेकिन चीन को खासकर एशिया से वीटो अधिकार वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, जहां स्थायी सदस्यता के दोनों दावेदारों (भारत और जापान) पर वह विभिन्न कारणों से संदेह करता है। भारत ने जिस चीन को मान्यता देने में पहल की थी और सुरक्षा परिषद में उसकी स्थायी सीट को सिद्धांत के तौर पर लेने से मना कर दिया था, आज वही चीन भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में रोड़े अटका रहा है। भारत चीन के वीटो पावर के कारण ही सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है।



अगर औरत आजाद नहीं हो सकती तो मर्द कभी आजाद नहीं हो सकता।

–इस्मत चुगताई, उर्दू साहित्यकार

आर्थिक परिदृश्य में वृद्धि और असमानता का द्वंद्व



डॉ. शिवम भारद्वाज
असिस्टेंट प्रोफेसर,
जीएलए यूनिवर्सिटी, मथुरा

एलियांज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-2025, 2024 में भारतीयों की संपत्ति और निवेश के बदलते रुझानों को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान घरेलू वित्तीय संपत्ति में 14.5 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई, जो पिछले आठ वर्षों में सबसे बड़ी छलांग है। प्रतिभूतियों में 28.7 प्रतिशत, बीमा और पेंशन योजनाओं में 19.7 प्रतिशत और बैंक जमा में 8.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि भारतीय समाज अब केवल बचत-केंद्रित सोच से आगे बढ़कर निवेश-केंद्रित मानसिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। इस बदलाव में निवेशकों की संख्या और जोखिम-सचेत, दीर्घकालिक सोच वाले निवेशकों की भागीदारी दोनों बढ़ी है।

शेयर बाजार की गतिविधि भी इस बदलाव की पुष्टि करती है। 2020 में सक्रिय निवेशकों की संख्या 4.9 करोड़ थी, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 13.2 करोड़ तक पहुंच गई। दिसंबर 2024 के अंत तक बीएसई शेयर बाजार पूंजीकरण और जीडीपी का अनुपात 136% तक पहुंच जाना यह संकेत देता है कि निवेशक अधिक परिपक्व, दीर्घकालिक सोच वाले और जोखिम सचेत हो रहे हैं। घरेलू निवेशकों की बढ़ती संख्या और वित्तीय उत्पादों में विविधता ने अर्थव्यवस्था को नया आत्मविश्वास दिया है, हालांकि संपत्ति वृद्धि के साथ आर्थिक असमानता भी लगातार बढ़ रही है। 2024 में देश की कुल संपत्ति का 65% शीर्ष 10% लोगों के पास केंद्रित था, जबकि 2004 में यह अनुपात 58 प्रतिशत था। औसत और मध्यक संपत्ति का अनुपात 2.6 से बढ़कर 3.1 हो गया, जो आर्थिक दूरी के बढ़ते अंतर का एक संकेत है।

वित्तीय साक्षरता में सुधार हुआ है, लेकिन व्यापक स्तर पर यह अभी भी सीमित है। केवल 38.9 प्रतिशत भारतीय वयस्क वित्तीय रूप से सक्षम हैं। शहरी क्षेत्रों में यह 41.9 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 37.6 प्रतिशत। दक्षिण भारत में 46 प्रतिशत, जबकि मध्य भारत



में केवल 32.9 प्रतिशत पर सिमटा हुआ है। यह असमानता शिक्षा और अवसर के वितरण में भिन्नता को उजागर करती है और संकेत देती है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच अब भी सामाजिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर है।

बैंकिंग समावेशन में सुधार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में यह 67 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो मार्च 2024 के 64.2 प्रतिशत से 4.3 अंक अधिक है। महिलाओं की स्थिति भी सुधरी है। उनके पास 39.2 प्रतिशत बैंक खाते हैं और वे कुल जमा का 39.7 प्रतिशत योगदान कर रही हैं। ग्रामीण महिलाओं की बैंकिंग पहुंच 42.2 प्रतिशत तक बढ़ी है। डिजिटल वित्तीय सेवाओं में भी 60 प्रतिशत भारतीय महिलाएं स्मार्टफोन का उपयोग कर रही हैं, जबकि ग्रामीण महिलाओं द्वारा डिजिटल लेनदेन में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि तकनीक वित्तीय अवसरों को व्यापक बना रही है और पारंपरिक बाधाओं को धीरे-धीरे कम कर रही है।

हालांकि यह तस्वीर पूरी तरह संतुलित नहीं है। डिजिटल डिवाइड, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की कम भागीदारी और सीमित वित्तीय जागरूकता यह दिखाते हैं कि आंकड़ों में दिख रही वृद्धि का लाभ अभी समाज के सभी हिस्सों तक नहीं पहुंच रहा। वित्तीय उत्पादों तक पहुंच का अर्थ केवल खाता खलवाना या ऐप डाउनलोड करना नहीं है। इसका प्रभावी और सुरक्षित उपयोग होना आवश्यक है। यही वह बिंदु है, जहां असमानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

यहां निवेश व्यवहार में विविधता दिखती है। शेयर बाजार और फ्यूचर-ऑप्शन ट्रेडिंग उच्च लाभ के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन जोखिम, जटिलताएं और अस्थिरता अधिक है। इन निवेश माध्यमों के लिए गहन जानकारी, कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट और उद्योग विश्लेषण की

आमने	सामने
<p>खेसारी लाल को यहां पर भेज दिया है। इन लोगों के पास अब कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं है। आपके यहां पर एक नाबने वाले को ही भेज दिया। यह लालू प्रसाद यादव का बिहार नहीं है जो अराजकता के लिए बदनाम था।</p> <p>–सम्राट चौधरी भाजपा नेता</p>	<p>राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। मेरे गानों की वजह से छपरा में जलजमाव नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और अस्पतालों की हालत भी मेरी वजह से नहीं बिगड़ी।</p> <p>–खेसारी यादव आरजेडी उम्मीदवार</p>

ट्रंप के दबाव की रणनीति व बदलती भू-राजनीति



डॉ. विकास शुक्ला
कानपुर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और अग्नल बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है। कभी भारत तो कभी ब्राजीज और चीन पर टैरिफ का बम फोड़ने वाले ट्रंप ने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ड्रग तस्क़र बताकर उन पर इनाम रख दिया। वेनेजुएला की नौकाओं और पोत पर आए दिन हमले करा रहे ट्रंप ने अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो को ड्रग तस्क़र बता दिया है। इतना ही नहीं ट्रंप ने कोलंबिया को अमेरिकी मदद रोकने की घोषणा के साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पेद्रो ने ड्रग तस्क़री रोकने को लेकर उचित कदम नहीं उठाया तो अमेरिका खुद कार्रवाई करेगा।

ब्रिक्स देशों को डॉलर के मुकाबले मुद्रा न बनाने के लिए लगातार धमका रहे ट्रंप को जवाब देने का समय आ गया है। चीन ने रेयर अर्थ की अमेरिका को आपूर्ति रोक कर ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। भारत ने रूस से तेल की खरीद का भुगतान चीनी मुद्रा में करके उन्हें बता दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है। जरूरत है कि चीन और भारत जैसा कदम दुनिया के अन्य देश भी उठाएं, ताकि अमेरिकी दादागिरी बंद हो और टैरिफ की मार से राहत मिले।

अमेरिका पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाना चाहता है। पहले ईराक के सद्दाम हुसैन, लीबिया में कनेल गद्दफ़ी का खात्मा करने वाले अमेरिका ने सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल-असद और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्तापलट कराया। अब वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो को सत्ता से हटाने की कोशिश में लग गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जहां उनके मनमुताबिक राष्ट्रपति या

प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें किसी न किसी तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए। इसके लिए ट्रंप हर हथकंडा अपनाने को तैयार हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टूथ सोशल पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेद्रो को अवैध ड्रग तस्क़र बताया है। उन्होंने लिखा है कि पेद्रो देशभर में छोटे और बड़े खेतों में भारी मात्रा में ड्रग्स की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। पेद्रो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि अमेरिका की तरफ से उन्हें बड़ी आर्थिक मदद और सब्सिडी मिल रही है। अगर वे इसे नहीं रोकेंगे तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। पेद्रो ने अभी ट्रंप के आरोपों का जवाब नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि मादुरो की तरह ही वे भी ट्रंप के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका और कोलंबिया के रिश्तों में और तनाव आने की संभावना है।

अमेरिका के विदेश विभाग ने गुस्तावो पेद्रो का वीजा भी रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब पेद्रो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में शामिल होने आए थे। कहा जा रहा है कि ट्रंप पेद्रो से इसलिए नाराज हैं, क्योंकि वे उनकी नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कभी उनकी हां में हां नहीं मिलाई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी अमेरिका की साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे हैं। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला के समुद्र तट पर अपने युद्धपोत और सैनिक भेजे, तो उन्होंने भी सेना को मोर्चे पर तैनात कर दिया और ट्रंप को यह संदेश दे दिया कि अब बहुत हुआ वे झुकेंगे नहीं। यही वजह है कि वे ट्रंप की आंखों में खटक रहे हैं। रूस से तेल आयात करने पर भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने चीन पर भी सौ फीसद टैक्स लगा दिया है।

वैचारिकी | 10

सोशल फोरम

एक बादशाह की बदनसीबी

17 अक्टूबर 1858 को बाहदुर शाह जफर मकेंजी नाम के समुद्री जहाज से रंगून पहुंचा दिए गए थे। शाही खानदान के 35 लोग उस जहाज में सवार थे, कैप्टन नेल्सन डेविस रंगून का इंचार्ज था, उसने बादशाह और उसके लोगों को बंदरगाह पर रिसीव किया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हुकूमत के बादशाह को लेकर अपने घर पहुंचा। बहादुर शाह जफर कैदी होने के बाद भी बादशाह थे,



हिररी अनफोल्डेड
फेसबुक

इसलिए नेल्सन परेशान था, उसे ये ठीक नहीं लग रहा था कि बादशाह को किसी जेल खाने में रखा जाए, इसलिए उसने अपना गैराज खाली करवाया और वहीं बादशाह को रखने का इंतजाम कराया। बहादुर शाह जफर 17 अक्टूबर 1858 को इस गैराज में गए और सात नवंबर 1862 को अपनी चार साल की गैराज की ज़िंदगी को मौत के हवाले कर के ही निकले।

सात नवंबर 1862 को बादशाह की खादिमा परेशानी के हाल में नेल्सन के दरवाजे पर दस्तक देती है। बर्मी खादिम आने की वजह पूछता है। खादिमा बताती है कि बादशाह ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे हैं। खादिम कहता है, “अभी साहब कुत्ते को कंधी कर रहे हैं। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। खादिमा जोर-जोर से रोने लगती है। आवाज सुनकर नेल्सन बाहर आता है। खादिमा की गुजारिश सुनकर वो गैराज पहुंचता है। बादशाह की आखिरी आरामगाह में बंदवू फैली हुई थी और मौत की खामोशी थी बादशाह का आधा कंबल जमीन पर और आधा बिस्तर पर। नंगा सर तकिए पर था, लेकिन गर्दन लुढ़की हुई थी। आंख बहार को निकली हुई थी और सूखे होंठों पर मक्खी भिनभिना रही थी। नेल्सन ने ज़िंदगी में हजारों चेहरे देखे थे, लेकिन इतनी बेचारगी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। वो बादशाह का चेहरा नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिखारी का चेहरा था। उसके चेहरे पर एक ही फरमाइश थी, आजाद सांस की।

हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह की ज़िंदगी खत्म हो चुकी थी। कफन-दफन की तैयारी होने लगी। शहजादा जवान बख्त और हाफिज मोहम्मद इब्राहीम देहलवी ने गुप्तुल दिया। बादशाह के लिए रंगून में जमीन नहीं थी। सरकारी बंगले के पीछे खुदाई की गई और बादशाह को खैरात में मिली मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया। उस्ताद हाफिज इब्राहीम देहलवी की आंखों को सामने 30 सितंबर 1837 के मंजर दौड़ने लगे, जब 62 साल की उम्र में बहादुर शाह जफर तख्त नहीं हुए थे। वो वक्त कुछ और था ...ये वक्त कुछ और था। इब्राहीम देहलवी सूरह तौबा की तिलावत करते हैं। नेल्सन कब्र को आखिरी सलामी पेश करता है और एक सूरज गुरुब हो जाता है !



सामयिकी

नेपाल में लोकतंत्र बहाली की तैयारी व सियासत



यशोदा श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार

नेपाल में हाल ही हिंसात्मक आंदोलन और


अंतरिम सरकार के अस्तित्व में आने के करीब एक माह बाद माओवादी केंद्र ने पहली मर्तवा जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने नेपाली मीडिया से भी बात की। बातचीत में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव की तैयारी में जुटने का आवाहन करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार ने जिस समय सीमा के भीतर जनसभा की घोषणा की है उस पर कायम रहते हुए चुनाव कराया जाना चाहिए।

नेकपा (माओवादी केंद्र) अध्यक्ष पुष्प कमल देहाल ‘प्रचंड’ बुधवार को मधेश प्रदेश के महोत्तरी के राम गोपालपुर में पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा और पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में शामिल हुए। नेपाल में हाल ही में हुए तख्तापलट और हिंसात्मक आंदोलन के बाद किसी राजनीतिक दल का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। राम गोपालपुर जाने के लिए जनकपुर धाम हवाई अड्डे पर पहुंचे प्रचंड ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत करते हुए सरकार से आग्रह किया कि वह शीघ्र ही चुनाव के लिए आवश्यक माहौल तैयार करे।

प्रचंड ने कहा, “निर्वाचन तय समय पर होना चाहिए। सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। सरकार की हाल ही में राजनीतिक दलों के साथ हुई वार्ता से यह संकेत मिला है कि सरकार धीरे-धीरे चुनाव की दिशा में गंभीर हो रही है, लेकिन अभी भी पूर्ण वातावरण तैयार नहीं हुआ है। प्रचंड ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में गठित अंतरिम सरकार पहले ही चुनाव की घोषणा कर चुकी है, इसलिए अब सभी दलों को निर्वाचन की तैयारी में पूरी तरह जुट जाना चाहिए।

सत्ता से हटाए गए केपी शर्मा ओली चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्होंने तय समय-सीमा में चुनाव पर भी संदेह जताया है। पिछले दिनों अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने साफ कह दिया कि एमाले चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। एमाले के इस घोषणा के बाद नेपाल की राजनीति में अनिश्चितता का खतरा उत्पन्न हो गया है। ओली सरकार में प्रमुख सहयोगी रही नेपाली कांग्रेस का चुनाव को लेकर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। जहां तक अन्य राजनीतिक दलों की बात है तो माना जा रहा है कि देर-सेवर अन्य राजनीतिक दल चुनाव में आएंगे ही।

एमाले, नेपाली कांग्रेस के बाद माओवादी केंद्र तीसरा बड़ा राजनीतिक दल है। माओवादी केंद्र के चुनाव का समर्थन करने के बाद मुमकिन है, नेपाली कांग्रेस भी चुनाव को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे। अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने वायदे के मुताबिक छः महीने में चुनाव कराने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार नेपाली जनता को निर्भय और स्वतंत्र वातावरण में मतदान करने का अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।






हाल ही में एक एक खबर पढ़ी कि 'पिछले 150 वर्षों में लाखों कीट प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और हर साल शेष कीट बायोमास का 1 से 2.5 प्रतिशत तक नष्ट हो रहा है।' बड़ी बात यह है कि इन कीटों का पतन सिर्फ और सिर्फ महाद्वीपों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी के सबसे दूर बसे द्वीप भी इसकी चपेट में हैं। बहरहाल यह बहुत गंभीर और चिंताजनक पर्यावरणीय मुद्दा है कि आज दुनियाभर में चींटियां, मधुमक्खियां, तितलियां और अन्य परागण करने वाले कीट (पालीनेटर) कम हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें, तो आज दुनियाभर में कीटों का संसार खतरे में है। उल्लेखनीय है कि महाद्वीपों और द्वीपों पर कीटों के पतन को वैज्ञानिक 'इनसेक्ट एपोकलिप्स' यानी 'कीट प्रलय' के नाम से जानते हैं। वास्तव में इनके घटने के कई कारण हैं। मसलन इनमें क्रमशः खेती में कीटनाशकों का अंधाधुंध और अवैज्ञानिक प्रयोग, कीटों के प्राकृतिक आवासों (हेबिटेट) का लगातार नष्ट होना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता पर्यावरणीय प्रदूषण (मिट्टी, जल, वायु) बीमारियां और परजीवी आदि को शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि प्रकाश और ध्वनि प्रदूषण भी कीटों की विलुप्ति का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है।



सुनील कुमार महला
रखतें पत्रकार

जापान के ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एंटोमोलॉजिस्ट इवान इकोनोमो ने फिजी द्वीपसमूह की चींटी प्रजातियों के जीनोम विश्लेषण से बताया है कि यहां स्वदेशी चींटी प्रजातियां 79 प्रतिशत घट गई हैं। गिरावट ईसानों के द्वीपों पर करीब 3,000 साल पहले आगमन के साथ शुरू हुई और पिछले 300 वर्षों में यूरोपीय संपर्क, वैश्विक व्यापार और आधुनिक कृषि के फैलाव के साथ तेज हो गई। यह शोध जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 5.5 मिलियन कीट प्रजातियां हो सकती हैं, जिनमें से लगभग 1 मिलियन को ही अब तक वैज्ञानिकों ने पहचाना और नामित किया है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 80 प्रतिशत कीट प्रजातियां अभी भी अज्ञात हैं, जो जैविक अनुसंधान के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रस्तुत करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) के अनुसार जुलाई 2016 तक 58 कीट प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि 46 प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं और एक प्रजाति केवल वन्यजीवों में ही विलुप्त हो चुकी है। यहां यदि हम कीटों की विलुप्ति दर की बात करें, तो वैश्विक पर, पिछले 150 वर्षों में कीटों की लगभग 5 से 10 प्रतिशत प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जो लगभग 2,50,000 से 5,00,000 प्रजातियों के बराबर है। गौरतलब है कि जर्मनी में 63 नेचर रिजर्व्स में उड़ने वाले कीट 30 वर्षों में 75 प्रतिशत तक घट गए। इतना ही नहीं, अमेरिका में बीटल की संख्या 45 वर्षों में 83 प्रतिशत घटी और तितलियों की कई प्रजातियां संकट में हैं। यूरोप की घासभूमि में तितलियों की आबादी केवल एक दशक में 36 प्रतिशत घटी है।



विज्ञान फैक्ट

धातुएं, जो हवा और पानी के संपर्क में आने पर फट जाती हैं



कुछ धातुएं हवा और पानी के संपर्क में आते ही तीव्र प्रतिक्रिया करती हैं और कभी-कभी फट भी जाती हैं। ये धातुएं क्षार धातुएं कहलाती हैं। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटैशियम, रुबिडियम, सीजियम और बहुत दुर्लभ रूप से फ्रेंशियम है। इनका बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाती हैं और तीव्र रासायनिक प्रतिक्रियाएं करती हैं। ये धातुएं हवा के ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में आकर तेजी से ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड, हाइड्रॉक्साइड या पेरोऑक्साइड बना लेती हैं, इसलिए खुले हवा में रखें तो सतह पर झनझनाहट या कुछ मामलों में चिंगारी भी पैदा करती है। यह प्रतिक्रिया उष्मा उत्पन्न करती है। सोडियम और खासकर पोटैशियम / रुबिडियम / सीजियम में जितनी अधिक सक्रियता, उतनी अधिक उष्मा, जिससे उभरता हुआ हाइड्रोजन शराब पकड़ सकता है और विस्फोट/जलन हो सकती है। लिथियम का प्रतिक्रिया दर थोड़ी धीमी होती है, सीजियम व रुबिडियम अत्यंत उग्र प्रतिक्रियाशील होते हैं।

वाल्डिवियन समशीतोष्ण वर्षावन

दक्षिण अमेरिका की प्रकृति का खजाना

चिली और अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में बसा वाल्डिवियन समशीतोष्ण वर्षावन प्रकृति की अनोखी रचना है। लगभग 2,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह प्राचीन वन अपने घने पेड़ों, दुर्लभ वनस्पतियों और विविध जीव-जंतुओं के लिए जाना जाता है। यहां पाए जाने वाले फिट्जरोया कपरेसॉयड्स या अलर्से पेड़ दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल वृक्ष है, जो 3,000 वर्षों से अधिक तक जीवित रह सकता है। यह वृक्ष न केवल अपनी आयु के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वन में कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिनमें ह्युमुल हिरण प्रमुख है। इसके अलावा यहां मैजेलनिक कठफोड़वा जैसी पक्षियों की अनोखी प्रजातियां भी निवास करती हैं। यह वर्षावन शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों के लिए किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि यह समशीतोष्ण वर्षावनों की जैव-विविधता को समझने के लिए एक आदर्श स्थल प्रदान करता है। वाल्डिवियन वन वास्तव में दक्षिण अमेरिका की प्राकृतिक संपदा का चमकता प्रतीक है।

सजावट के साथ पर्यावरण संतुलन भी जरूरी

आज की दुनिया तेजी से विकास कर रही है, परंतु यह विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब वह पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर चले। सतत विकास का यही मूल उद्देश्य है- आज की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। कृषि क्षेत्र में, विशेषकर फलोत्पादन में, छोटे-छोटे क्रियाकलापों का पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उन्हीं में से एक है-फलों के साथ पतियां तोड़ देना। यह कार्य देखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पौधों की सेहत, पर्यावरणीय संतुलन और खेती की स्थायित्व क्षमता पर पड़ता है। किसानों और फल विक्रेताओं को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।



पतियों की जैविक भूमिका

पतियां पौधा का 'भोजन निर्माण केंद्र' होती हैं। इनका कार्य केवल सौर्यवर्धन नहीं होता, बल्कि ये पौधों के जीवन का आधार हैं:

- प्रकाश-संश्लेषण: पतियां सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज (भोजन) बनाती हैं।
- श्वसन और वाष्पोत्सर्जन: पतियां ही श्वसन और वाष्पोत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं संचालित करती हैं, जिससे पौधा अपने तापमान को नियंत्रित रखता है।
- फल परिपक्वता में योगदान: फल के आसपास की पतियां उसके पोषण में सहायक होती हैं और उसके आकार, रंग, मिठास और गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं।
- जब फल के साथ पतियां भी तोड़ दी जाती हैं, तो पौधा एक झटके में अपनी ऊर्जा बनाने की क्षमता खो देता है, जिससे आगे की वृद्धि और उत्पादन प्रभावित होता है।

प्रभावी पहल


- कटाई की तकनीकों में सुधार करें: फल इस तरह से तोड़े जाएं कि उनकी आस-पास की मुख्य पतियां सुरक्षित रहें।
- प्रशिक्षण एवं जागरूकता: किसानों को यह बताया जाए कि पतियों का महत्व क्या है और वे फल उत्पादन को कैसे प्रभावित करती हैं।
- ग्राहक को शिक्षित करें: उपभोक्ताओं को भी जागरूक करें कि वे फल को केवल उसके सौंदर्य से नहीं, बल्कि उसके उत्पादन प्रक्रिया की समझ से देखें।
- प्राकृतिक सौंदर्य का संरक्षण करें: जितना संभव हो, पतियों के बिना सजावट की वैकल्पिक विधियां अपनाएं।

अनावश्यक दोहन ठीक नहीं

- बहुत बार फलों को सजाने के लिए फलों के साथ अधिक पतियां तोड़ी जाती हैं- उदाहरण के लिए पूजा, उपहार टोकरी, होटल व्यवसाय या प्रदर्शनियों में। यह एक प्रकार की प्राकृतिक सजावट का व्यापारिक दोहन बन गया है।
- यह कार्य जब तक संतुलन के साथ और सीमित मात्रा में किया जाए, तब तक ठीक है। परंतु यदि बड़े पैमाने पर, बिना संवेदनशीलता के, पतियां तोड़ी जाएंगी, तो यह पर्यावरणीय हानि की दिशा में एक और कदम होगा।



डॉ. विकास पटेल
असिस्टेंट प्रोफेसर, बरौली



जंगल की दुनिया



टेक अपडेट्स

iQOO 15

मोबाइल लॉन्च

हाल ही में iQ कंपनी ने iQOO 15 मोबाइल लॉन्च किया है। कंपनी ने इस बार परफॉर्मेंस, कैमरा और बैटरी- तीनो में जबरदस्त अपग्रेड दिए हैं। Vivo के इस सब-ब्रांड ने अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को चीन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट, 7,000mAh बैटरी और तीन 50 MP कैमरों के साथ पेश किया है। इसकी शुरुआती कीमत (करीब 52,000) रखी गई है, फोन के चार वैरिएंट में उपलब्ध होगा।

परफॉर्मेंस और प्रोसेसर - यह फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट पर चलता है, जिसमें Adreno 840 GPU मिलता है। इसके साथ Q3 गेमिंग चिप दी गई है, जो गेमिंग अनुभव को और स्मूथ बनाती है। फोन में Android 16 आधारित OriginOS 6

ऑपरेटिंग सिस्टम है।

कैमरा सेखन- iQOO 15 में तीन 50MP कैमरों का सेटअप दिया गया है-

- 50MP प्राइमरी सेंसर (f/1.88)
- 50MP पेरिस्कोप लेंस (100x डिजिटल ज़ूम)
- 50MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा

सेल्फी के लिए 32MP फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है।

बैटरी और चार्जिंग- फोन में 7,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके साथ अल्ट्रासोनिक इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है।

रोचक किरसे

स्टबिन्स फिर्थ

स्टबिन्स फिर्थ पेंसिलवेनिया विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता थे, जो एक खास वैज्ञानिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, वह भी एक बेहद आश्चर्यजनक प्रोजेक्ट पर। एक प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में वे इस विचार से इस हद तक ग्रस्त हो गए थे कि पीत ज्वर संक्रमक नहीं है। वे इसे साबित करने की कोशिश में हद से ज्यादा कोशिश करते रहे। सिर्फ एक भरोसेमंद ब्लेड और सच्चाई जानने की अपनी अटूट इच्छा से लैस, फिर्थ ने पहले अपनी बांहें चिरी और पीत ज्वर के मरीजों की उल्टी को अपने जख्मों पर लगा लिया। जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने उल्टी अपनी आंखों में डाल ली, उस जहरीले तरल को पी लिया, उसे भून लिया और उसके धुएं में सांस ली और पागलपन के अपने आखिरी कृत्य में संक्रमित मरीजों के खून, पेशाब और लार से खुद को ढक लिया। आखिरकार फिर्थ ने अपने सिद्धांत को साबित कर दिया, बशर्ते वे बीमार न हों। हालांकि अब हम जानते हैं कि यह सब उन्होंने उन मरीजों के नमूने लेने की वजह से भी किया था, जो संक्रमण की अंतिम अवस्था से गुजर चुके थे। दूसरे शब्दों में फिर्थ ने संक्रमित उल्टी निगल ली, लेकिन इससे रोग पर कोई नई रोशनी नहीं पड़ी।



12	बाजार	संसेवस ↑	निपटी ↑
	बंद हुआ	84,556.40	25,891.40
	बढ़त	130.06	22.80
	प्रतिशत में	0.15	0.09

	सोना 1,24,300 प्रति 10 ग्राम
	चांदी 1,48,915 प्रति किलो

बिजनेस ब्रीफ

समय से पीछे एसईसीएल की 12 परियोजनाएं

नई दिल्ली। कोल इंडिया की इकाई एसईसीएल की 12 कोयला खनन परियोजनाएं पर्यावरण मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी से तय समय से पीछे चल रही हैं। सरकार के आयात कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के बीच ये परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार, उक्त परियोजनाओं में से तीन खदानों की लागत 500 करोड़ से अधिक है। पांच की लागत 150 करोड़ से अधिक है। दो की लागत 100 करोड़ से अधिक है। एक की लागत 50 करोड़ से अधिक है। वहीं एक की लागत 20 करोड़ से अधिक है। इनमें से कुछ परियोजनाएं अमादंड खुली खदान, अमागांव खुली खदान परियोजना और बिजय पश्चिम भूमिगत खदान हैं। 18 परियोजनाएं तय समय पर चल रही हैं।

एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस ने किया पुरस्कृत

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को विश्व बैंक/आईएमएफ की वार्षिक बैंक में न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस से दो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक ने दो खिताब (‘वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025’ और ‘बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025’) जीते। एसबीआई ने कहा कि यह दोहरी मान्यता बैंक की नवाचार, वित्तीय समावेशन और ग्राहक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र में उसकी अग्रणी स्थिति को और मजबूत करती है।

पावरग्रिड की हुई 3375 करोड़ की दो परियोजनाएं

नई दिल्ली। पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 3,375 करोड़ रुपये की दो प्रमुख परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है। ये भारी लोड वाले पारेष्ण गलियारों पर भार कम करने, बिजली की विश्वसनीयता में सुधार लाने और विभिन्न क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा के निबंध हस्तांतरण को सुगम बनाने में मदद करेगी। पावरग्रिड ने कहा कि इससे अतिरिक्त, वे आगामी पंप स्टोरेज परियोजनाओं से बिजली की निकासी में भी सहयोग करेंगे। उसने बोली से दो एसपीवी विध्याचल वाराणसी और एसआर डब्ल्यूआर पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड हासिल किए हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.7-6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी

डेलॉयट इंडिया ने बढ़ती मांग एवं नीतिगत सुधारों के बीच वृद्धि का लगाया अनुमान

नई दिल्ली, एजेंसी

डेलॉयट इंडिया ने बढ़ती मांग एवं नीतिगत सुधारों के बीच चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.7-6.9 प्रतिशत की दर से बढ़ने का गुरुवार को अनुमान लगाया। भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।

पेशेवर सेवा कंपनी डेलॉयट ने कहा कि घरेलू मांग में तेजी, उदार मौद्रिक नीति तथा माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 2.0 जैसे संरचनात्मक सुधारों से वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। कम मुद्रास्फीति, क्रय शक्ति में सुधार के साथ खर्च बढ़ाने में योगदान देगी। डेलॉयट इंडिया की ‘भारत आर्थिक परिदृश्य’ रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.7 से 6.9 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है जो डेलॉयट के पिछले अनुमान से 0.3 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर औसतन



● **डेलॉयट ने कहा- घरेलू मांग में तेजी, उदार मौद्रिक नीति तथा जीएसटी 2.0 से वृद्धि को बल मिलने की संभावना**

6.8 प्रतिशत बनी हुई है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रुमकी मजूमदार ने कहा कि त्योहारों के दौरान मांग में वृद्धि उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि से होने

निवेश धारणा में सुधार की उम्मीद

मजूमदार ने कहा कि भारत साल के अंत तक अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ समझौता कर लेगा, जिससे समग्र निवेश धारणा में सुधार होने की उम्मीद है। पहली एवं तीसरी तिमाही में मजबूत वृद्धि से समग्र वार्षिक वृद्धि को बल मिलने की संभावना है। चालू वित्त वर्ष में वृद्धि, वैश्विक चुनौतियों को लेकर संवेदनशील बनी है। अनिश्चितताएं और अमेरिका के साथ समझौता भारत की असमर्थता, ऐसे संभावित जोखिम हैं जो भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच पर प्रतिबंध और पश्चिमी देशों में उच्च मुद्रास्फीति, भारत में मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ा सकते हैं।

की संभावना है। इसके बाद मजबूत निजी निवेश की उम्मीद है क्योंकि व्यवसाय अनिश्चितताओं का सामना करने और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

एथनॉल आवंटन को लेकर 350 डिस्टिलरी में अनिश्चितता व्याप्त

नई दिल्ली, एजेंसी

देश भर में 350 से अधिक चालू डिस्टिलरी को नवीनतम एथनॉल निविदा के तहत अपर्याप्त खरीद आदेशों के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग निकायों ने आवंटन पद्धति पर चिंता जताई है जो मौजूदा इकाइयों की तुलना में नई प्रवेशकों को तरजीह देती है।

डिस्टिलरी में एथनॉल को आसवन (डिस्टिलेशन) प्रक्रियाओं के माध्यम से बनाया जाता है जिसमें गन्ने के शीरे, मक्के या अन्य बायोमास-आधारित सामग्री से प्राप्त शर्करा का किण्वन किया जाता है। डिस्टिलरी इथेनॉल वह इथेनॉल (एक प्रकार का अल्कोहल) है जो आसवन (डिस्टिलेशन) प्रक्रियाओं से बनाया जाता है, जिसमें गन्ने के शीरे, मक्के या अन्य बायोमास-आधारित



● **नई निविदा को लेकर उद्योग निकायों ने आवंटन पद्धति पर जताई चिंता**

सामग्री से प्राप्त शर्करा का किण्वन किया जाता है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा जारी एथनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 निविदा हितधारकों की आलोचना का सामना कर रही है।

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत के प्रसंस्कृत आलू उत्पाद दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने कहा कि निर्जलित (डिहाइड्रेटेड) आलू के दानों एवं पेटेल्टस का निर्यात 2021-22 के 1.14 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 6.33 करोड़ डॉलर हो गया है जिससे यह भारत की सबसे तेजी से बढ़ती प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात श्रेणी बन गई है।

निर्जलित आलू के दाने एवं पेटेल्टस... सुखे हुए आलू उत्पाद हैं जो ‘मैश’ किए हुए आलू के लिए एक सुविधानजनक विकल्प हैं, जिन्हें पानी डालकर फिर से तैयार किया जा सकता है। अन्य प्रसंस्कृत आलू



● **आलू के दानों एवं पेटेल्टस का निर्यात 2021-22 के 1.14 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 6.33 करोड़ डॉलर हुआ**

उत्तर प्रदेश और गुजरात दे रहे बढ़ावा

गुजरात और उत्तर प्रदेश नए निर्जलीकरण संयंत्रों, अनुबंध खेती एवं कोल्ड-चेन बुनियादी ढांचे के साथ इस तेजी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे 5.6 करोड़ टन वार्षिक आलू की फसल का समर्थन प्राप्त है। जहां यूरोप ऊर्जा लागत एवं अनियमित फसलों से जुझ रहा है और चीन घरेलू मांग को प्राथमिकता दे रहा है, वहीं भारत, एशिया के स्नेक और व्यूएसआर (त्वरित-सेवा रेस्तरां) उद्योगों के लिए आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है।

उत्पादों के निर्यात जो अच्छी वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं, उनमें आटा, स्टार्च, चिप्स और रेडी-टू-ईट (खाने के लिए तैयार) आदि शामिल हैं। इन

कंपनियों का राजस्व मामूली बढ़ा, दूसरी तिमाही में परिचालन लाभ 0.6% कम

● **क्रिसिल रेटिंग्स ने किया 600 कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण**

मुंबई, एजेंसी

भारतीय कंपनियों का राजस्व जुलाई-सितंबर तिमाही में छह प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। गुरुवार को जारी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार, परिचालन लाभ में सालाना आधार पर 0.6% की कमी आई है।

एजेंसी ने कहा कि बिजली, कोयला, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा और इस्पात क्षेत्रों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद दूसरी तिमाही में कॉर्पोरेट राजस्व में सालाना आधार पर मामूली 5-6% की वृद्धि की उम्मीद है। एजेंसी ने 600 कंपनियों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया और कहा कि धीमी वृद्धि वाली इन कंपनियों का कुल राजस्व में एक-तिहाई योगदान है। क्रमिक रूप से जुलाई-सितंबर के दौरान राजस्व वृद्धि पूर्ववर्ती अप्रैल-जून तिमाही की तुलना में एक प्रतिशत अधिक होगी।

2024 में डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी 99.7%: आरबीआई

मुंबई, एजेंसी

देश में 2024 के दौरान भुगतान प्रणाली में मात्रा के हिसाब से डिजिटल भुगतान लेनदेन 99.7% और मूल्य के हिसाब से 97.5% रहा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की गुरुवार को जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रिपोर्ट अनुसार, यह प्रवृत्ति 2025 की पहली छमाही में भी जारी रही। रिजर्व बैंक की जून की अर्धवार्षिक भुगतान प्रणाली रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हाल के वर्षों में भुगतान प्रणाली में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। देश में भुगतान प्रणाली कई प्रकार के तरीकों का समूह है, जो उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के लिए बनाया गया है। इनमें कागज आधारित साधन जैसे चेक और डिजिटल भुगतान दोनों हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों



● **रिपोर्ट के अनुसार, भुगतान प्रणाली में हुई तेज वृद्धि**

में एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनएससीएच, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, प्रोपेड भुगतान और यूपीआई हैं। सभी प्रकार के भुगतान में वृद्धि हो रही है, सिवाय कागज आधारित साधनों के। मूल्य के हिसाब से चेक कुल लेनदेन का 2.3% हिस्सा है। 2019 में कुल 3,248 करोड़ भुगतान हुए थे, जो 2024 तक बढ़कर 20,849 करोड़ हो गए। इसी अवधि में कुल भुगतान की रकम 1,775 लाख करोड़ से बढ़कर 2,830 लाख करोड़ रुपये हो गई। 2025 को समाप्त छमाही में 12,549 करोड़ लेन-देन हुए।

अभिभावक नहीं बेच सकते नाबालिग की संपत्ति

नाबालिग संपत्ति पर फैसला, कोर्ट की बिना मंजूरी के संपत्ति हस्तांतरण को अस्वीकार करने को मुकदमे की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी

उच्चतम न्यायालय ने नाबालिगों से जुड़े संपत्ति लेनदेन पर महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वयस्क होने पर अपने स्वाभाविक अभिभावकों द्वारा अदालत की मंजूरी के बिना संपत्ति हस्तांतरण को अस्वीकार करने के लिए मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है।

7 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई नाबालिग वयस्क हो जाता है, तो वह अभिभावक द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण को अस्वीकार कर सकता है, जैसे कि उस संपत्ति को स्वयं बेच देना या किसी को स्थानांतरित कर देना। यह फैसला न्यायमूर्ति पंकज मिथल और प्रसन्ना भी वराले की पीठ ने केएस शिवया बनारम श्रीमती के नीलामा मामले में सुनाया। न्यायमूर्ति मिथल ने



कहा कि यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा निष्पादित ‘अमान्य करने योग्य’ (वॉयडेबल) लेनदेन को वह नाबालिग वयस्कता हासिल करने पर ऐसे लेनदेन को निरस्त करने के लिए मुकदमा दायर करके या अपने निर्विवाद प्रवर्तन से अस्वीकार या नजरअंदाज कर सकता है।

विवादास्पद प्रश्न यह था कि क्या नाबालिगों के लिए यह आवश्यक है कि वे अभिभावक द्वारा निष्पादित

सीजेआई की तरफ जूता फेंकने का प्रयास करने वाले वकील के खिलाफ अवमानना याचिका पर 27 को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय कार्यवाही के दौरान इस माह के प्रारंभ में प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता उछलने का प्रयास करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाई संबंधी याचिका पर 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई 27 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। छह अक्टूबर को चौकाने वाली सुरक्षा चूक में, 71 वर्षीय किशोर ने न्यायालय कक्ष में

प्रधान न्यायाधीश की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया, जिसके बाद भारती विधिज्ञ परिषद ने तत्काल प्रभाव से उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया। इस घटना के दौरान और उसके बाद भी अविवर्तित रहे प्रधान न्यायाधीश ने अदालत के अधिकारियों और मौजूद सुरक्षाकर्मियों से इसे अनदेखा करने को कहा और दोषी वकील को चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस घटना की समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यापक निंदा की गई तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधान न्यायाधीश से बात की और घटना को ‘निंदनीय’ करार दिया।

पूर्व विक्रय विलेख को रद्द कराने को वयस्क होने पर निर्धारित समयवधि के भीतर वाद दायर करें। इसमें कहा गया कि प्रश्न यह है कि क्या वयस्क होने के तीन वर्ष के भीतर उनके आचरण से इस तरह के विलेख विलेख को अस्वीकृत किया जा सकता है। पीठ ने हिन्दू

अप्राप्तवयता संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 7-8 का हवाला दिया तथा कहा कि प्रावधानों को सरलता से पढ़ने से स्पष्ट होता है कि नाबालिग के अभिभावक को अदालत की अनुमति के बिना नाबालिग की संपत्ति के किसी भी हिस्से को बंधक रखने, बेचने, उपहार

दिल्ली में मुठभेड़ बिहार के चार वांछित अपराधी मारे गए

नई दिल्ली। रोहिणी इलाके में दिल्ली और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में चार वांछित अपराधी मारे गए। ये अपराधी बिहार में वसूली और हत्या के मामलों में संलिप्त थे।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपियों में सीतामढ़ी जिले के रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं, जो ‘सिग्मा गिरोह’ थे। गिरोह के सरगना रंजन पाठक पर 25,000 का इनाम था और वह आठ मामलों में वांछित था। पुलिस ने रंजन को खूंखार अपराधी बताते हुए कहा कि तीन महीने में वह वसूली व हत्या के चार मामलों से पांच में लिप्त रहा था। हाल में 13 अक्टूबर के मामले में, उत्तरे एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी थी और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

संवैधानिक शासन प्रणाली में अदालतों की सक्रिय भूमिका

नई दिल्ली, एजेंसी

जनता के विश्वास को न्यायपालिका की मूल्यवान संपत्ति बताते हुए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक शासन प्रणाली और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में न्यायालयों में सीतामढ़ी जिले के रंजन पाठक, बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश सहनी, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं, जो ‘सिग्मा गिरोह’ थे। गिरोह के सरगना रंजन पाठक पर 25,000 का इनाम था और वह आठ मामलों में वांछित था। पुलिस ने रंजन को खूंखार अपराधी बताते हुए कहा कि तीन महीने में वह वसूली व हत्या के चार मामलों से पांच में लिप्त रहा था। हाल में 13 अक्टूबर के मामले में, उत्तरे एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी थी और रकम न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।



● **भूटान की यात्रा पर गए सीजेआई गवई ने स्कूल ऑफ लॉ के कार्यक्रम को किया संबोधित**

उन्होंने न्यायालय और संवैधानिक शासन षय पर न्यायालयों की सक्रिय भूमिका सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। सीजेआई ने कहा कि मैं एक व्यापक बिंदु पर जोर देना चाहता हूँ, किसी देश की अदालतों की संवैधानिक शासन प्रणाली में और संविधान के कार्यक्षेत्र को पूरा करने में एक सक्रिय एवं अपरिहार्य भूमिका होती है।

राजग के विकास और महागठबंधन के विनाश के बीच मुकाबला : नड्डा

बिहार विस चुनाव



औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते जेपी नड्डा।

औरंगाबाद (बिहार), एजेंसी

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के विकास और ‘इंडिया’ गठबंधन के ‘विनाश’ के बीच की लड़ाई है। औरंगाबाद की जनसभा में नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे ऐसी परजीवी पार्टी बताया, जो अपने छोटे सहयोगी दलों को समाप्त कर देती है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा

तेजस्वी के वादे अव्यावहारिक, नौकरी के बहाने जमीन छीनने की साजिश: रविशंकर प्रसाद

पटना। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को अव्यावहारिक करार देते हुए दावा किया कि राजद लोगों को सरकारी नौकरी देने के बहाने उनकी जमीन छीनने की साजिश रच रहा है। उन्होंने वे दिपष्णी राजद शासनकाल के दौरान भूमि के बदले नौकरी घोटाले की ओर इशारा करते हुए की। भाजपा नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव ने राज्य के 2.6 करोड़ परिवारों में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इसके लिए 12 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि बिहार का कुल बजट तीन लाख करोड़ है। ऐसे में वे यह वादा कैसे पूरा करेंगे?



कि लालू प्रसाद की पार्टी रंगदारी, गठबंधन है, जो राज्य के लिए केवल विनाश लाएगा। नड्डा ने तेजस्वी यादव द्वारा युवाओं को रोजगार देने और पलायन रोकने के वादे पर तंज कसते हुए कहा कि राजद की ऐसी घोषणाएं भूमि के बदले नौकरी घोटाले को याद दिलाती हैं। उन्होंने राजद के इस चुनावी वादे की आलोचना की कि बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। नड्डा ने सवाल उठाया कि इसके लिए धन कहाँ से आएगा और वेतन कैसे दिया जाएगा।

तेजस्वी बने सीएम पद के उम्मीदवार

पटना। महागठबंधन ने बिहार चुनाव के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं में कांग्रेस नेता अशोक गहलौत ने तेजस्वी के नाम की घोषणा की। तेजस्वी मुख्यमंत्री, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक मुखेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। समाज के अन्य वर्गों से भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर उसमें कितने उप मुख्यमंत्री होंगे। ‘सन ऑफ मल्लाह’ के नाम से मशहूर सहनी निषाद जाति से आते हैं।

तेजस्वी सीएम नहीं बन सकते : नित्यानंद

पटना। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि महागठबंधन ने भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, लेकिन जनता उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। राय ने कहा कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री का चयन जनता करती है और जनता प्रधानमंत्री मोदी के विकास पर भरोसा करती है। बिहार ने 20 वर्षों में नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा ही नहीं, बल्कि सराहा भी है। राय ने आरोप लगाया कि जनता से तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बन गई तो बिहार में गलत राज लौट आएगा। हत्या, लूट, बलात्कार, जमीन-जायदाद की लूटपाट शुरू हो जाएगी और बिहार 1990 से 2005 के दौर में वापस चला जाएगा।

महागठबंधन विभाजित कुनबा, क्या तेजस्वी विपक्ष के नेता बन पाएंगे: भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन को ‘विभाजित कुनबा’ करार देते हुए राजद से कहा कि उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव नहीं जी की घोषणा के बाद विपक्ष के नेता भी बन पाएंगे या नहीं। विस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की प्रचंड जीत का भरोसा जगते हुए भाजपा ने दावा किया कि तेजस्वी और मुखेश सहनी को मजबूरी के वलते

नुनाव से पहले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि राजद ने पटना में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लगाए पोस्टर में राहुल गांधी की जगह तेजस्वी का चेहरा प्रदर्शित कर पार्टी को उसकी ओकात दिखा दी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि महागठबंधन विभाजित कुनबा है। इसलिए वे एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे।

वर्ल्ड ब्रीफ

अमेरिकी सेना ने मादक पदार्थ तस्करी करने वाले जहाज को डुबोया

वाशिंगटन। अमेरिकी सेना ने अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में आठवें मादक पदार्थ तस्करी जहाज को डुबी दिया, जिसके कारण दो लोगों की मौत हो गई। यह प्रशांत क्षेत्र में इस तरह का पहला हमला था, जिसमें दो लोग मारे गए। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बुधवार को एक्स पर में लिखा, कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर युद्ध विभाग ने एक नामित आतंकवादी संगठन द्वारा संचालित एवं पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक जहाज पर घातक गतिज हमला किया। उन्होंने ने जहाज पर मादक पदार्थ ले जाने और एक ज्ञात मादक पदार्थ तस्करी पारगमन मार्ग से गुजरने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, जैसे अल-कायदा ने हमारी मातृभूमि पर युद्ध छेड़ा था, वैसे ही ये कार्टेल हमारी सीमा और हमारे लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। न कोई शरण मिलेगी, न कोई क्षमा, केवल न्याय।

दुबई: दिवाली समारोह में भारतीय छात्र की हृदयाघात से मौत

दुबई। यूपीए का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले 18 वर्षीय भारतीय छात्र की दिवाली समारोह के दौरान दुबई में हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई। गल्फ न्यूज की बुधवार की खबर के अनुसार, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई में बीबीए मार्केटिंग के प्रथम वर्ष के छात्र वैष्णव कृष्णकुमार की मंगलवार को ‘दुबई इंटरनेशनल एकेडमिक सिटी’ में दिवाली समारोह के दौरान अचानक मृत्यु हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे हृदय गति रुकने के कारण मृत घोषित कर दिया। परिवार के अनुसार, दुबई पुलिस का फॉरेंसिक विभाग जांच कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि वैष्णव को हृदय संबंधी कोई ज्ञात समस्या नहीं थी।

अमेरिका : नशे में धुत भारतीय ट्रक चालक ने मारी टक्कर, तीन मरे न्यूयॉर्क।अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में भारतीय मूल के ट्रक चालक पर नशे में गाड़ी चलाने और एक दुर्घटना का कारण बनने का आरोप लगाया गया है। इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी। स्थानीय मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। फॉक्स न्यूज ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि जशप्रीत सिंह (21) ने मंगलवार को दक्षिणी कैलिफोर्निया में धीमी गति से चल रहे वाहनों को कथित तौर पर अपने ट्रक से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंह ने अपने ट्रक को ट्रैफिक जाम में घुसाने से पहले कभी ब्रेक नहीं मारी था।

गगनयान : 2027 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा मानवयुक्त मिशन

बेंगलुरु। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बृहस्पतिवार को कहा कि गगनयान मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और लगभग 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है।

नारायणन ने कहा, गगनयान मिशन पर बहुत अच्छी तरह काम जारी है। आप जानते हैं कि बहुत सारे तकनीकी विकास होने हैं। रॉकेट का मानव-रहित प्रमाणन होना है, कक्षीय मॉड्यूल विकसित करना है और पर्यावरण नियंत्रण सुरक्षा प्रणाली विकसित करनी है। फिर चालक दल

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज

लंदन, एजेंसी

भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत की पुस्तक ‘द बर्निंग अर्थ: एन एनवायरनमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 इयर्स’ को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 25,000 पाउंड दिए जाते हैं। यह पुरस्कार दुनियाभर की सर्वश्रेष्ठ गैरकाल्पनिक पुस्तकों को दिया जाता है।

अमेरिका के येल् विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर सुनील अमृत का जन्म केन्या में हुआ था। उनके माता-पिता दक्षिण भारतीय हैं। वे सिंगापुर में पलेबढ़े और इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक प्राप्त हैं। अमृत की इस नवीनरम पुस्तक को बुधवार शाम लंदन में ब्रिटिश एकेडमी



● **जलवायु संकट से आगाह करती है अमृत की पुस्तक द बर्निंग अर्थ**

में एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। निर्णायकों ने इस पुस्तक को जलवायु संकट के संदर्भ में महत्वपूर्ण बताया। अमृत ने कहा कि मुझसे कई बार पूछा गया है कि क्या ‘द बर्निंग अर्थ’ निराश करने वाली पुस्तक है। उन्होंने कहा, इसमें निस्संदेह मानव और पर्यावरणीय पीड़ा का विवरण है, लेकिन यह भी दिखाता है कि इन दोनों का संबंध गहराई से जुड़ा रहा है।

नेतन्याहू के दांव पर भड़के अमेरिकी उपराष्ट्रपति, कहा- ये अपमानजनक

वेंस के दौरे के बीच इजराइली संसद में हुआ वेस्ट बैंक के विलय के लिए मतदान

यरुशलम, एजेंसी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने दौरे के बीच वेस्ट बैंक के विलय पर इजराइल की संसद में हुए मतदान की सख्त आलोचना की। उन्होंने इसे मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट और अपमानजनक बताया। उधर, इससे पहले वेंस से वार्ता के दौरान इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में तुर्किये की उपस्थिति के साथ कई बिंदुओं पर विरोध जताया।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दो दिन पहले इजराइल के दौरे पर पहुंचे थे। उनके दौरे के बीच ही इजराइल की संसद नेसेंट में वेस्ट बैंक के विलय को लेकर मतदान कराया गया। वेंस ने इजराइल यात्रा के समापन पर प्रस्थान करने से पहले तेल अवीव के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस कदम को एक अपमान बताया। वेंस ने कहा, यदि यह मतदान एक राजनीतिक स्टंट था तो यह एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण राजनीतिक स्टंट है। वेंस ने इजराइल की संसद नेसेंट में हुए मतदान को लेकर कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे अपमानजनक मानता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति यह है कि वेस्ट बैंक को इजराइल द्वारा नहीं हड़पा जाएगा। इससे पहले इजराइली प्रधानमंत्री



इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस।

युद्ध विराम के बाद पहली बार डब्ल्यूएचओ ने गाजा से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को निकाला

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गाजा पट्टी से 41 गंभीर रूप से बीमार मरीजों और 145 सहयोगियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। यह युद्धविराम लागू होने के बाद पहली ऐसी कार्रवाई है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसस ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, डब्ल्यूएचओ ने गाजा से 41 गंभीर मरीजों और 145 सहयोगियों की चिकित्सा निकासी का नेतृत्व किया, यह युद्धविराम के बाद पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि लगभग 15,000 मरीजों को अभी भी चिकित्सा निकासी की तत्काल आवश्यकता है और वे गाजा के बाहर उपचार के लिए अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। टेड्रोस ने राष्ट्री से एकजुटता दिखाने और इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी संभावित मार्ग खोलने की अपील दोहराई।

बेंजामिन नेतन्याहू ने येरूशलम में बुधवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक में युद्धविराम समझौते के अगले चरणों के कार्यान्वयन की इच्छा व्यक्त की। नेतन्याहू ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी रेखांकित किया जिनका समाधान न होने पर आगे

की प्रगति बाधित हो सकती है। उन्होंने गाजा पट्टी में तुर्किये की किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करने की इजराइल की मांग और गाजा पट्टी के प्रशासन में फिलिस्तीनी प्राधिकरण या हमास की किसी भी भागीदारी पर अपने विरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख किया।

अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगानए प्रतिबंध

वॉशिंगटन, एजेंसी

रूस पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाने को अमेरिका ने मास्को को दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त

मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को यह घोषणा करते हुए मास्को की निरर्थक युद्ध समाप्त न करने की जिद की कड़ी आलोचना की।

बेसेंट ने कहा कि रोसनेफ्ट और लुकोइल सहित दर्जनों सहायक कंपनियों पर लगाए गए ये प्रतिबंध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महीनों से पड़ रहे द्विदलीय दबाव के बाद लगाए गए हैं, जिसमें रूस के तेल उद्योग को और कड़े प्रतिबंधों के दायरे में लाने



● **अमेरिकी वित्त मंत्री ने कहा- जरूरत पड़ी तो और भी कार्रवाई करेंगे**

की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा, यह समय हत्या बंद करने और तत्काल युद्धविराम का है। बेसेंट ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मंत्रालय अतिरिक्त कार्रवाई करने को तैयार है, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध समाप्त करने के प्रयासों को समर्थन मिल सके। उन्होंने कहा, हम अपने

कफाला सिस्टम खत्म



श्रमिकों पर अमानवीय नियंत्रण

- कफाला सिस्टम नियोवताओं को श्रमिकों पर पूर्ण नियंत्रण देता था, इससे यह गुलामी के समान हो गया था।
- नियोवता श्रमिकों के पासपोर्ट और पहचान पत्र जब्त कर लेते थे ताकि वे उनकी मर्जी बिना कहीं न जा सकें।
- श्रमिक अपने कफ़ील की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे, इससे वे शोषण का शिकार होते थे।
- वेतन में देरी या देने से मना कर देने पर भी श्रमिकों की ओर से विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी।
- श्रमिको को अक्सर लंबे समय तक काम करना पड़ता था, वे अमानवीय स्थितियों में रहने के लिए मजबूर थे।

इन देशों में भी कफाला सिस्टम

खाड़ी सहयोग परिषद के कई देशों में कफाला सिस्टम लागू है, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और लेबनान शामिल है। इनमें से कुछ देशों ने हाल के वर्षों में सुधार किए हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे खत्म नहीं किया गया है।

आसियान में भी ट्रंप से नहीं होगी मुलाकात वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 वें आसियान -भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेने के निर्णय से उनकी मलेशिया यात्रा और वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री के मुताबिक मोदी ने भारत में चल रहे त्योहारों को शिखर सम्मेलन में न जाने का कारण बताया है।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) -भारत शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में हो रहा है। गुरुवार को पहले प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वयं यह जानकारी दी, बाद में विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के

सिंगापुर: पटाखे फोड़ने पर भारतीय गिरफ्तार

सिंगापुर। सिंगापुर में दिवाली के जश्न के दौरान आतिशबाजी करने के आरोप में बृहस्पतिवार को 39 वर्षीय भारतीय मूल के एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। शहर में आतिशबाजी पर प्रतिबंध है। चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिलीप कुमार निर्मल कुमार ने पिछले हफ्ते कार्लिस्ले रोड के खुले मैदान में आतिशबाजी की, जो बंदूक, विस्फोटक और हथियार नियंत्रण अधिनियम 2021 के तहत अपराध है। यह मामला तब सामने आया जब आतिशबाजी का एक वीडियो विलप ऑनलाइन पोस्ट किया गया।



● **अटकों पर लगा विराम, भारत में चल रहे त्योहारों को बताया कारण**

नियंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 26 अक्टूबर को इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। भारत का कहना है कि आसियान के साथ संबंधों को मजबूत करना उसकी एकट्र ईस्ट नीति और हमारे हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ है। साथ ही वक्तव्य में कहा गया है कि विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर 27 अक्टूबर को कुआलालंपुर में 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिनिधित्व करेंगे।

मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा

तंजानिया में आम चुनाव से कुछ दिन पहले शीर्ष विपक्षी नेता गिरफ्तार

दार एस सलाम। तंजानिया में अगले हफ्ते होने वाले आम चुनाव से पहले असहमति जताने वालों पर कार्रवाई के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, चाडेमा के उप-अध्यक्ष जॉन हेचे को पार्टी नेता ट्रंज़ू लिस्सू के राजद्रोह के मुकदमे में शामिल होने की कोशिश करते समय

हिरासत में लिया गया। चाडेमा ने एक बयान में आरोप लगाया कि सरकार वरिष्ठ पार्टी नेताओं को गिरफ्तार करने और उन्हें 29 अक्टूबर को होने वाले चुनावों तक हिरासत में रखने की योजना बना रही है। सरकार ने इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाडेमा ने कहा कि हेचे को बुधवार को दार एस सलाम स्थित उच्च न्यायालय पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया।

यूरोपीय संघ ने भी कई और प्रतिबंध लगाए

ब्रसेल्स। यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ाने के लिए बृहस्पतिवार को रूस पर कई और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।

हालांकि, रूसी अधिकारियों ने पश्चिमी देशों के दंडात्मक उपायों को काफी हद तक अप्रभावी बताते हुए खारिज कर दिया। इन प्रतिबंधों को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के लिए जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जो अपने देश में युद्ध को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से रूस के खिलाफ कड़े उपाय लागू करने की मांग करते आए हैं।

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

सुडोकू - 138 का हल								
			4		1	3		
6	3	7						
			8				7	
		2		9				
3		6						
			1		2			
9	7	5						
			8	2	9			
2	4		6					

5	6	2	3	4	9	1	8	7
7	8	9	5	1	6	3	2	4
4	1	3	7	8	2	9	6	5
2	5	7	1	9	4	8	3	6
6	4	1	8	3	5	7	9	2
3	9	8	6	2	7	5	4	1
1	2	5	9	6	8	4	7	3
9	3	4	2	7	1	6	5	8
7	8	6	4	5	3	2	1	9

आज का महिषाफल - च.अं. अमोघद शर्मा

आज की ग्रह स्थिति : 28 अक्टूबर, शुक्रवार 2025 संवत -2082, शक संवत 1947

मास-कार्तिक, पक्ष-शुक्ल पक्ष, तृतीया 25 अक्टूबर 01-19 तक तपश्चात चतुर्थी।

8	च.	मं.	शु.	6	के.
9	बु.	सु.	7	गु.	
	10		4		
		1			
11	रा.	12	श.	2	3

दिशाशूल– पश्चिम, **ऋतु**– हेमंत। चन्द्रबल– वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर, कुंभ। ताराबल- अश्विनी, कृतिका, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती।

नक्षत्र– अनुराधा पूर्णा रात्रि तक।

	मेघ
	वृष
	मिथुन
	कर्क
	सिंह
	कन्या

आज राजनीति क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी, व्यापार तथा छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी यात्रा के योग बन सकते हैं। रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहेगा। आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होगा।

आज स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी रखे। मकान-जमीन के कार्यों से धन लाभ की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवनसाथी से संबंध मधुर होगा।

आज सरकारी कार्य बिना अवरोध के पूर्ण होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शिक्षकों का साथ मिलेगा। संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बनाकर चलें।

आज नौकरी में स्थितियों पहले से और अच्छे होंगी। व्यापारिक क्षेत्र से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी खानपान का ध्यान रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है।

आज का दिन कठिन, लेकिन लाभप्रद भी रहेगा। आपको कुछ अलग और रचनात्मक काम करने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर काम का अधिक दबाव रहेगा। किसी बात को लेकर परिवार में मतभेद हो सकते हैं।

आज आपको कई नए और उत्साहवर्धक कार्य मिलेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा व आपस में संबंध भी बेहतर होंगे। आप अपने काम के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको उसका प्रतिफल मिलेगा।

	तुला
	वृश्चिक
	धनु
	मकर
	कुंभ
	मीन

आज आप उन सभी क्षेत्रों में सफल होंगे, जिनमें आप प्रयास करेंगे। आप किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर परेशान हो सकते हैं। आर्थिक मामलों आपके पक्ष में रहेंगे, आपकी कमाई अच्छी रहेगी। आप निवेश के द्वारा भी कमाई कर सकते हैं।

आज युवा साथी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान व आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंग। वैवाहिक जीवन बेहद रोमांटिक रहेगा। घर में प्रसन्नता का माहौल रहने वाला है। आपके उदार व्यवहार की लोग प्रशंसा करेंगे।

आज जीवनशैली में कुछ बदलाव आ सकते हैं, जिसे अपनाने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शाम को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में वृद्धि के लिए निवेश कर सकते हैं। एकाग्रचित होकर अपने काम पर ध्यान दें।

आज व्यापार को लेकर नए अनुबंध हो सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। बॉस आपकी राय व विचारों के आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है।

आज नया काम शुरू न करें। कानूनी पच्चों में घिरने की आशंका है। पुरुष जातकों की महिला सहकर्मियों से अनबन हो सकती है। समाज में आपका वर्चस्व कम हो सकता है। दांपत्य संबंधों में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न न होने दें।

आज आपकी योजनाएं समय पर पूर्ण होंगी। दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहना उचित नहीं है। पूर्व में की गई मेहनत का सुखद परिणाम प्राप्त होगा। प्रेम विवाह को परिवार की सहमति मिल सकती है। छात्रों को बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं।

